



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2069]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2015/आश्विन 2, 1937

No. 2069]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2015/ASVINA 2, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2015

का.आ. 2618(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3280(अ), तारीख 26 दिसम्बर, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लु जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के 272.000 कि.मी. से 310.400 कि.मी. (नेर चौक-मनाली सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुसूचण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 15 अप्रैल, 2015 को "दि ट्रिब्यून" (अंग्रेजी) और "दैनिक जागरण" (हिन्दी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

## अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के 272.00 कि.मी. से 310.400 कि.मी. (नेरचौक से मनाली सेक्शन) के लिए, अर्जन की जाने वाली संरचनासहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

1	2	3	4	5		6	7	8	9
क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	गांव	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल	हितबद्ध व्यक्ति का नाम
				विभाजन से पहले	विभाजन के बाद				
1	कुल्लू	1. कुल्लू	1. डोभा	274	274	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0-55-78	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
				277	277/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु. दरिया	0-09-82	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				271	271/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-00-40	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				276	276/1	हि.प्र.सरकार	गै.मु. दरिया	0-11-60	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				272	272	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0-56-93	हि.प्र. सरकार सरआम
				275	275/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु. दरिया	0-01-26	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				238	238/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-00-05	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				किता	7			1-35-84	
			2. कांगती	700	700/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.मन्दिर	0-00-56	हि.प्र. सरकार अहेले हनुध
				698	698	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सराय	0-05-80	हि.प्र. सरकार अहेले हनुध
				712	712/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-05-70	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				697	697	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सराय	0-07-28	हि.प्र. सरकार अहेले हनुध
				716	716/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु. दरिया	0-46-00	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				किता	5	कुल		0.65.34	
			3.उसनी-घार	615	615/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु. नाला	0-01-19	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन

				617	617/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु. दरिया	0-06-28	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				601	601/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-11-46	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				616	616/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु. नाला	0-12-34	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				614	614/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-11-26	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				613	613	हि.प्र. सरकार	गै.मु. सड़क	0-42-00	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
				605	605	हि.प्र. सरकार	गै.मु. आबादी	0-16-75	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				612	612	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-06-32	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				604	604	हि.प्र. सरकार	गै.मु. आबादी	0-01-15	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
				606	606/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-01-80	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				किता .10				1-17-00	
			4. बबेली (बनोगी)	630	630/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु. नाला	0-01-02	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				633	633/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु. दरिया	0-02-94	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				629	629/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-24-11	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				635	635/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-01-84	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				632	632	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-28-27	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				619	619/1	निजी	रोप. अबल	0-00-48	गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह स्थानीय बबेली कब्जा स्वयं लोक निर्माण विभाग
				624	624/1	हि.प्र. सरकार/निजी	गै.मु. दुकान और मकान	0-00-05	हि.प्र. सरकार/सतीश कुमार पुत्र गौतम चन्द पुत्र तुलसी राम स्थानीय सेहयू कोटी कारस्थ
				625	625/1	निजी	गै.मु. दुकान और मकान	0-00-28	सतीश कुमार पुत्र गौतम चन्द पुत्र तुलसी राम स्थानीय बबेली बनोगी कब्जा स्वयं

				618	618/1	निजी	रोपा अबल	0-00-87	गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह स्थानीय बबेली कब्जा स्वयं लोक निर्माण विभाग
				603	603/1	निजी	गै.मु. सेहन	0-00-40	गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह स्थानीय बबेली कब्जा स्वयं लोक निर्माण विभाग
				607	607/1	निजी	गै.मु. सेहन	0-00-75	गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह स्थानीय बबेली कब्जा स्वयं लोक निर्माण विभाग
				602	602	हि.प्र. सरकार	गै.मु. सड़क	0-04-28	हि.प्र. सरकार सरे आम
				609	609/1	निजी	गै.मु. सेहन	0-00-35	गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह स्थानीय बबेली कब्जा स्वयं लोक निर्माण विभाग
				610	610/1	निजी	गै.मु. सेहन	0-00-28	गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह स्थानीय बबेली कब्जा स्वयं लोक निर्माण विभाग
				612	612/1	निजी	गै.मु. सेहन	0-00-16	गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह स्थानीय बबेली कब्जा स्वयं लोक निर्माण विभाग
				613	613/1	निजी	गै.मु. सेहन	0-00-20	गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह स्थानीय बबेली कब्जा स्वयं लोक निर्माण विभाग
				616	616/1	निजी	गै.मु. सड़क	0-00-18	गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह स्थानीय बबेली कब्जा स्वयं लोक निर्माण विभाग
				601	601	हि.प्र. सरकार	गै.मु. सड़क	0-09-69	हि.प्र. सरकार/घनवंत सिंह उर्फ रनधीर सिंह विजय कुमार उर्फ विजय सेन गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र और श्रीमति कृष्णा देवी पुत्री बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह बराबर भाग 4 हिस्सा अमित सुमित पुत्र और कुमारी पूजा पुत्री श्रीमति सुनिता देवी पुत्री बेली सिंह बराबर भाग 1 भाग श्रीमति कमला देवी पत्नी स्वं रघुवीर सिंह उर्फ वचीतर सिंह पुत्र बेली सिंह 1 हिस्सा, कुमारी शिल्पा पुत्री राजेश कुमार पुत्र बेली सिंह 1 भाग मरफत कब्जा लोक निर्माण विभाग तबे मरजी
				599	599/1	निजी	गै.मु. दुकान और मकान	0-00-60	कुल भाग 408200 गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह (54415) हिस्सा

									<p>हरिश कुमार सुरेश कुमार पुत्र कृष्ण लाल पुत्र नानक चन्द बराबर भाग 69237 हिस्सा भास्त्री नगर कुल्लू</p> <p>भुशण पुत्र और कुमारी रोहनी पुत्री श्रीमति सपना कुमारी पुत्री बलवंत राय बराबर भाग 18200 हिस्सा पुत्री और श्रीमति कमलेश कुमारी विधवा बलवंत राय पुत्र नामालुम 20800 हिस्सा</p> <p>परस राम पुत्र हरि राम पुत्र संगत राम 21980 हिस्सा श्रीमति नर्मदा पत्नी कल्याण चन्द पुत्र संत राम 15700 हिस्सा</p> <p>तृशला महिला कुटीर उद्योग 128740 हिस्सा स्थानीय सामग्री</p> <p>ईद पाल सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र इशर सिंह 79128 हिस्सा स्थानीय अखारा बाजार कुल्लू कास्थ और कब्जा स्वयं</p>
				597	597/1	निजी	बंजर कदीम	0-00-40	<p>कुल भाग 408200</p> <p>गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह (54415) हिस्सा</p> <p>हरिश कुमार सुरेश कुमार पुत्र कृष्ण लाल पुत्र नानक चन्द बराबर भाग 69237 हिस्सा भास्त्री नगर कुल्लू</p> <p>भुशण पुत्र और कुमारी रोहनी पुत्री श्रीमति सपना कुमारी पुत्री बलवंत राय बराबर भाग 18200 हिस्सा पुत्री और श्रीमति कमलेश कुमारी विधवा बलवंत राय पुत्र नामालुम 20800 हिस्सा</p> <p>परस राम पुत्र हरि राम पुत्र संगत राम 21980 हिस्सा श्रीमति नर्मदा पत्नी कल्याण चन्द पुत्र संत राम 15700 हिस्सा</p> <p>तृशला महिला कुटीर उद्योग 128740 हिस्सा स्थानीय सामग्री</p> <p>ईद पाल सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र इशर सिंह 79128 हिस्सा स्थानीय अखारा बाजार कुल्लू कास्थ ओर कब्जा स्वयं</p>
				598	598/1	निजी	रोपा अवल	0-00-25	<p>कुल भाग 408200</p> <p>गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह (54415) हिस्सा</p> <p>हरिश कुमार सुरेश कुमार पुत्र कृष्ण लाल पुत्र नानक चन्द बराबर भाग 69237 हिस्सा</p>

									भास्त्री नगर कुल्लू मुशण पुत्र और कुमारी रोहनी पुत्री श्रीमति सपना कुमारी पुत्री बलवंत राय बराबर भाग 18200 हिस्सा पुत्री ओर श्रीमति कमलेश कुमारी. विधवा बलवंत राय पुत्र नामालुम 20800 हिस्सा परस राम पुत्र हरि राम पुत्र संगत राम 21980 हिस्सा श्रीमति नर्मदा पत्नी कल्याण चन्द पुत्र संत राम 15700 हिस्सा तृशला महिला कुटीर उद्योग 128740 हिस्सा स्थानीय सामग्री ईंद्र पाल सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र इशर सिंह 79128 हिस्सा स्थानीय अखारा बाजार कुल्लू कास्थ ओर कब्जा स्वयं
			595	595/1	निजी	गै मु भागल कारखाना	0-03-35	कुल भाग 408200 गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह (54415) हिस्सा हरिश कुमार सुरेश कुमार पुत्र कृष्ण लाल पुत्र नानक चन्द बराबर भाग 69237 हिस्सा भास्त्री नगर कुल्लू मुशण पुत्र ओर कुमारी रोहनी पुत्री श्रीमति सपना कुमारी पुत्री बलवंत राय बराबर भाग 18200 हिस्सा पुत्री ओर श्रीमति कमलेश कुमारी विधवा बलवंत राय पुत्र नामालुम 20800 हिस्सा परस राम पुत्र हरि राम पुत्र संगत राम 21980 हिस्सा श्रीमति नर्मदा पत्नी कल्याण चन्द पुत्र संत राम 15700 हिस्सा तृशला महिला कुटीर उद्योग 128740 हिस्सा स्थानीय सामग्री इन्द्र पाल सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र इशर सिंह 79128 हिस्सा स्थानीय अखारा बाजार कुल्लू कास्थ ओर कब्जा स्वयं	
			595/1	595/1/1	निजी	गै.मु सड़क	0-07-06	कुल भाग 408200 गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह (54415) हिस्सा हरिश कुमार सुरेश कुमार पुत्र कृष्ण लाल पुत्र नानक चन्द बराबर भाग 69237 हिस्सा भास्त्री नगर कुल्लू मुशण पुत्र ओर कुमारी रोहनी पुत्री श्रीमति सपना कुमारी पुत्री बलवंत राय बराबर भाग 18200 हिस्सा पुत्री ओर श्रीमति कमलेश कुमारी विधवा बलवंत राय पुत्र नामालुम 20800 हिस्सा	

									परस राम पुत्र हरि राम पुत्र संगत राम 21980 हिस्सा श्रीमति नर्मदा पत्नी कल्याण चन्द पुत्र संत राम 15700 हिस्सा तृशला महिला कुटीर उद्योग 128740 हिस्सा स्थानीय सामशी ईंद्र पाल सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र इशर सिंह 79128 हिस्सा स्थानीय अखारा बाजार कुल्लू कब्जा लोक निर्माण विभाग
			587	587/1	निजी	गै मु दुकान/रेस्टो रेंट	0-03-10	कुल भाग 600 धनवंत सिंह उर्फ रनधीर सिंह पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह 473 हिस्सा स्थानीय बबेली सुरेश कुमार, हरिश कुमार, पुत्र ओर कृष्ण लाल पुत्र नानक चन्द बराबर भाग 120 हिस्सा स्थानीय भास्त्री नगर कुल्लू भादी लाल पुत्र ब्यासदेव पुत्र गुरचरण 7 हिस्सा स्थानीय उप-मुहालसेबाग कब्जा स्वयं	
			572	572	हि.प्र. सरकार	गै मु सड़क	0-01-12	हि.प्र. सरकार/ धनवंत सिंह उर्फ रनधीर सिंह विजय कुमार उर्फ विजय सेन गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र ओर श्रीमति कृष्ण देवी पुत्री बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह बराबर भाग 4 हिस्सा अमित सुमित पुत्र ओर कुमारी पूजा पुत्री श्रीमति सुनिता देवी पुत्री बेली सिंह बराबर भाग 1 भाग श्रीमति कमला देवी पत्नी स्व रघुवीर सिंह उर्फ वचीतर सिंह पुत्र बेली सिंह 1 हिस्सा, कुमारी शिल्पा पुत्री राजेश कुमार पुत्र बेली सिंह 1 भाग मरफत कब्जा लोक निर्माण विभाग तबे मरजी	
			573	573	निजी	गै मु सड़क	0-03-45	कुल भाग 600 धनवंत सिंह उर्फ रनधीर सिंह पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह 473 हिस्सा स्थानीय बबेली सुरेश कुमार, हरिश कुमार, पुत्र ओर कृष्ण लाल पुत्र नानक चन्द बराबर भाग 120 हिस्सा स्थानीय भास्त्री नगर कुल्लू भादी लाल पुत्र ब्यासदेव पुत्र गुरचरण 7 हिस्सा स्थानीय उप-मुहालसेबाग कब्जा लोक निर्माण विभाग	
			586	586/1	निजी	गै मु भावल कारखाना	0-02-40	कुल भाग 600 धनवंत सिंह उर्फ रनधीर सिंह	

									<p>पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह 473 हिस्सा स्थानीय बबेली</p> <p>सुरेश कुमार, हरिश कुमार, पुत्र ओर कृष्ण लाल पुत्र नानक चन्द बराबर भाग 120 हिस्सा स्थानीय भास्त्री नगर कुल्लू</p> <p>भादी लाल पुत्र व्यासदेव पुत्र गुरचरण 7 हिस्सा स्थानीय उप-मुहालसेबाग कब्जा स्वयं</p>
				569	569	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-02-48	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				568	568	हि.प्र. सरकार	गै मु बारिडा भरान	0-00-72	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				570	570	हि.प्र. सरकार	गै मु सड़क	0-08-09	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
				571	571	हि.प्र. सरकार	गै मु सड़क	0-02-09	हि.प्र. सरकार/धनवंत सिंह उर्फ रनधीर सिंह विजय कुमार उर्फ विजय सेन गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र ओर श्रीमति कृष्ण देवी पुत्री बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह बराबर भाग 4 हिस्सा अमित सुमित पुत्र ओर कुमारी पूजा पुत्री श्रीमति सुनिला देवी पुत्री बेली सिंह बराबर भाग 1 भाग श्रीमति कमला देवी पत्नी स्व रघुवीर सिंह उर्फ वचीतर सिंह पुत्र बेली सिंह 1 हिस्सा, कुमारी शिल्पा पुत्री राजेश कुमार पुत्र बेली सिंह 1 भाग मरफत कब्जा लोक निर्माण विभाग तबे मरजी
				574	574	निजी	गै मु दुकान	0-00-76	<p>कुल भाग 600</p> <p>धनवंत सिंह उर्फ रनधीर सिंह पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह 473 हिस्सा स्थानीय बबेली</p> <p>सुरेश कुमार, हरिश कुमार, पुत्र ओर कृष्ण लाल पुत्र नानक चन्द बराबर भाग 120 हिस्सा स्थानीय भास्त्री नगर कुल्लू</p> <p>भादी लाल पुत्र व्यासदेव पुत्र गुरचरण 7 हिस्सा स्थानीय उप-मुहालसेबाग कब्जा स्वयं</p>
				575	575/1	निजी	गै मु दुकान	0-00-30	<p>कुल भाग 122</p> <p>धनवंत सिंह उर्फ रनधीर सिंह पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह 63 हिस्सा स्थानीय बबेली</p> <p>सुरेश कुमार, हरिश कुमार, पुत्र ओर कृष्ण लाल पुत्र नानक चन्द बराबर भाग 54 हिस्सा स्थानीय भास्त्री नगर कुल्लू</p> <p>भादी लाल पुत्र व्यासदेव पुत्र</p>



									गुरचरण 5 हिस्सा स्थानीय उप-मुहालसेबाग कास्थ और कब्जा स्वयं
				576	576/1	निजी	गै मु आबादी	0-02-85	कुल भाग 5  धनवंत सिंह उर्फ रनधीर सिंह विजय कुमार उर्फ विजय सेन गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह बराबर भाग 3 हिस्सा  श्रीमति कमला देवी पत्नी स्व रघुवीर सिंह उर्फ वचीतर, सिंह पुत्र बेली सिंह 1 हिस्सा,  कुमारी शिल्पा पुत्री राजेश कुमार पुत्र बेली सिंह 1 भाग  धनवंत सिंह उर्फ रनधीर सिंह, गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन, श्रीमति कमला देवी, विजय कुमार उर्फ विजय सेन, कुमारी शिल्पा हिस्सादारान बराबर भाग वयन परस राम 2/3 राम प्रसाद 1/3 पुत्र हरि राम पुत्र मंगत राम मुस्तरीन कब्जा स्वयं मुस्तरीन
				577	577/1	निजी	गै मु आबादी	0-01-55	कुल भाग 5  धनवंत सिंह उर्फ रनधीर सिंह विजय कुमार उर्फ विजय सेन गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह बराबर भाग 4 हिस्सा  श्रीमति कमला देवी पत्नी स्व रघुवीर सिंह उर्फ वचीतर सिंह पुत्र बेली सिंह 1 हिस्सा,  कुमारी शिल्पा पुत्री राजेश कुमार पुत्र बेली सिंह 1 भाग  धनवंत सिंह उर्फ रनधीर सिंह, गणेश कुमार उर्फ दिनेश सेन, श्रीमति कमला देवी, विजय कुमार उर्फ विजय सेन, कुमारी शिल्पा हिस्सादारान बराबर भाग वयन परस राम 2/3 राम प्रसाद 1/3 पुत्र हरि राम पुत्र मंगत राम मुस्तरीन कब्जा स्वयं मुस्तरीन
				567	567	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-36-21	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				566	566	हि.प्र. सरकार	गै मु सड़क.	0-76-97	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं लोक निर्माण विभाग
				478	478/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-26-58	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				565	565/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-05-18	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन

				550	550/1	निजी	बंजर कदीम	0-00-21	कुल भाग 20 कृष्ण कुमार पुत्र कोल सिंह पुत्र लज्जे राम 4 हिस्सा चमारु पुत्र ओर श्रीमति देखनी, श्रीमति चन्दमनी बराबर भाग 15 हिस्सा पुत्री बरसातू 1 हिस्सा पुत्र चुहलू पुत्र देबू स्थानीय बबेली/कब्जा स्वय
				539	539/1	निजी	गै मु कुहल	0-00-06	कुल भाग 60 तारा चन्द, जगरूप चन्द, पुत्र ओर श्रीमति उमरावति, श्रीमति दुर्गावती, श्रीमति किरन कुमारी पुत्री ओर श्रीमति हीरा देवी व श्रीमति हीरा विधवाए जोग राम पुत्र लज्जे राम बराबर भाग 12 हिस्सा  चदर किरन पुत्र टेक सिंह पुत्र लेख राम 4 हिस्सा  भगत सिंह पुत्र ओर श्रीमति ललीता देवी विधवा लेख राम पुत्र लज्जे बराबर भाग 8 हिस्सा  तारा सिंह पुत्र ओर श्रीमति निर्मला पुत्री ओर श्रीमति सधी देवी विधवा टीकम राम पुत्र लज्जे राम बराबर भाग 9 हिस्सा  मोहीन्दर सिंह, इन्द्र सिंह पुत्र ओर श्रीमति प्रोमिला पुत्री ओर श्रीमति पार्वति विधवा घनश्याम पुत्र टीकम राम बराबर भाग 3 हिस्सा  श्रीमति भगवति देवी विधवा कोल सिंह पुत्र लज्जे राम 12 हिस्सा श्रीमति स्नेह पत्नी सुरेश कुमार पुत्र राम लाल 12 हिस्सा स्थानीय बबेली बनोगी  कब्जा स्वय तारा चन्द जगरूप चन्द बराबर भाग हिस्सादारान
				536	536	निजी	गै मु दरिया	0-00-32	कुल भाग 60 तारा चन्द, जगरूप चन्द, पुत्र ओर श्रीमति उमरावति, श्रीमति दुर्गावती, श्रीमति किरन कुमारी पुत्री ओर श्रीमति हीरा देवी विधवा जोग राम पुत्र लज्जे राम बराबर भाग 12 हिस्सा  चदर किरन पुत्र टेक सिंह पुत्र लेख राम 4 हिस्सा  भगत सिंह पुत्र ओर श्रीमति ललीता देवी विधवा लेख राम पुत्र लज्जे बराबर भाग 8 हिस्सा  तारा सिंह पुत्र ओर श्रीमति निर्मला पुत्री ओर श्रीमति सधी

									<p>देवी विधवा टीकम राम पुत्र लज्जे राम बराबर भाग 9 हिस्सा</p> <p>मोहीन्दर सिंह, इन्द्र सिंह पुत्र ओर श्रीमति प्रोमिला पुत्री ओर श्रीमति पार्वति विधवा घनश्याम पुत्र टीकम राम बराबर भाग 3 हिस्सा</p> <p>तेज राम पुत्र लज्जे राम पुत्र सिंघरू 12 हिस्सा कृष्णा कुमार पुत्र कोल सिंह पुत्र लज्जे राम 12 हिस्सा स्थानीय बबेली</p> <p>तारा चन्द जगरूप चन्द बराबर भाग हिस्सादारान वयन घनश्याम सिंह पुत्र परस राम पुत्र तोलू स्थानीय बबेली मुस्तरी कब्जा स्वयं मुस्तरी</p>
			538	538	निजी	गै मु आबादी	0-00-12	<p>कुल भाग 60</p> <p>तारा चन्द, जगरूप चन्द, पुत्र ओर श्रीमति उमरावति, श्रीमति दुर्गावती, श्रीमति किरन कुमारी पुत्री ओर श्रीमति हीरा देवी विधवा जोग राम पुत्र लज्जे राम बराबर भाग 12 हिस्सा</p> <p>चदर किरन पुत्र टेक सिंह पुत्र लेख राम 4 हिस्सा</p> <p>भगत सिंह पुत्र और श्रीमति ललीता देवी विधवा लेख राम पुत्र लज्जे बराबर भाग 8 हिस्सा</p> <p>तारा सिंह पुत्र ओर श्रीमति निर्मला पुत्री ओर श्रीमति सद्दी देवी विधवा टीकम राम पुत्र लज्जे राम बराबर भाग 9 हिस्सा</p> <p>मोहीन्दर सिंह, इन्द्र सिंह पुत्र ओर श्रीमति प्रोमिला पुत्री ओर श्रीमति पार्वति विधवा घनश्याम पुत्र टीकम राम बराबर भाग 3 हिस्सा</p> <p>तेज राम पुत्र लज्जे राम पुत्र सिंघरू 12 हिस्सा कृष्णा कुमार पुत्र कोल सिंह पुत्र लज्जे राम 12 हिस्सा स्थानीय बबेली</p> <p>तारा चन्द जगरूप चन्द बराबर भाग हिस्सादारान वयन, खीम चन्द पुत्र बालु पुत्र तोलू स्थानीय बबेली मुस्तरी कब्जा स्वयं मुस्तरी</p>	
			551	551/1	निजी	गै मु रास्ता	0-00-38	<p>कुल भाग 20</p> <p>कृष्णा कुमार पुत्र कोल सिंह पुत्र लज्जे राम 4 हिस्सा चमारू पुत्र और श्रीमति देखनी, श्रीमति चन्द्रमनी बराबर भाग 15 हिस्सा पुत्री</p>	

									बरसातू 1 हिस्सा पुत्र चुहरु पुत्र देबू स्थानीय बबेली/ कब्जा स्वय
			552	552/1	हि.प्र. सरकार	गै मु दरिया	0-02-40		हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
			535	535	निजी	गै मु दरिया	0-00-60		<p>कुल भाग 60</p> <p>तारा चन्द, जगरूप चन्द, पुत्र ओर श्रीमति उमरावति, श्रीमति दुर्गावती, श्रीमति किरन कुमारी पुत्री और श्रीमति हीरा देवी व श्रीमति हीरा विधवाए जोग राम पुत्र लज्जे राम बराबर भाग 12 हिस्सा</p> <p>चदर किरन पुत्र टेक सिंह पुत्र लेख राम 4 हिस्सा</p> <p>भगत सिंह पुत्र ओर श्रीमति ललीता देवी विधवा लेख राम पुत्र लज्जे बराबर भाग 8 हिस्सा</p> <p>तारा सिंह पुत्र ओर श्रीमति निर्मला पुत्री ओर श्रीमति सधी देवी विधवा टीकम राम पुत्र लज्जे राम बराबर भाग 9 हिस्सा</p> <p>मोहीन्दर सिंह, इन्द्र सिंह पुत्र ओर श्रीमति प्रेमिला पुत्री ओर श्रीमति पार्वति विधवा घनश्याम पुत्र टीकम राम बराबर भाग 3 हिस्सा</p> <p>तेज राम पुत्र लज्जे राम पुत्र सिंघरू 12 हिस्सा कृष्ण कुमार पुत्र कोल सिंह पुत्र लज्जे राम 12 हिस्सा स्थानीय बबेली</p> <p>तेज राम हिस्सादार वयन घनश्याम सिंह पुत्र परस राम पुत्र तोलू 5 हिस्सा आलम चन्द पुत्र मेहर चन्द पुत्र राम चन्द 11 हिस्सा स्थानीय फती जीन्दोर मुस्तरीयां</p> <p>कब्जा स्वयं मुस्तरीयां</p>
			534	534/1	निजी	गै मु दरिया	0-02-95		<p>कुल भाग 60</p> <p>तारा चन्द, जगरूप चन्द, पुत्र ओर श्रीमति उमरावति, श्रीमति दुर्गावती, श्रीमति किरन कुमारी पुत्री ओर श्रीमति हीरा देवी व श्रीमति हीरा विधवाए जोग राम पुत्र लज्जे राम बराबर भाग 12 हिस्सा</p> <p>चदर किरन पुत्र टेक सिंह पुत्र लेख राम 4 हिस्सा</p> <p>भगत सिंह पुत्र और श्रीमति ललीता देवी विधवा लेख राम पुत्र लज्जे बराबर भाग 8 हिस्सा</p> <p>तारा सिंह पुत्र ओर श्रीमति</p>

								निर्मला पुत्री ओर श्रीमति सघी देवी विधवा टीकम राम पुत्र लज्जे राम बराबर भाग 9 हिस्सा  मोहीन्दर सिंह, इन्द्र सिंह पुत्र ओर श्रीमति प्रेमिला पुत्री ओर श्रीमति पार्वति विधवा घनश्याम पुत्र टीकम राम बराबर भाग 3 हिस्सा  श्रीमति भगवती देवी विधवा कोल सिंह पुत्र लज्जे राम 12 हिस्सा श्रीमति स्नेह पत्नी सुरेश कुमार पुत्र राम लाल 12 हिस्सा स्थानीय बबेली बनोगी  कब्जा स्वयं तारा चन्द जगरूप चन्द बीबी भाग हिस्सादाराण
			527	527/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-02-68	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
			529	529	हि.प्र. सरकार	गै मु सड़क	0-00-33	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
			530	530	हि.प्र. सरकार	गै मु सड़क	0-01-23	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
			531	531	हि.प्र. सरकार	गै मु सड़क	0-00-36	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
			532	532	हि.प्र. सरकार	गै मु सड़क	0-01-70	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
			533	533	हि.प्र. सरकार	गै मु दरिया	0-03-11	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
			528	528	हि.प्र. सरकार	गै मु सड़क	0-03-23	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
			526	526	हि.प्र. सरकार	बंजर कदीम	0-00-52	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं
			524	524/1	हि.प्र. सरकार	बंजर कदीम	0-00-32	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं सहकारी सभा विभाग
			522	522/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-06-26	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
			521	521	हि.प्र. सरकार	गै मु सड़क	0-05-30	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
			501	501	हि.प्र. सरकार	गै मु सड़क	0-00-77	हि.प्र. सरकार कब्जा (डाक विभाग)
			500	500	हि.प्र. सरकार	गै मु सड़क	0-00-92	हि.प्र. सरकार सरे आम
			502	502/1	हि.प्र. सरकार	बंजर कदीम	0-00-18	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं

				498	498	निजी	गै मु सड़क	0-00-17	<p>कुल भाग 96</p> <p>श्रीमति उमा देवी 1 हिस्सा पुत्री श्रीमति मीरा देवी पुत्री ओर श्रीमति भादरी, श्रीमति रमी बराबर भाग 3 विधवा टिकम राम पुत्र मादु ओम प्रकाश, धर्म पाल, उदय सिंह पुत्र ओर श्रीमति देवकला, श्रीमति सत्या देवी, पुत्री श्रीमति भावी देवी, विधवा भोश राम पुत्र मादु बराबर भाग 4 हिस्सा श्रीमति हुकमी देवी पुत्री मधु पुत्र धगु 4 हिस्सा भिमी राम पुत्र चमारु पुत्र धगू 12 हिस्सा विवेक, विनित, अनुपम पुत्र ओर श्रीमति आशा देवी विधवा प्यारे चन्द पुत्र पूर्ण चन्द बराबर भाग 8 हिस्सा</p> <p>पवन कुमार राज कुमार पुत्र ओर नर्मदा देवी, श्रीमति सुदेश कुमारी, श्रीमति रेखा देवी श्रीमति सुमना देवी, श्रीमति कचना देवी, पुत्री ओर श्रीमति जयोनी विधवा पूर्ण चन्द पुत्र बंन्सी लाल बराबर भाग 64 हिस्सा स्थानीय बबेली बनेगी</p>
				497	497/1	निजी	गै.मु.दुकान और पक्का मकान	0-00-52	<p>कुल भाग 96</p> <p>श्रीमति उमा देवी 1 हिस्सा पुत्री श्रीमति मीरा देवी पुत्री ओर श्रीमति भादरी, श्रीमति रमी बराबर भाग 3 विधवा टिकम राम पुत्र मादु ओम प्रकाश, धर्म पाल, उदय सिंह पुत्र ओर श्रीमति देवकला, श्रीमति सत्या देवी, पुत्री श्रीमति सावीत्री देवी, विधवा भोश राम पुत्र मादु बराबर भाग 4 हिस्सा श्रीमति हुकमी देवी पुत्री मधु पुत्र धगु 4 हिस्सा भिमी राम पुत्र चमारु पुत्र धगू 12 हिस्सा विवेक, विनित, अनुपम पुत्र ओर श्रीमति आशा देवी विधवा प्यारे चन्द पुत्र पूर्ण चन्द बराबर भाग 8 हिस्सा</p> <p>पवन कुमार राज कुमार पुत्र ओर नर्मदा देवी, श्रीमति सुदेश कुमारी, श्रीमति रेखा देवी श्रीमति सुमना देवी, श्रीमति कचना देवी, पुत्री और श्रीमति जयोनी विधवा पूर्ण चन्द पुत्र बंन्सी लाल बराबर भाग 64 हिस्सा स्थानीय बबेली बनोगी</p>
				493	493/1	निजी	गै.मु.आबादी	0-00-12	<p>कुल भाग 2520</p> <p>तारा चन्द, जगरूप चन्द पुत्र ओर श्रीमति उमावती, श्रीमति दुर्गावती, श्रीमति किरन कुमारी पुत्री ओर श्रीमति हीरा, हीरा देवी विधवा जोग राम</p>

								<p>पुत्र लज्जे राम बराबर भाग 492 हिस्सा</p> <p>चन्द्र किरन पुत्र टेक सिंह पुत्र लेख राम 164 हिस्सा</p> <p>भगत सिंह पुत्र श्रीमति ललता देवी विधवा लेख राम पुत्र लज्जे राम बराबर भाग 328 हिस्सा तारा सिंह पुत्र ओर श्रीमति निर्मला देवी पुत्री ओर श्रीमति भाादी देवी विधवा टिकम राम पुत्र लज्जे राम बराबर भाग 369 हिस्सा</p> <p>मोहीन्दर सिंह, इन्द्र सिंह पुत्र ओर श्रीमति पोगिला पुत्री ओर श्रीमति पार्वती देवी विधवा घनश्याम पुत्र टीकम राम बराबर भाग 123 हिस्सा</p> <p>तेज राम 492 हिस्सा पुत्र ओर श्रीमति सावित्री 30 हिस्सा पुत्री लज्जे राम पुत्र सींघरू श्रीमति भगवती देवी विधवा कोल सिंह पुत्र लज्जे राम 492 हिस्सा श्रीमति सन्तोश पुत्री श्रीमति तल्लू पुत्री लज्जे राम 30 हिस्सा स्थानीय बबेली परस राम पुत्र हरि राम तबे मरजी</p>
			491	491/1	निजी	गै.मु.दुकान ओर पक्का मकान	0-00-44	<p>कुल भाग 15</p> <p>तारा चन्द, जगरूप चन्द पुत्र ओर श्रीमति उमावती, श्रीमति दुर्गावती, श्रीमति किरन कुमारी पुत्री ओर श्रीमति हीरा, हीरा देवी विधवा जोग राम पुत्र लज्जे राम बराबर भाग 3 हिस्सा</p> <p>चन्द्र किरन पुत्र टेक सिंह पुत्र लेख राम 1 हिस्सा</p> <p>भगत सिंह पुत्र श्रीमति ललीता देवी विधवा लेख राम पुत्र लज्जे राम बराबर भाग 2 हिस्सा</p> <p>तेज राम पुत्र लज्जे राम पुत्र सींघरू 3 हिस्सा श्रीमति भगवती देवी विधवा कोल सिंह पुत्र लज्जे राम 6 हिस्सा स्थानीय बबेली/ कब्जा स्वयं</p>
			490	490/1	निजी	गै.मु.आबादी	0-00-20	<p>कुल भाग 15</p> <p>तारा चन्द, जगरूप चन्द पुत्र ओर श्रीमति उमावती, श्रीमति दुर्गावती, श्रीमति किरन कुमारी पुत्री ओर श्रीमति हीरा, हीरा देवी विधवा जोग राम पुत्र लज्जे राम बराबर भाग 3 हिस्सा</p> <p>चन्द्र किरन पुत्र टेक सिंह पुत्र लेख राम 1 हिस्सा</p> <p>भगत सिंह पुत्र श्रीमति ललीता देवी विधवा लेख राम</p>

									पुत्र लज्जे राम बराबर भाग 2 हिस्सा तेज राम पुत्र लज्जे राम पुत्र सीधरू 3 हिस्सा श्रीमति भगवती देवी विधवा कोल सिंह पुत्र लज्जे राम 6 हिस्सा स्थानीय बबेली/ कब्जा स्वयं
				489	489/1	निजी	गै.मु.आबादी	0-00-32	तारा चन्द, जगरूप चन्द पुत्र ओर श्रीमति उमावती, श्रीमति दुर्गावती, श्रीमति किरन कुमारी पुत्री ओर श्रीमति हीरा, हीरा देवी विधवा जोग राम पुत्र लज्जे राम बराबर भाग स्थानीय बबेली/ कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				488	488	हि.प्र. सरकार	गै मु सड़क	0-03-45	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
				487	487/1	निजी	गै.मु.आबादी	0-00-80	तारा चन्द, जगरूप चन्द पुत्र ओर श्रीमति उमावती, श्रीमति दुर्गावती, श्रीमति किरन कुमारी पुत्री ओर श्रीमति हीरा, हीरा देवी विधवा जोग राम पुत्र लज्जे राम बराबर भाग स्थानीय बबेली/ कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				486	486/1	निजी	गै.मु.आबादी	0-00-30	श्रीमति विन्द्य देवी विधवा अर्जुन सिंह पुत्र राम दास स्थानीय कनवाल जिला मण्डी कब्जा स्वयं
				485	485/1	निजी	गै.मु.आबादी	0-00-35	श्रीमति सुदेश कुमारी विधवा ईश्वर कुमार पुत्र सुन्दर दास स्थानीय बबेली कब्जा स्वयं
				484	484/1	निजी	गै.मु.आबादी	0-00-35	श्रीमति विन्द्य देवी विधवा अर्जुन सिंह पुत्र राम दास स्थानीय कनवाल जिला मण्डी कब्जा स्वयं
				483	483/1	निजी	गै.मु.आबादी	0-00-15	कुल भाग 5 अलू राम, वेद राम, ओम प्रकाश पुत्र ओर श्रीमति कला देवी पुत्री बोद्ध राम पुत्र हरदयाल बराबर भाग 4 हिस्सा रोहित कुमार ओर कुमारी भावना पुत्री श्रीमति लता देवी विधवा दिने राम पुत्र बुद्ध राम बराबर भाग 1 हिस्सा स्थानीय बबेली कब्जा स्वयं
				482	482/1	निजी	गै.मु.आबादी	0-00-55	कुल भाग 18 नीरथ राम पुत्र हरदयाल पुत्र हेतू 9 हिस्सा जीत राम पुत्र टेक राम पुत्र आत्मा राम 2 हिस्सा विवेक, वीनित, अनेपुंम पुत्र ओर श्रीमति आशा देवी विधवा प्यारे चन्द पुत्र पूर्ण



									चन्दे बराबर भाग 3 हिस्सा श्रीमति कुबजा देवी पत्नी दोलत राम पुत्र खयालू 4 हिस्सा स्थानीय बबेली बनोगी कब्जा स्वयं
			481	481/1	निजी	गै.मु.दुकान	0-00-50	कुल भाग 18 नीरथ राम पुत्र हरदयाल पुत्र हेतू 9 हिस्सा जीत राम पुत्र टेक राम पुत्र आत्मा राम 2 हिस्सा विवेक, वीनित, अनुपम पुत्र ओर श्रीमति आशा देवी विधवा प्यारे चन्द पुत्र पूर्ण चन्दे बराबर भाग 3 हिस्सा श्रीमति कुबजा देवी पत्नी दोलत राम पुत्र खयालू 4 हिस्सा स्थानीय बबेली बनोगी कब्जा स्वयं	
			480	480/1	निजी	गै.मु.दुकान	0-00-40	कुल भाग 18 नीरथ राम पुत्र हरदयाल पुत्र हेतू 9 हिस्सा जीत राम पुत्र टेक राम पुत्र आत्मा राम 2 हिस्सा विवेक, वीनित, अनुपम पुत्र ओर श्रीमति आशा देवी विधवा प्यारे चन्द पुत्र पूर्ण चन्दे बराबर भाग 3 हिस्सा श्रीमति कुबजा देवी पत्नी दोलत राम पुत्र खयालू 4 हिस्सा स्थानीय बबेली बनोगी कब्जा स्वयं	
			479/1	479/1/1	निजी	गै.मु.दुकान	0-00-20	कुल भाग 18 नीरथ राम पुत्र हरदयाल पुत्र हेतू 9 हिस्सा जीत राम पुत्र टेक राम पुत्र आत्मा राम 2 हिस्सा विवेक, वीनित, अनुपम पुत्र ओर श्रीमति आशा देवी विधवा प्यारे चन्द पुत्र पूर्ण चन्दे बराबर भाग 3 हिस्सा श्रीमति कुबजा देवी पत्नी दोलत राम पुत्र खयालू 4 हिस्सा स्थानीय बबेली बनोगी कब्जा स्वयं	
			479	479/1	हि.प्र. सरकार	चुरागाह	0-00-40	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन	
			520	520	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0-18-01	हि.प्र. सरकार सरे आम	
			431/1	431/1/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.नाला	0-02-47	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन	
			600	600/1	निजी	गै.मु.दुकान और पक्का मकान	0-01-15	कुल भाग 408200 गणेश कुमार उर्फ दिनेश सैन पुत्र बेली सिंह पुत्र नारायण सिंह (54415) हिस्सा हरिश कुमार सुरेश कुमार पुत्र	

									<p>कृष्ण लाल पुत्र नानक चन्द बराबर भाग 69237 हिस्सा भास्त्री नगर कुल्लू</p> <p>भुशण पुत्र और कुमारी रोहनी पुत्री श्रीमति सपना कुमारी पुत्री बलवंत राय बराबर भाग 18200 हिस्सा पुत्री और श्रीमति कमलेश कुमारी विधवा बलवंत राय पुत्र नामालुम 20800 हिस्सा</p> <p>परस राम पुत्र हरि राम पुत्र संगत राम 21980 हिस्सा श्रीमति नर्मदा पत्नी कल्याण चन्द पुत्र संत राम 15700 हिस्सा</p> <p>तृशला महिला कुटीर उद्योग 128740 हिस्सा स्थानीय सामग्री</p> <p>ईंद्र पाल सिंह पुत्र प्यारा सिंह पुत्र इशर सिंह 79128 हिस्सा स्थानीय अखारा बाजार कुल्लू कास्थ ओर कब्जा स्वयं</p>
				किता	81	कुल भाग		3-26-76	

			5. बबेली (जिन्दौर)	475	475	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0-02-66	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
				476	476	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0-11-25	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
				318	318/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.रास्ता	0-00-12	हि.प्र. सरकार सरे-आम
				319	319/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-00-36	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				290	290/1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0-00-72	बलबीर पुत्र श्रीमति सुरमू पुत्री जय राम, स्थानीय बबेली जीन्दौर कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				479	479	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0-50-02	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
				480	480	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0-29-06	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
				481	481/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-14-12	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				477	477/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु. पटवारखान I	0-00-48	हि.प्र. सरकार कब्जा राजस्व विभाग
				478	478/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-11-36	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन

			277	277/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु. आबादी	0-01-64	हि.प्र. सरकार ठाकुर चन्द इत्यादि खतोनी न. 130 खेख राम, हेम राज, पुत्र देवी राम बराबर भाग 1 हिस्सा, मोहन लाल, पुत्र जय किशन पुत्र पुत्र होत राम और आनन्द प्रकाश पुत्र भुवनेश्वर दत्त पुत्र बाला राम बराबर भाग 3 हिस्साए मरफत दुनी चन्द पुत्र जय राम पुत्र भगी नीसाफ, हीरदे राम, हेमन्त राम, राजू राम पुत्र और श्रीमति गणेशू पत्नी स्वं गंगू पुत्र धलू बराबर भाग  चहाराम, चप्पू पुत्र धलू पुत्र धर्म दास चहारम स्थानीय बबेली जीन्दोर तबे मरजीं
			207	207/1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0-00-85	ओंकार सिंह पुत्र हुकुम राम पुत्र गंगू स्थानीय बबेली जीन्दोर कास्थ और कब्जा स्वयं
			205	205/1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0-04-51	आत्म प्रकाश पुत्र हिम चन्द पुत्र देवी राम स्थानीय फती दालपुर कोटी महाराजा
			203	203/1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0-01-12	आत्म प्रकाश पुत्र हिम चन्द पुत्र देवी राम स्थानीय फती दालपुर कोटी महाराजा
			202	202/1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0-02-12	आत्म प्रकाश पुत्र हिम चन्द पुत्र देवी राम स्थानीय फती दालपुर कोटी महाराजा
			199	199/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-08-72	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
			201	201	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0-02-02	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
			200	200/1	निजी	बंजर कदीम	0-03-46	हरप्रीत सिंह पुत्र मंजीत कोर पुत्री ओंकार सिंह स्थानीय भामसी कब स्वयं
			198	198/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0-01-08	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
			149	149/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-06-10	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
			289	289/1	निजी	गै.मु. आबादी	0-00-15	बलबीर पुत्र श्रीमति सुरमू पुत्री जय राम स्थानीय बबेली जीन्दोर कास्थ और कब्जा स्वयं
			किता.	21	कुल		1-51-92	

		6. हराबाग (मंदरोल)	46	46/1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0-02-20	कुल भाग 4890 वीरी सिंह पुत्र मनसा राम
--	--	-----------------------	----	------	------	---------------------	---------	--

									पुत्र राम जय राम 300 हिस्सा विधा सागर 1525 हिस्सा ओर श्रीमति नारी 1896 हिस्सा विधवा पलसुख पुत्र चेखू रवि, धनदूप चेरिंग पुत्र ओर श्रीमति सेलजा देवी पुत्री ओर श्रीमति मीरा देवी उर्फ दौपती विधवा विधा चन्द पुत्र पलसुख बराबर भाग 1064 हिस्सा भुवनेश्वर दास पुत्र कृष्ण दास पुत्र नूप दास उर्फ नूप राम 105 हिस्सा स्थानीय हराबाग
			47	47/1	निजी	गै.मु. आबादी	0-00-80	भाग चन्द, प्रेम लाल पुत्र रीनचन पुत्र गुलाब दास बराबर भाग कब्जा स्वयं	
			48	48/1	निजी	गै.मु. आबादी	0-01-07	कुल भाग 4890  वीरी सिंह पुत्र मनसा राम पुत्र राम जय राम 300 हिस्सा विधा सागर 1525 हिस्सा ओर श्रीमति नारी 1896 हिस्सा विधवा पलसुख पुत्र चेखू रवि, धनदूप चेरिंग पुत्र ओर श्रीमति सेलजा देवी पुत्री ओर श्रीमति मीरा देवी उर्फ दौपती विधवा विधा चन्द पुत्र पलसुख बराबर भाग 1064 हिस्सा भुवनेश्वर दास पुत्र कृष्ण दास पुत्र नूप दास उर्फ नूप राम 105 हिस्सा स्थानीय हराबाग	
			49	49	निजी	गै.मु. खाली टापरी	0-00-40	कुल भाग 4890  वीरी सिंह पुत्र मनसा राम पुत्र राम जय राम 300 हिस्सा विधा सागर 1525 हिस्सा ओर श्रीमति नारी 1896 हिस्सा विधवा पलसुख पुत्र चेखू रवि, धनदूप चेरिंग पुत्र ओर श्रीमति सेलजा देवी पुत्री ओर श्रीमति मीरा देवी उर्फ दौपती विधवा विधा चन्द पुत्र पलसुख बराबर भाग 1064 हिस्सा भुवनेश्वर दास पुत्र कृष्ण दास पुत्र नूप दास उर्फ नूप राम 105 हिस्सा स्थानीय हराबाग	
			56	56/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-04-46	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतनदरन	
			61	61/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-01-02	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतनदरन	
			70	70/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-08-87	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतनदरन	
			71	71/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु. सड़क	0-02-32	हि.प्र. सरकार लोक निर्माण विभाग	

				73	73/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-17-69	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				134	134/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-01-16	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				136	136/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0-01-84	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				128	128/1	निजी	बंजर कदीम	0-02-25	कुल भाग 5 भोले राम जय चन्द भादर सिंह पुत्र पुसू पुत्र नाथू बराबर भाग 3 हिस्सा  कुसम चन्द पुत्र और श्रीमति प्रेम लता पुत्री श्रीमति वायसा देवी विधवा दागलू पुत्र पुसू बराबर भाग 1 हिस्सा  कनिया लाल दिनू राम पुत्र ओर श्रीमति अलू देवी विधवा भोर सिंह पुत्र पुसू बराबर भाग 1 हिस्सा
				132	132/1	निजी	गै.मु. आबादी	0-00-54	कुल भाग 5 भोले राम जय चन्द भादर सिंह पुत्र पुसू पुत्र नाथू बराबर भाग 3 हिस्सा  कुसम चन्द पुत्र और श्रीमति प्रेम लता पुत्री श्रीमति वायसा देवी विधवा दागलू पुत्र पुसू बराबर भाग 1 हिस्सा  कनिया लाल दिनू राम पुत्र ओर श्रीमति अलू देवी विधवा भोर सिंह पुत्र पुसू बराबर भाग 1 हिस्सा
				130	130/1	निजी	गै.मु. रास्ता	0-00-06	कुल भाग 5 भोले राम जय चन्द भादर सिंह पुत्र पुसू पुत्र नाथू बराबर भाग 3 हिस्सा  कुसम चन्द पुत्र ओर श्रीमति प्रेम लता पुत्री श्रीमति वायसा देवी विधवा दागलू पुत्र पुसू बराबर भाग 1 हिस्सा  कनिया लाल दिनू राम पुत्र ओर श्रीमति अलू देवी विधवा भोर सिंह पुत्र पुसू बराबर भाग 1 हिस्सा
				129	129/1	निजी	गै.मु. आबादी	0.00.18	कुल भाग 5 भोले राम जय चन्द भादर सिंह पुत्र पुसू पुत्र नाथू बराबर भाग 3 हिस्सा  कुसम चन्द पुत्र और श्रीमति प्रेम लता पुत्री श्रीमति वायसा देवी विधवा दागलू पुत्र पुसू बराबर भाग 1

									हिस्सा कनिया लाल दिनू राम पुत्र ओर श्रीमति अलू देवी विधवा भोर सिंह पुत्र पुसू बराबर भाग 1 हिस्सा
			124	124/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.00.52	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतनदरन	
			126	126/1	निजी	गै.मु. आबादी	0.00.27	कुल भाग 5 भोले राम जय चन्द भादर सिंह पुत्र पुसू पुत्र नाथू बराबर भाग 3 हिस्सा कुसम चन्द पुत्र और श्रीमति प्रेम लता पुत्री श्रीमति वायसा देवी विधवा दागलू पुत्र पुसू बराबर भाग 1 हिस्सा कनिया लाल दिनू राम पुत्र ओर श्रीमति अलू देवी विधवा भोर सिंह पुत्र पुसू बराबर भाग 1 हिस्सा	
			125	125	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.02.72	कुल भाग 4890 वीरी सिंह पुत्र मनसा राम पुत्र राम जय राम 300 हिस्सा रवि, धनदूप चेरिंग पुत्र ओर श्रीमति सेलजा देवी पुत्री ओर श्रीमति मीरा देवी उर्फ दौपती विधवा विधा चन्द पुत्र पलसुख 1064 हिस्सा श्रीमति नारी विधवा पलसुख पुत्र चेखू 1896 हिस्सा भुवने"वर दास पुत्र कृष्ण दास पुत्र नूप दास उर्फ नूप राम 105 हिस्सा उत्तम चन्द पुत्र रवि पुत्र कोन्जू 1525 हिस्सा कास्थ और कब्जा स्वयं	
			127	127	निजी	गै.मु. मन्दिर	0.00.72	कुल भाग 5 भोले राम जय चन्द भादर सिंह पुत्र पुसू पुत्र नाथू बराबर भाग 3 हिस्सा कुसम चन्द पुत्र ओर श्रीमति प्रेम लता पुत्री श्रीमति वायसा देवी विधवा दागलू पुत्र पुसू बराबर भाग 1 हिस्सा कनिया लाल दिनू राम पुत्र ओर श्रीमति अलू देवी विधवा भोर सिंह पुत्र पुसू बराबर भाग 1 हिस्सा	
			106	106/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.01.89	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतनदरन	
			157	157 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु. रास्ता	0.00.22	हि.प्र. सरकार सरे आम	
			158	158/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु. रास्ता	0.00.36	हि.प्र. सरकार सरे आम	

				137	137	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.00.61	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				138	138/1	निजी	गै.मु. आबादी	0.00.54	कुल भाग 6 मनीश पुत्र ओर श्रीमति पुष्पा देवी विधवा हुकम चन्द पुत्र तेज राम बराबर भाग 2 हिस्सा प्रीतम चन्द 3 हिस्सा पुत्र ओर श्रीमति बेगमा 1 हिस्सा विधवा तेज राम पुत्र अलमू कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				104	104	हि.प्र. सरकार	गै.मु. सड़क	0.26.35	हि.प्र. सरकार लोक निर्माण विभाग
				101	101/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.15.24	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				170	191/17 0/1 - 192/17 0/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.01.51	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतनदरन और मंत्रालय एच आर डी नवोदय विद्यालय
				182	182/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.00.90	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				100	100/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु. सड़क	0.04.85	हि.प्र. सरकार लोक निर्माण विभाग
				102	102/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु. सड़क	0.44.87	हि.प्र. सरकार लोक निर्माण विभाग
				169	169/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.02.55	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतनदरन और मंत्रालय एच आर डी नवोदय विद्यालय
				168	189/16 8 - 190/16 8	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.02.57	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतनदरन और मंत्रालय एच आर डी नवोदय विद्यालय
				99	99/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.03.78	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				164	164/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.07.55	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				103	103	हि.प्र. सरकार	गै.मु. सेल्टर	0.00.20	हि.प्र. सरकार लोक निर्माण विभाग
				167	167/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.01.59	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतनदरन
			किता.	36			कुल	1.64.67 हेक्टेयर	

			7. साटनसेरी	226	226 / 1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.96	श्रीमति शशी पुत्री राम गोपाल पुत्र मुन्शी राम स्थानीय चातनसेरी कास्थ और कब्जा स्वयं
				227	227 / 1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.02.25	हरिन्दर मोहन चन्द्रा पुत्र वासदेव चन्द्रा पुत्र सोमनाथ चन्द्रा स्थानीय चातनसेरी कास्थ और कब्जा स्वयं
				228	228 / 1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.01.03	हरिन्दर मोहन चन्द्रा पुत्र वासदेव चन्द्रा पुत्र सोमनाथ चन्द्रा स्थानीय चातनसेरी कास्थ और कब्जा स्वयं
				294	294 / 1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.01.36	कुल भाग 42075  श्रीमति मादरी पुत्री गंगू पुत्र सिधु 2244 हिस्सा प्रेम सिंह 18437 हिस्सा पुत्र और होशियार सिंह 12903 हिस्सा पुत्र धर्मसेन पुत्र थाचेगं चन्ददेव पुत्र लोदर चन्द पुत्र  किशन चन्द 3366 हिस्सा पूर्ण चन्द पुत्र दिले राम पुत्र नाथू राम 5125 हिस्सा स्थानीय चातनसेरी कास्थ और कब्जा स्वयं
				279	279 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु. नाला	0.00.63	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				280	280 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.00.20	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				309	309	हि.प्र. सरकार	गै.मु. सड़क	0.15.48	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं
				310	310 / 1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.01.95	कुल भाग 33540  श्रीमति चन्द्रा मनी पुत्री राम चन्द पुत्र भाग चन्द 2795 हिस्सा श्रीमति बिमला देवी पत्नी अशोक कुमार पुत्र राम चन्द 5590 हिस्सा  श्रीमति भाति देवी विधवा भूप सिंह पुत्र राम चन्द 16770 हिस्सा  विकरान्त, विशाल पुत्र और श्रीमति मधु विधवा मोहन लाल पुत्र राम चन्द बराबर भाग 2316 हिस्सा श्रीमति राज कुमारी पत्नी केशव राम पुत्र भगत राम 6069 हिस्सा स्थानीय चातनसेरी कब्जा स्वयं



				311	311/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु. नाला	0.02.18	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				302	302/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.01.12	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				300	300/1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.01.22	कुल भाग 75 श्रीमति भादरी पुत्री गंगू पुत्र सिंगू 4 हिस्सा प्रेम कुमार 42 हिस्सा पुत्र ओर होशियार सिंह 23 हिस्सा पुत्र धर्म सेन पुत्र तेचगं चन्दर देव पुत्र लोदर चन्द पुत्र किशन चन्द 6 हिस्सा स्थानीय चातनसेरी कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				340	340	निजी	गै. मु. सडक	0.03.48	श्रीमति कुसुम मेहरा पुत्री एल.एन चौपडा पुत्र दिनानाथ स्थानीय चातनसेरी श्रीमति कुसुम मेहरा हिस्सादारान मलकीयत दहीनन्दा भारत सरकार मलकीयत गरीनन्दा कब्जा लोक निर्माण विभाग
				327	327/1	हि.प्र. सरकार	गै. मु. केच कारखाना	0.00.25	ग्राम पंचायत रायसेन कब्जा स्वयं
				329	329/1	निजी	गै. मु. सेहन	0.00.33	कुल भाग 647780 रविन्दर कुमार पुत्र सतपाल पुत्र लछछी राम 444853 हिस्सा ग्राम पंचायत रायसन 57497 हिस्सा हि प्र सरकार 13230 हिस्सा श्रीमति संगीता पुत्री मदन मोहन पुत्र मुन्शी राम 132200 हिस्सा स्थानीय चातनसेरी कब्जा स्वयं मलकान और ग्राम पंचायत रायसेन ओर राजस्व विभाग
				330	330/1	निजी	गै. मु. आबादी	0.00.66	कुल भाग 647780 रविन्दर कुमार पुत्र सतपाल पुत्र लछछी राम 444853 हिस्सा ग्राम पंचायत रायसन 57497 हिस्सा हि. प्र. सरकार 13230 हिस्सा श्रीमति संगीता पुत्री मदन मोहन पुत्र मुन्शी राम 132200 हिस्सा स्थानीय चातनसेरी कब्जा स्वयं मलकान और ग्राम पंचायत रायसेन और राजस्व विभाग
				331	331/1	निजी	गै. मु. केच कारखाना	0.01.00	कुल भाग 647780 रविन्दर कुमार पुत्र सतपाल

									<p>पुत्र लछछी राम 444853 हिस्सा ग्राम पंचायत रायसन 57497 हिस्सा</p> <p>हि.प्र. सरकार 13230 हिस्सा</p> <p>श्रीमति संगीता पुत्री मदन मोहन पुत्र मुनी राम 132200 हिस्सा स्थानीय चातनसेरी</p> <p>कब्जा स्वयं मलकान और ग्राम पंचायत रायसेन और राजस्व विभाग</p>
			332	332/1	निजी	गै. मु. केच कारखाना	0.01.80	<p>रविन्दर कुमार पुत्र सतपाल पुत्र लछछी राम स्थानीय सांगरी बाग फती खराहल कोटी केशल स्थानीय रायसेन/कब्जा स्वयं</p>	
			333	333/1	निजी	गै. मु. आवादी	0.00.28	<p>रविन्दर कुमार पुत्र सतपाल पुत्र लछछी राम स्थानीय सांगरी बाग फती खराहल कोटी केशल स्थानीय रायसेन/कब्जा स्वयं</p>	
			343	343	हि.प्र. सरकार	गै. मु. सडक	0.16.11	<p>हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग</p>	
			201	201/1	निजी	गै. मु. रास्ता	0.00.28	<p>कुल भाग 6</p> <p>रजन कुमार, राजेश कुमार, रमन कुमार पुत्र और श्रीमति मनोरम पुत्री कृष्ण गोपाल पुत्र मन्शी राम बराबर भाग 2 हिस्सा श्रीमति राज रानी पत्नी राम गोपाल पुत्र मुन्शी राम 2 हिस्सा</p> <p>अतुल कुमार 1 हिस्सा पुत्र और श्रीमति कविता, श्रीमति संगीता बराबर भाग 1 हिस्सा पुत्री मदन मोहन पुत्र मुन्शी राम स्थानीय चातनसेरी सरे आम</p>	
			199	199/1	निजी	गै. मु. गोदाम	0.00.06	<p>कुल भाग 4</p> <p>अतुल कुमार 3 हिस्सा श्रीमति संगीता 1 हिस्सा पुत्री मदन मोहन पुत्र मुन्शी राम स्थानीय चातनसेरी कास्थ ओर कब्जा स्वयं</p>	
			198	198/1	निजी	गै. मु. समुदाय घर	0.00.26	<p>कुल भाग 6</p> <p>रजन कुमार, रामेश कुमार, रमन कुमार पुत्र और श्रीमति मनोरम पुत्री कृष्ण गोपाल पुत्र मन्शी राम बराबर भाग 2 हिस्सा श्रीमति राज रानी पत्नी राम गोपाल पुत्र मुन्शी राम 2 हिस्सा</p> <p>अतुल कुमार 1 हिस्सा पुत्र और श्रीमति कविता, श्रीमति</p>	

									संगीता बराबर भाग 1 हिस्सा पुत्री मदन मोहन पुत्र मुन्शी राम स्थानीय चातनसेरी कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				200	200/1	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.01.07	कुल भाग 4 अतुल कुमार 3 हिस्सा श्रीमति संगीता 1 हिस्सा पुत्री मदन मोहन पुत्र मुन्शी राम स्थानीय चातनसेरी कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				338	338	निजी	गै. मु. सड़क	0.02.53	श्राजीव कुमार पुत्र सतपाल पुत्र लछछी राम स्थानीय चातनसेरी /राजीव कुमार पुत्र सतपाल पुत्र लछछी राम राजीव कुमार सातनसेरी भारत सरकार मलकीयत धरीनन्दा कब्जा लोक निर्माण विभाग
				336	336	निजी	गै. मु. सड़क	0.07.77	कुल भाग 647780 रविन्दर कुमार पुत्र सतपाल पुत्र लछछी राम 444853 हिस्सा ग्राम पंचायत रायसन 57497 हिस्सा हि प्र सरकार 13230 हिस्सा श्रीमति संगीता पुत्री मदन मोहन पुत्र मुन्शी राम 132200 हिस्सा स्थानीय चातनसेरी रविन्दर कुमार हिस्सादाशन मलकीयत दहीनन्दा भारत सरकार मलकीयत धरीनन्दा कब्जा लोक निर्माण विभाग
				342	342	हि.प्र. सरकार	गै. मु. सड़क	0.91.57	हि प्र सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
				किता.	26		कुल	1.55.83	

			8.नंगबाग	144	144/1	निजी	गै. मु. आबादी	0.00.78	सुरेश कुमार, ईश्वर दास पुत्र बन्शी दास पुत्र दिले राम बराबर भाग कब्जा स्वयं
				501	501	निजी	गै. मु. सड़क	0.00.25	सुरेश कुमार, ईश्वर दास पुत्र बन्शी दास पुत्र दिले राम बराबर भाग कब्जा स्वयं
				145	145	निजी	गै. मु. आबादी	0.01.21	कुल भाग 216 श्रीमति शिरु 18 हिस्सा पुत्री ओर श्रीमति दिलबन्तु 6 हिस्सा विधवा परस राम पुत्र चन्दे राम श्रीमति दुर्गा देवी पुत्री ओर सांगरी देवी विधवा रतन चन्द पुत्र परस राम बराबर भाग 12 हिस्सा चुहलू राम, जीत राम, मदन सिंह पुत्र देवी चन्द पुत्र जगतू

								<p>बराबर भाग 9 हिस्सा</p> <p>धर्म चन्द प्रेम चन्द, राम वीर, आलम चन्द पुत्र ओर श्रीमति तीनी, श्रीमति विश्णु श्रीमति पती देवी पुत्र प्यारू पुत्र जगत् बराबर भाग 9 हिस्सा भायनू राम पुत्र दोले राम पुत्र जगत् 9 हिस्सा तुलसी राम पुत्र राम चन्द पुत्र गंगा राम 15 हिस्सा सोहन लाल, मदन लाल बराबर भाग 25 हिस्सा ओर श्रीमति बेघा देवी 5 हिस्सा विधवा प्रेम दास पुत्र राम चन्द सुजु पुत्र जोगी पुत्र गंगा राम 9 हिस्सा नाथू पुत्र गंगा राम पुत्र चमरू 9 हिस्सा हेत राम, मेहत राम, रेवत राम पुत्र आतू पुत्र गंगा राम बराबर भाग 45 हिस्सा रूप सिंह, टेक सिंह, राम चन्द पुत्र ओर श्रीमति कोशल्या, कुमारी भांकुतला पुत्री ओर श्रीमति काली विधवा अम्बी लाल पुत्र श्रीमति जुन्नू बराबर भाग 36 हिस्सा रीनचन पुत्र गुलाब दास पुत्र शिव दास 9 हिस्सा स्थानीय नंगबाग</p> <p>अम्बी लाल वाया नीस्फ धर्म सिंह, वीर सिंह, प्रीतम सिंह पुत्र ओर श्रीमति वन्ती देवी पुत्री कान्शी पुत्र ननकू बराबर भाग 2 हिस्सा राम दास पुत्र नानकू पुत्र ईज्जतू 1 हिस्सा सुरेश कुमार, ईश्वर दास पुत्र बन्शी दास पुत्र दिले राम बराबर भाग 10 हिस्सा मुस्तरीयां कब्जा स्वयं बिला वयन ओर मुस्तरीयां</p>
			500	500		गै. मु. सड़क	0.01.14	<p>कुल भाग 216</p> <p>श्रीमति शिरू 18 हिस्सा पुत्री ओर श्रीमति दिलबन्तु 6 हिस्सा विधवा परस राम पुत्र चन्दे राम श्रीमति दुर्गा देवी पुत्री ओर सांगरी देवी विधवा रतन चन्द पुत्र परस राम बराबर भाग 12 हिस्सा चुहरू राम, जीत राम, मदन सिंह पुत्र देवी चन्द पुत्र जगत् बराबर भाग 9 हिस्सा</p> <p>धर्म चन्द प्रेम चन्द, राम वीर, आलम चन्द पुत्र ओर श्रीमति तीनी, श्रीमति विश्णु श्रीमति पती देवी पुत्र प्यारू पुत्र जगत् बराबर भाग 9 हिस्सा</p> <p>भायनू राम पुत्र दोले राम पुत्र जगत् 9 हिस्सा तुलसी राम पुत्र राम चन्द पुत्र गंगा राम 15 हिस्सा सोहन लाल, मदन लाल बराबर भाग 25 हिस्सा ओर श्रीमति बेघा देवी 5 हिस्सा विधवा प्रेम दास पुत्र राम चन्द सुजु पुत्र जोगी पुत्र गंगा राम 9 हिस्सा नाथू पुत्र गंगा राम पुत्र चमरू 9 हिस्सा</p>

									हेत राम, मेहत राम, रेवत राम पुत्र आतू पुत्र गंगा राम बराबर भाग 45 हिस्सा रूप सिंह, टेक सिंह, राम चन्द पुत्र ओर श्रीमति कोशल्या, कुमारी भांकृतला पुत्री ओर श्रीमति काली विधवा अम्बी लाल पुत्र श्रीमति जुन्नू बराबर भाग 36 हिस्सा रीनचन पुत्र गुलाब दास पुत्र शिव दास 9 हिस्सा स्थानीय नंगबाग  अम्बी लाल वाया नीस्फ धर्म सिंह, वीर सिंह, प्रीतम सिंह पुत्र ओर श्रीमति वन्ती देवी पुत्री कान्शी पुत्र ननकू बराबर भाग 2 हिस्सा राम दास पुत्र नानकू पुत्र ईज्जतू 1 हिस्सा सुरेश कुमार, ईश्वर दास पुत्र बन्शी दास पुत्र दिले राम बराबर भाग 10 हिस्सा मुस्तरीयां कब्जा स्वयं बिला वयन ओर मुस्तरीयां
			517	517/1	हि.प्र. सरकार	गै. मु रास्ता	0.00.10	सरे आम	
			503	503	हि.प्र. सरकार	गै. मु सड़क	0.06.00	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग	
			149	149/1	निजी	गै. मु आबादी	0.01.08	कुल भाग 8 शितू राम युवराज, प्रेम चन्द पुत्र घनी राम पुत्र जगत राम बराबर भाग 2 हिस्सा धर्म सिंह, वीर सिंह प्रीतम सिंह पुत्र ओर श्रीमति वन्ती देवी पुत्री कान्शी राम पुत्र नानकू बराबर भाग 3 हिस्सा राम दास पुत्र नानकू पुत्र इज्जतू 3 हिस्सा स्थानीय नंगबाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं	
			150	150/1	निजी	गै. मु आबादी	0.00.80	कुल भाग 4 रूप सिंह, टेक सिंह, राम चन्द पुत्र ओर श्रीमति कोशल्या, कुमारी भाकुन्तला पुत्री श्रीमति काली विधवा अम्बी लाल पुत्र श्रीमति जुहन् बराबर भाग 2 हिस्सा  भुवनेश्वर दास पुत्र काम नाथ पुत्र राम सरन 1 हिस्सा भुवनेश्वर दास पुत्र कृष्ण दास पुत्र नूप दास उर्फ नूप राम 1 हिस्सा स्थानीय नंगबाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं	
			499	499	निजी	गै. मु आबादी	0.00.42	कुल भाग 216 श्रीमति शिरू 18 हिस्सा पुत्री ओर श्रीमति दिलबन्तु 6 हिस्सा विधवा परस राम पुत्र चन्दे राम श्रीमति दुर्गा देवी	

								<p>पुत्री ओर सांगरी देवी विधवा रतन चन्द पुत्र परस राम बराबर भाग 12 हिस्सा चुहू राम, जीत राम, मदन सिंह पुत्र देवी चन्द पुत्र जगतू बराबर भाग 9 हिस्सा</p> <p>धर्म चन्द प्रेम चन्द, राम वीर, आलम चन्द पुत्र ओर श्रीमति तीनी, श्रीमति विश्णु श्रीमति पती देवी पुत्र प्यारू पुत्र जगतू बराबर भाग 9 हिस्सा</p> <p>भायनू राम पुत्र दोले राम पुत्र जगतू 9 हिस्सा तुलसी राम पुत्र राम चन्द पुत्र गंगा राम 15 हिस्सा सोहन लाल, मदन लाल बराबर भाग 25 हिस्सा ओर श्रीमति बेघा देवी 5 हिस्सा विधवा प्रेम दास पुत्र राम चन्द सुजु पुत्र जोगी पुत्र गंगा राम 9 हिस्सा नाथू पुत्र गंगा राम पुत्र चमरू 9 हिस्सा हेत राम, मेहत राम, रेवत राम पुत्र आतू पुत्र गंगा राम बराबर भाग 45 हिस्सा रूप सिंह, टेक सिंह, राम चन्द पुत्र ओर श्रीमति कोशल्या, कुमारी भांकुतला पुत्री ओर श्रीमति काली विधवा अम्बी लाल पुत्र श्रीमति जुन्नू बराबर भाग 36 हिस्सा रीनचन पुत्र गुलाब दास पुत्र शिव दास 9 हिस्सा</p> <p>स्थानीय नंगबाग कब्जा स्वयं अम्बी लाल हिस्सादार</p>
			152	152/1		बाथल अवल	0.01.38	<p>कुल भाग 216</p> <p>श्रीमति शिरू 18 हिस्सा पुत्री ओर श्रीमति दिलबन्तु 6 हिस्सा विधवा परस राम पुत्र चन्द राम श्रीमति दुर्गा देवी पुत्री ओर सांगरी देवी विधवा रतन चन्द पुत्र परस राम बराबर भाग 12 हिस्सा चुहू राम, जीत राम, मदन सिंह पुत्र देवी चन्द पुत्र जगतू बराबर भाग 9 हिस्सा</p> <p>धर्म चन्द प्रेम चन्द, राम वीर, आलम चन्द पुत्र ओर श्रीमति तीनी, श्रीमति विश्णु श्रीमति पती देवी पुत्र प्यारू पुत्र जगतू बराबर भाग 9 हिस्सा</p> <p>भायनू राम पुत्र दोले राम पुत्र जगतू 9 हिस्सा तुलसी राम पुत्र राम चन्द पुत्र गंगा राम 15 हिस्सा सोहन लाल, मदन लाल बराबर भाग 25 हिस्सा ओर श्रीमति बेघा देवी 5 हिस्सा विधवा प्रेम दास पुत्र राम चन्द सुजु पुत्र जोगी पुत्र गंगा राम 9 हिस्सा नाथू पुत्र गंगा राम पुत्र चमरू 9 हिस्सा हेत राम, मेहत राम, रेवत राम</p>

									पुत्र आतू पुत्र गंगा राम बराबर भाग 45 हिस्सा रूप सिंह, टेक सिंह, राम चन्द पुत्र ओर श्रीमति कोशल्या, कुमारी भांकुतला पुत्री ओर श्रीमति काली विधवा अम्बी लाल पुत्र श्रीमति जुन्नू बराबर भाग 36 हिस्सा रीनचन पुत्र गुलाब दास पुत्र शिव दास 9 हिस्सा स्थानीय नंगबाग कब्जा स्वयं अम्बी लाल हिस्सादार
				157	157 / 1	निजी	गै. मु. आवादी	0.01.86	पोतम सिंह पुत्र रींगजन पुत्र फुंचोग स्थानीय नंगबाग कास्थ और कब्जा स्वयं
				158	158 / 1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.73	कुल भाग 3 धर्म सिंह, वीर सिंह, प्रीतम सिंह पुत्र ओर श्रीमति वन्ती देवी पुत्री कान्ही राम पुत्र नानकू बराबर भाग 1 हिस्सा करम चन्द, सागर सिंह, देवी सिंह ओम सिंह, रमेश चन्द, पुत्र ओर श्रीमति राम दासी विधवा बाला राम पुत्र नानकू बराबर भाग 1 हिस्सा राम दास पुत्र नानकू पुत्र ईज्जत 1 हिस्सा स्थानीय नंगबाग कास्थ और कब्जा स्वयं
				502	502	हि.प्र. सरकार	गै. मु. सड़क	0.20.54	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
				507	507 / 1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.15	कुल भाग 216 श्रीमति शिरू 18 हिस्सा पुत्री ओर श्रीमति दिलबन्तु 6 हिस्सा श्रीमति दुर्गा देवी पुत्री ओर सांगरी देवी विधवा रतन चन्द पुत्र परस राम बराबर भाग 12 हिस्सा चुहरू राम, जीत राम, मदन सिंह पुत्र देवी चन्द पुत्र जगतू बराबर भाग 9 हिस्सा धर्म चन्द प्रेम चन्द, राम वीर, आलम चन्द पुत्र ओर श्रीमति तीनी, श्रीमति विश्णु श्रीमति पती देवी पुत्र प्यारू पुत्र जगतू बराबर भाग 9 हिस्सा भायनू राम पुत्र दोले राम पुत्र जगतू 9 हिस्सा तुलसी राम पुत्र राम चन्द पुत्र गंगा राम 15 हिस्सा सोहन लाल, मदन लाल बराबर भाग 25 हिस्सा ओर श्रीमति बेघा देवी 5 हिस्सा विधवा प्रेम दास पुत्र राम चन्द सुजु पुत्र जोगी पुत्र गंगा राम 9 हिस्सा नाथू पुत्र गंगा राम पुत्र चमरू 9 हिस्सा हेत राम, मेहत राम,

								<p>रेवत राम पुत्र आतू पुत्र गंगा राम बराबर भाग 45 हिस्सा</p> <p>रूप सिंह, टेक सिंह, राम चन्द पुत्र ओर श्रीमति कोशल्या, कुमारी मांकुतला पुत्री ओर श्रीमति काली विधवा अम्बी लाल पुत्र श्रीमति जुन्नू बराबर भाग 36 हिस्सा</p> <p>रीनचन पुत्र गुलाब दास पुत्र शिव दास 9 हिस्सा स्थानीय नगंवाग</p> <p>अम्बी लाल बाया नीस्फ बीला नीसफ सुरेश कुमार ईश्वर दास पुत्री बन्शी दास पुत्र दिले राम बराबर भाग मुशतरीयां कास्थ स्वयं बिला वयन मुशतरीयां</p>
			498	498E1	निजी	गै. मु. सेहन	0.00.78	जमपाल सिंह पुत्र रीगंजन पुत्र फुंगचन स्थानीय नगंवाग कब्जा स्वयं
			497	497	निजी	गै. मु. रास्ता	0.0.25	जमपाल सिंह पुत्र रीगंजन पुत्र फुंगचन स्थानीय नगंवाग कब्जा स्वयं
			496	496/1	निजी	गै. मु. रास्ता	0.00.08	रीनचन पुत्र गुलाब दास पुत्र शिव दास स्थानीय नगंवाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं
			472	472/1	निजी	गै. मु. आबादी	0.00.57	कुल भाग 15 किर्ती कृष्ण पुत्र बालक राम पुत्र घीलू 14 हिस्सा मदन गोपाल पुत्र हीम दास पुत्र दामोदर दास 1 हिस्सा स्थानीय नगंवाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं
			471	471	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.01.92	कुल भाग 13 शितू राम, युवराज, प्रेम चन्द, पुत्र धनी राम पुत्र जगत राम बराबर भाग 3 हिस्सा पोतम सिंह पुत्र रीगंजन पुत्र फुंचुंग 10 हिस्सा स्थानीय नगंवाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं
			159	159	निजी	गै. मु. आबादी	0.00.86	कुल भाग 3 धर्म सिंह, वीर सिंह, प्रीतम सिंह पुत्र ओर श्रीमति वन्ती देवी पुत्री कान्शी राम पुत्र नानकू बराबर भाग 1 हिस्सा करम चन्द, सागर सिंह, देवी सिंह ओम सिंह रमेश चन्द पुत्र ओर श्रीमति राम दासी विधवा बाला राम पुत्र नानकू बराबर भाग 1 हिस्सा राम दास पुत्र नानकू पुत्र ईज्जतू 1 हिस्सा स्थानीय नगंवाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं



				160	160/1	निजी	गै. मु. आबादी	0.00.81	कुल भाग 3 धर्म सिंह, वीर सिंह, प्रीतम सिंह पुत्र और श्रीमति वन्ती देवी पुत्री कान्शी राम पुत्र नानकू बराबर भाग 1 हिस्सा करम चन्द, सागर सिंह, देवी सिंह ओम सिंह रमेश चन्द पुत्र और श्रीमति राम दासी विधवा बाला राम पुत्र नानकू बराबर भाग 1 हिस्सा राम दास पुत्र नानकू पुत्र ईज्जतू 1 हिस्सा स्थानीय नगंवाग, कास्थ और कब्जा स्वयं
				161	161/1	निजी	गै. मु. खण्ड	0.00.35	कुल भाग 3 धर्म सिंह, वीर सिंह, प्रीतम सिंह पुत्र और श्रीमति वन्ती देवी पुत्री कान्शी राम पुत्र नानकू बराबर भाग 1 हिस्सा करम चन्द, सागर सिंह, देवी सिंह ओम सिंह रमेश चन्द पुत्र और श्रीमति राम दासी विधवा बाला राम पुत्र नानकू बराबर भाग 1 हिस्सा राम दास पुत्र नानकू पुत्र ईज्जतू 1 हिस्सा स्थानीय नगंवाग कास्थ और कब्जा स्वयं
				469	469	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.01.45	कुल भाग 13 शितू राम, युवराज, प्रेम चन्द, पुत्र धनी राम पुत्र जगत राम बराबर भाग 3 हिस्सा पोतम सिंह पुत्र रींगजन पुत्र फुंजुंग 10 हिस्सा स्थानीय नगंवाग कास्थ और कब्जा स्वयं
				468	468	निजी	गै. मु. शौचघर	0.00.12	कुल भाग 13 शितू राम, युवराज, प्रेम चन्द, पुत्र धनी राम पुत्र जगत राम बराबर भाग 3 हिस्सा पोतम सिंह पुत्र रींगजन पुत्र फुंजुंग 10 हिस्सा स्थानीय नगंवाग कास्थ और कब्जा स्वयं
				467	467	निजी	बंजर कदीम	0.00.96	कुल भाग 13 शितू राम, युवराज, प्रेम चन्द, पुत्र धनी राम पुत्र जगत राम बराबर भाग 3 हिस्सा पोतम सिंह पुत्र रींगजन पुत्र फुंजुंग 10 हिस्सा स्थानीय नगंवाग कास्थ और कब्जा स्वयं
				162	162	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.01.35	पोतम सिंह पुत्र रींगजन पुत्र फुंजुंग स्थानीय नगंवाग कास्थ और कब्जा स्वयं
				466	466/1	निजी	गै. मु. दुकान	0.00.42	कुल भाग 13 शितू राम, युवराज, प्रेम

								चन्द, पुत्र घनी राम पुत्र जगत राम बराबर भाग 3 हिस्सा पोतम सिंह पुत्र रींगजन पुत्र फुंछुंग 10 हिस्सा स्थानीय नगर्बाग कास्थ और कब्जा स्वयं
			112	112/1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.06.27	कुल भाग 3 धर्म सिंह, वीर सिंह, प्रीतम सिंह पुत्र और श्रीमति वन्ती देवी पुत्री कान्ही राम पुत्र नानकू बराबर भाग 1 हिस्सा करम चन्द, सागर सिंह, देवी सिंह ओम सिंह रमेश चन्द पुत्र और श्रीमति राम दासी विधवा बाला राम पुत्र नानकू बराबर भाग 1 हिस्सा राम दास पुत्र नानकू पुत्र ईज्जतू 1 हिस्सा स्थानीय नगर्बाग कास्थ और कब्जा स्वयं
			111	111	निजी	बंजर कदीम	0.02.42	कुल भाग 33588 अमीर चन्द, केसर चन्द पुत्र तारा चन्द पुत्र दोगलू बराबर भाग 8544 हिस्सा राकेश चन्द राजेश चन्द पुत्र और, श्रीमति भावना पुत्री और श्रीमति प्रेमवती विधवा लोडर चन्द पुत्र राम दयाल बराबर भाग 1080 हिस्सा  समतन चरिंग, चैवंग, पलघन चेरिंग पुत्र राम सरण पुत्र चोकानन्द बराबर भाग 2799 हिस्सा  श्रीमति ओमा वती पत्नी तासी गीलसन पुत्र रामसरण 933 हिस्सा  मदन गोपाल, प्रदीप कुमार बराबर भाग 7792 हिस्सा  पुत्र और रमेश कुमार पुत्र और श्रीमति मागू देवी श्रीमति लता देवी, श्रीमति कमला श्रीमति उशा देवी, श्रीमति अरुणा पुत्री और श्रीमति दुर्गा देवी बराबर भाग 8708 हिस्सा विधवा जगरनाथ पुत्र जोधा राम कोशल चन्द, महावीर चन्द, पुत्र नारायण दत्त, पुत्र बुद्ध राम बराबर भाग 3732 हिस्सा स्थानीय नगर्बाग कास्थ और कब्जा स्वयं
			448	448/1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.30	कोशल चन्द, महावीर चन्द, पुत्र नारायण दत्त पुत्र बुद्ध राम बराबर भाग स्थानीय नगर्बाग कास्थ और कब्जा स्वयं

				446	446/1	निजी	गै. मु. आवादी	0.02.04	कुल भाग 2 महावीर चन्द, पुत्र नारायण दत्त पुत्र बुद्ध राम 1 हिस्सा तरवन लाल पुत्र बुद्ध राम पुत्र लोबडू 1 हिस्सा स्थानीय नगबाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				444	444	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.01.26	कुल भाग 2 महावीर चन्द, पुत्र नारायण दत्त पुत्र बुद्ध राम 1 हिस्सा तरवन लाल पुत्र बुद्ध राम पुत्र लोबडू 1 हिस्सा स्थानीय नगबाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				447	447/1	निजी	गै. मु. खण्ड	0.00.08	कुल भाग 2 राकेश चन्द, राजेश पुत्र ओर श्रीमति भावना पुत्री ओर श्रीमति प्रेमवती विधवा लोडर चन्द पुत्र राम दयाल बराबर भाग 1 हिस्सा कोशल चन्द, महावीर चन्द पुत्र नारायण दत्त बुद्ध राम बराबर भाग 1 हिस्सा स्थानीय नगबाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				445	445	निजी	बजरं कदीम	0.00.30	कोशल चन्द, महावीर चन्द, पुत्र नारायण दत्त पुत्र बुद्ध राम बराबर भाग स्थानीय नगबाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				163	163	हि.प्र. सरकार	गै. मु. सड़क	0.15.30	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
				443	443/1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.02.18	कुल भाग 2 महावीर चन्द, पुत्र नारायण दत्त पुत्र बुद्ध राम 1 हिस्सा तरवन लाल पुत्र बुद्ध राम पुत्र लोबडू 1 हिस्सा स्थानीय नगबाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				442	442	निजी	गै. मु. भोचधर	0.00.09	कुल भाग 2 महावीर चन्द, पुत्र नारायण दत्त पुत्र बुद्ध राम 1 हिस्सा तरवन लाल पुत्र बुद्ध राम पुत्र लोबडू 1 हिस्सा स्थानीय नगबाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				441	441/1	हि.प्र. सरकार	गै. मु. नाला	0.00.94	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वयं तबे हकुक बरतन दरन
				110/1	110/1	निजी	बजरं कदीम	0.00.12	कुल भाग 33588 अमीर चन्द, केसर चन्द पुत्र तारा चन्द पुत्र दोगलू बराबर भाग 8544 हिस्सा राकेश चन्द,

									राजेश चन्द पुत्र ओर श्रीमति भावना पुत्री ओर श्रीमति प्रेमवती विधवा लोडर चन्द पुत्र राम दयाल बराबर भाग 1080 हिस्सा  समतन चरिंग, चेवंग, पलघन चेरिंग पुत्र राम सरण पुत्र चोकानन्द बराबर भाग 2799 हिस्सा  श्रीमति ओमा वती पत्नी तासी गीलसन पुत्र रामसरण 933 हिस्सा  मदन गोपाल, प्रदीप कुमार बराबर भाग 7792 हिस्सा  पुत्र ओर रमेश कुमार पुत्र ओर श्रीमति मागू देवी श्रीमति लता देवी, श्रीमति कमला श्रीमति उशा देवी, श्रीमति अरुणा पुत्री ओर श्रीमति दुर्गा देवी बराबर भाग 8708 हिस्सा विधवा जगरनाथ पुत्र जोधा राम कोशल चन्द, महावीर चन्द, पुत्र नारायण दत्त, पुत्र बुद्ध राम बराबर भाग 3732 हिस्सा स्थानीय नंगबाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं
			250	250 / 1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.77	श्रीमति उत्तरा पुत्री खुं ब राम पुत्र भिमी राम स्थानीय कास्थ ओर कब्जा स्वयं	
			249	249	निजी	बाथल अवल	0.00.55	श्रीमति उत्तरा पुत्री खुं ब राम पुत्र भिमी राम स्थानीय कास्थ ओर कब्जा स्वयं	
			251	251 / 1	निजी	गै. मु. आबादी	0.00.20	नवीन कुमार पुत्र ओर श्रीमति ईन्द्रा श्रीमति सुनीता श्रीमति किरन श्रीमति संजु पुत्री जगातरू उर्फ दिनू पुत्र खुब राम बराबर भाग स्थानीय नगबाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं	
			248	248 / 1	निजी	गै. मु. आबादी	0.00.75	आबादी देह	
			245	245	निजी	गै. मु. सेहन	0.00.22	सुनीती कुमार, अमीर चन्द, भुवनेश कुमार, राकेश कुमार पुत्र कामनाथ पुत्र राम सरन बराबर भाग स्थानीय नगबाग कास्थ ओर  कब्जा स्वयं भुवनेशर कुमार हिस्सादार	
			65	65 / 1	निजी	गै. मु. आबादी	0.01.75	आबादी देह	
			62	62 /	निजी	गै. मु. आबादी	0.00.39	राकेश कुमार पुत्र कामनाथ पुत्र राम सरन स्थानीय नगबाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं	

			63	63	निजी	गै. मु. आबादी	0.00.77	राकेश कुमार पुत्र कामनाथ पुत्र राम सरन स्थानीय नगबाग कास्थ और कब्जा स्वयं
			64	64	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.40	सुनीती कुमार, अमीर चन्द, भुवनेश कुमार, राकेश कुमार पुत्र कामनाथ पुत्र राम सरन बराबर भाग स्थानीय नगबाग कास्थ और कब्जा स्वयं भुवनेश कुमार हिस्सादार
			244	244/1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.40	हरिश कुमार, सुरेश अनंत पुत्र कृष्ण लाल पुत्र नानक चन्द बराबर भाग स्थानीय कास्थ और कब्जा स्वयं
			239	239/1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.77	अमर चन्द, भुवनेश्वर कुमार, राकेश कुमार पुत्र कामनाथ पुत्र राम सरन बराबर भाग स्थानीय नगबाग कास्थ स्वयं
			61	61/1	निजी	गै. मु. मशीनें	0.01.16	भुवनेश्वर कुमार पुत्र कामनाथ पुत्र राम सरन स्थानीय नगबाग कास्थ स्वयं
			164	164	हि.प्र. सरकार	गै. मु. सड़क	0.42.40	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
			226	226	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.68	कुल भाग 24 अमर चन्द, भुवनेश्वर कुमार पुत्र कामनाथ पुत्र राम सरन बराबर भाग 16 हिस्सा ईश्वर कान्त पुत्र श्रीमति गन्धारी देवी पुत्री मोती राम 5 हिस्सा राकेश कुमार पुत्र कामनाथ पुत्र राम सरन 3 हिस्सा स्थानीय नगबाग कास्थ और कब्जा स्वयं
			227	227	निजी	गै. मु. आबादी	0.01.08	कुल भाग 24 अमर चन्द, भुवनेश्वर कुमार पुत्र कामनाथ पुत्र राम सरन बराबर भाग 16 हिस्सा ईश्वर कान्त पुत्र श्रीमति गन्धारी देवी पुत्री मोती राम 5 हिस्सा राकेश कुमार पुत्र कामनाथ पुत्र राम सरन 3 हिस्सा स्थानीय नगबाग कास्थ और कब्जा स्वयं
			238	238	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.03.16	कुल भाग 24 अमर चन्द, भुवनेश्वर कुमार पुत्र कामनाथ पुत्र राम सरन बराबर भाग 16 हिस्सा ईश्वर कान्त पुत्र श्रीमति गन्धारी देवी पुत्री मोती राम 5 हिस्सा राकेश कुमार पुत्र कामनाथ पुत्र राम सरन 3 हिस्सा स्थानीय नगबाग कास्थ और कब्जा स्वयं

				225	225 / 1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.02.63	कुल भाग 6 दोरजे अंगरूप, ताशी दावा, ताशी नोरबू पुत्र सोनम पुत्र सोनम रीगजन बराबर भाग 3 हिस्सा सुशील चन्द, चेरिंग नवंग पुत्र गोम्बू पुत्र सोनम रीगजन बराबर भाग 2 हिस्सा अशोक कुमार पुत्र कलजंग तनजन पुत्र कालू 1 हिस्सा स्थानीय नगबाग कास्थ स्वयं
				11	11 / 1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.08.17	कुल भाग 4132 सुनीती कुमार, अमर चन्द, राकेश कुमार पुत्र कामनाथ पुत्र रामसरन बराबर भाग 3099 हिस्सा तविन्दर कुमार पुत्र सुनीती कुमार पुत्र कामनाथ 880 हिस्सा भुवनेश कुमार पुत्र कामनाथ पुत्र राम सरन 153 हिस्सा स्थानीय नगबाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं भुवनेश कुमार तविन्दर कुमार हिस्सादार
				10	10 / 1	निजी	गै. मु. आबादी	0.00.73	अमीर चन्द, के. व. चन्द पुत्र तारा चन्द पुत्र दोगलू बराबर भाग स्थानीय नगबाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				9	9 / 1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.13	अमीर चन्द, केशव चन्द पुत्र तारा चन्द पुत्र दोगलू बराबर भाग स्थानीय नगबाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				224	224	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.30	श्रीमति दुर्गा पुत्री खुम्ब राम पुत्र मिमी राम स्थानीय नगबाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				222	222 / 1	निजी	बाथल अबल	0.03.23	कुल भाग 26 अर्जुन देव पुत्र जीत राम पुत्र खुम्ब राम 5 हिस्सा किती कृष्ण पुत्र बालक राम पुत्र गीलू 11 हिस्सा श्रीमति भारती पुत्री किती कृष्ण पुत्र बालक राम 10 हिस्सा स्थानीय नगबाग कास्थ स्वयं
				221	221 / 1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.22	कुल भाग 26 अर्जुन देव पुत्र जीत राम पुत्र खुम्ब राम 5 हिस्सा कीर्ती कृष्ण पुत्र बालक राम पुत्र गीलू 11 हिस्सा श्रीमति भारती पुत्री किती कृष्ण पुत्र बालक राम 10 हिस्सा स्थानीय नगबाग कास्थ स्वयं
				220	220 / 1	निजी	बगीचा बाथल	0.02.10	नरोत्तम चन्द, माहर चन्द, लाल चन्द, ओम, प्रकाश पुत्र

							फलदार		लखमी राम पुत्र मगलू बराबर भाग स्थानीय नगबाग कास्थ ओर कब्जा स्वय
				219	219 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.01.34	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वय तबे हकुक बरतन दरन
				178	178 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सडक	0.00.42	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
				165	165 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह दरखतान	0.00.88	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वय तबे हकुक बरतन दरन
				166	166 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.00.24	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वय तबे हकुक बरतन दरन
				2	2 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.00.64	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वय तबे हकुक बरतन दरन
				1	1 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.रास्ता	0.00.46	सारे—आम
				कता—69			कुल	1.54.08	

			9. मालतीबाग	142	142/1	निजी	बंजर कदीम	0.00.38	कुल भाग 6 श्रीमति होलमा देवी पुत्री जोगी राम पुत्र श्रीमति देवकलि 1 हिस्सा बुद्ध राम पुत्र श्रीमति देवकलि पुत्री चेत राम 3 हिस्सा भयाम लाल पुत्र गंग चन्द पुत्र सोभु 2 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				145	145 / 1	निजी	रोपा अबल	0.01.14	धर्म चन्द पुत्र ओर श्रीमति कमला देवी पत्नी ओर विशन लाल हुकम चन्द पुत्र आलम चन्द पुत्र बुदु बराबर भाग राहीन स्थानीय मालतीबाग श्रीमति कमला देवी पत्नी आलम चन्द पुत्र बुदु स्थानीय मालतीबाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				145 / 1	145 / 1 / 1	निजी	बंजर कदीम	0.01.96	कुल भाग 2 दीपक सुरी पुत्र ओर श्रीमति कमला सुरी विधवा कुलदीप चन्द सुरी पुत्र दीपती राम सुरी बराबर भाग 1 मनीश्वर सुरी पुत्र दीपती राम सुरी पुत्र हेम राज 1 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
				148	148	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सादा	0.00.39	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग

			149	149	निजी	बंजर कदीम	0.00.49	धर्म चन्द , विशन लाल हुकम चन्द पुत्र ओर श्रीमति कमला देवी पत्नी आलम चन्द पुत्र चन्द पुत्र बुदु स्थानीय मालतीबाग कास्थ और कब्जा स्वयं
			155	155	निजी	रोपा अवल	0.00.21	धर्म चन्द , विशन लाल हुकम चन्द पुत्र ओर श्रीमति कमला देवी पत्नी आलम चन्द पुत्र चन्द पुत्र बुदु स्थानीय मालतीबाग कास्थ और कब्जा स्वयं
			156	156	निजी	बंजर कदीम	0.00.62	धर्म चन्द , विशन लाल हुकम चन्द पुत्र ओर श्रीमति कमला देवी पत्नी आलम चन्द पुत्र चन्द पुत्र बुदु स्थानीय मालतीबाग कास्थ और कब्जा स्वयं
			156 / 1	156 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.02.41	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
			160	160 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.नाला	0.02.16	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
			161	161 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.रास्ता	0.00.21	हि.प्र. सरकार सरे आम
			163	163 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.05.18	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
			164	164 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.रास्ता	0.00.36	हि.प्र. सरकार सरे आम
			165	165 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.00.88	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
			166	166 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.00.32	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
			167	167 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.01.30	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
			168	168	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.08.71	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
			174	174 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सादा	0.00.40	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
			175	175	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.00.91	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
			176	176 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.02.31	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
			177	177 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.00.20	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन



				179	179 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.00.75	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				180	180 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.नाला	0.00.72	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				181	181 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.10.63	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				169	169 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.08.82	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				77	77 / 1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.87	धर्म चन्द , विशन लाल हुकम चन्द पुत्र ओर श्रीमति कमला देवी पत्नी आलम चन्द पुत्र चन्द पुत्र बुदु स्थानीय मालतीबाग कास्थ ओर कब्जा स्वयं
				139	139 / 1	निजी	गै.मु. आवादी	0.00.90	कुल भाग 2 दीपक सुरी पुत्र ओर श्रीमति कमला सुरी विधवा कुलदीप चन्द सुरी पुत्र दीपती राम सुरी बराबर भाग 1 मनीश्वर सुरी पुत्र दीपती राम सुरी पुत्र हेम राज 1 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
				141	141 / 1	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.08.93	कुल भाग 2 दीपक सुरी पुत्र ओर श्रीमति कमला सुरी विधवा कुलदीप चन्द सुरी पुत्र दीपती राम सुरी बराबर भाग 1 मनीश्वर सुरी पुत्र दीपती राम सुरी पुत्र हेम राज 1 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
				182	182	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.16.81	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
				183	183	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.01.46	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
				184	184 / 1	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.01.44	श्रीमति मंजु सुरी पत्नी भुवनेश्वर सुरी पुत्र दीपती राम कास्थ और कब्जा स्वयं
				550	550 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.18.20	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				534	534 / 1	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.00.58	दोलू पुत्र लबडु पुत्र पतू कास्थ और कब्जा स्वयं
				532	532 / 1	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.00.55	सोजु पुत्र लबडु पुत्र पतू कास्थ और कब्जा स्वयं
				533	533 / 1	निजी	बगीचा रोपा	0.00.40	गोलू पुत्र लबडु पुत्र पतू कास्थ और कब्जा स्वयं

							फलदार		
				548	548	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.14.85	हि.प्र. सरकार कब्जा उपायुक्त कुल्लू
				547	547	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.10.39	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
				525	525/1	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.06.31	कुल भाग 4 केवल कृष्ण पुत्र विरजा पुत्र तुथा 1 हिस्सा मनप्रीत पत्नी सुखवीर पुत्र कुलवीर 3 हिस्सा कास्थ और कब्जा स्वयं
				472	472	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.01.78	हि.प्र. सरकार कब्जा उपायुक्त कुल्लू
				522	522	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.00.10	कुल भाग 4 केवल कृष्ण पुत्र विरजा पुत्र तुथा 1 हिस्सा मनप्रीत पत्नी सुखवीर पुत्र कुलवीर 3 हिस्सा कास्थ और कब्जा स्वयं
				474	474/1	निजी	बगीचा अबल फलदार	0.02.26	कुल भाग 4 केवल कृष्ण पुत्र विरजा पुत्र तुथा 1 हिस्सा मनप्रीत पत्नी सुखवीर पुत्र कुलवीर 3 हिस्सा कास्थ और कब्जा स्वयं
				473	473	निजी	गै.मु.सड़क	0.01.19	कुल भाग 4 केवल कृष्ण पुत्र विरजा पुत्र तुथा 1 हिस्सा मनप्रीत पत्नी सुखवीर पुत्र कुलवीर 3 हिस्सा कास्थ और कब्जा स्वयं
				471	471	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.01.62	हि.प्र. सरकार कब्जा उपायुक्त कुल्लू
				469	469/1	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.00.25	कुल भाग 4 केवल कृष्ण पुत्र विरजा पुत्र तुथा 1 हिस्सा मनप्रीत पत्नी सुखवीर पुत्र कुलवीर 3 हिस्सा कास्थ और कब्जा स्वयं
				470	470	निजी	गै.मु.सड़क	0.00.63	कुल भाग 69778800 अमी चन्द, दुनी चन्द, पुत्र दोरजे राम पुत्र चेरिंग बराबर भाग 55621755 हिस्सा श्रीमति वर्नी पुत्री चन्दलू पुत्र भोतू 13083525 हिस्सा लोहरू पुत्र खालू पुत्र तलकु 1073520 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
				421	421/1	निजी	बगीचा	0.03.87	कुल भाग 69778800

							रोपा फलदार		अमी चन्द, दुनी चन्द, पुत्र दोरजे राम पुत्र चेरिंग बराबर भाग 55621755 हिस्सा श्रीमति वन्ती पुत्री चन्चलू पुत्र भोतू 13083525 हिस्सा लोहरु पुत्र खालू पुत्र तलकू 1073520 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
			417	417/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क		0.00.49	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
			415	415/1	निजी	बगीचा रोपा फलदार		0.04.14	कुल भाग 18 राजेन्दर प्रसाद, देवेन्दर प्रसाद बराबर भाग 2 हिस्सा पुत्र ओर श्रीमति कृष्णा देवी 4 भाग पत्नी ज्वाला प्रसाद पुत्र मुरली उर्फ मधुसुदन दीपक सुरी पुत्र कुलदीप चन्द सुरी पुत्र दीपती राम पुत्र हेम राज 9 हिस्सा कास्थ ओर कब्जा स्वयं
			414	414/1	निजी	रोपा अबल		0.00.46	कुल भाग 18 राजेन्दर प्रसाद, देवेन्दर प्रसाद बराबर भाग 2 हिस्सा पुत्र ओर श्रीमति कृष्णा देवी 4 भाग पत्नी ज्वाला प्रसाद पुत्र मुरली उर्फ मधुसुदन दीपक सुरी पुत्र कुलदीप चन्द सुरी पुत्र दीपती राम पुत्र हेम राज 9 हिस्सा कास्थ ओर कब्जा स्वयं
			412	412/1	निजी	बगीचा रोपा फलदार		0.01.81	श्रीमति भादी पुत्री किमी राम पुत्र दोमनू फती जीन्दोर कास्थ ओर कब्जा स्वयं
			418	418/1	हि.प्र. चरकार	गै.मु.रास्ता		0.01.34	हि.प्र. सरकार सरे आम
			419	419/1	निजी	बगीचा रोपा फलदार		0.03.12	कुल भाग 3120 धर्म पाल पुत्र नरवीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह 568 हिस्सा बिसन लाल, रोशन लाल पुत्र रेवत राम 240 हिस्सा बुद्ध राम 808 हिस्सा पुत्र नरान्जनु पुत्र भोतू श्रीमति वन्ती पुत्री चन्चलू पुत्र भोतू 1313 हिस्सा श्रीमति सावरी, श्रीमति नीमू पुत्री चन्चलू 143 हिस्सा लोहरु पुत्र कालू पुत्र तलकू 48 हिस्सा मालतीबाग
			420	420	निजी	बगीचा रोपा फलदार		0.04.18	कुल भाग 3120 धर्म पाल पुत्र नरवीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह 568 हिस्सा बीसन लाल, रोशन लाल पुत्र रेवत राम 240 हिस्सा बुद्ध राम 808 हिस्सा पुत्र नरान्जनु पुत्र भोतू श्रीमति वन्ती पुत्री चन्चलू पुत्र भोतू 1313 हिस्सा श्रीमति सावरी, श्रीमति नीमू

								पुत्री चन्चलू 143 हिस्सा लोहरू पुत्र कालू पुत्र तल्कू 48 हिस्सा मालतीबाग
			429	429 / 1	निजी	रोपा अबल	0.00.62	कुल भाग 21420 दोलू पुत्र लम्बडू सो पतू 4284 हिस्सा चन्दे राम, नन्दे राम, रामनाथ गुप्त राम, प्रेम चन्द, राम चन्द तारा चन्द, पुत्र दोलत राम पुत्र भोतू बराबर भाग 4068 हिस्सा श्रीमति कोशल्या देवी पुत्री हेत राम पुत्र अन्नत राम 2975 हिस्सा पूने राम पुत्र परस राम पुत्र सखरू 4284 हिस्सा प्यारू राम पुत्र पूने राम पुत्र परस राम 4284 हिस्सा हरदयाल पुत्र किमी राम पुत्र नन्द राम 1525 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
			427	427	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.04.74	कुल भाग 24 बुद्ध राम पुत्र भोरू पुत्र बेगू 12 हिस्सा राम लाल श्याम लाल पुत्र मोनदास पुत्र शिवदयाल बराबर भाग 4 हिस्सा रोशन लाल पुत्र प्रेम लाल मोनदास 2 हिस्सा दोले राम 1 हिस्सा पुत्र ओर राम चन्द 3 हिस्सा पुत्र भीम सेन पुत्र साध राम रोहीत पुत्र सुखदयाल पुत्र भीम सेन 1 हिस्सा अमर सिंह पुत्र भाग सिंह पुत्र भीम सेन 1 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
			426	426 / 1	निजी	रोपा अबल	0.00.95	कुल भाग 30600 बुद्ध राम 15771 हिस्सा पुत्र फती जीन्दोर लाल चन्द 2351 हिस्सा पुत्र ओर बुलाब दास पुत्र बेगू पुत्र तेजू 10540 हिस्सा कोहदू पुत्र श्रीमति रेवती पुत्री बेगू 170 हिस्सा लाल चन्द पुत्र सीधरू पुत्र बेगू 1718 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
			431	431 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.कुहल	0.01.35	ग्राम पंचायत कब्जा स्वयं आवपस कुनीन्दगन
			428	428 / 1	निजी	रोपा अबल	0.02.93	कुल भाग 24 बुद्ध राम पुत्र भोरू पुत्र बेगू 12 हिस्सा राम लाल श्याम लाल पुत्र मोनदास पुत्र शिवदयाल बराबर भाग 4

									हिस्सा रोशन लाल पुत्र प्रेम लाल मोनदास 2 हिस्सा  दोले राम 1 हिस्सा पुत्र ओर राम चन्द 3 हिस्सा पुत्र भीम सेन पुत्र साध राम  रोहीत पुत्र सुखदयाल पुत्र भीम सेन 1 हिस्सा अमर सिंह पुत्र भाग सिंह पुत्र भीम सेन 1 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
				460	4601	निजी	रोपा अबल	0.07.68	कुल भाग 30600  बुद्ध राम 15771 हिस्सा पुत्र फती जीन्दोर लाल चन्द 2351 हिस्सा पुत्र ओर बुलाब दास पुत्र बेगू पुत्र तेजू 10540 हिस्सा  कोहदू पुत्र श्रीमति रेवती पुत्री बेगू 170 हिस्सा लाल चन्द पुत्र सीधरू पुत्र बेगू 1718 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
				486	486 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.कुहल	0.01.06	ग्राम पंचायत कब्जा रंथ आवपस कुनीन्दगन
				457	457	निजी	रोपा अबल	0.03.30	कुल भाग 24  लाल चन्द पुत्र लोटल राम पुत्र बली राम 7 हिस्सा श्रीमति देवकला पत्नी अजय कुमार पुत्र मदन लाल 4 हिस्सा  अमर चन्द पुत्र ओर श्रीमति इन्द्रा देवी श्रीमति पिकू देवी पुत्री ओर श्रीमति कालती पत्नी पोसु पुत्र जीतू बराबर भाग 1 हिस्सा  भोतू पुत्र मनी राम पुत्र चुन्कू 8 हिस्सा श्रीमति तोलू विधवा दीपू पुत्र मनी राम 4 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
				458	458	निजी	रोपा अबल	0.01.66	कुल भाग 24  लाल चन्द पुत्र लोटल राम पुत्र बली राम 7 हिस्सा श्रीमति देवकला पत्नी अजय कुमार पुत्र मदन लाल 4 हिस्सा  अमर चन्द पुत्र ओर श्रीमति इन्द्रा देवी श्रीमति पिकू देवी पुत्री ओर श्रीमति कालती पत्नी पोसु पुत्र जीतू बराबर भाग 1 हिस्सा  भोतू पुत्र मनी राम पुत्र चुन्कू 8 हिस्सा श्रीमति तोलू विधवा दीपू पुत्र मनी राम 4 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग

			512	512/1		बगीचा रोपा फलदार	0.06.21	<p>कुल भाग 108</p> <p>वेनी राम पुत्र ओर श्रीमति फीची विघवा छोटा बचारु उर्फ छोरती चोग पुत्र मालपुर बराबर भाग 36 हिस्सा श्रीमति लोदरी पुत्री भाग चन्द पुत्र चन्दू 9 हिस्सा नवीत कुमार पुत्र ओर श्रीमति ईन्द्रा देवी, श्रीमति सुनीता श्रीमति किरन श्रीमति संजु पुत्री जगातरु उर्फ दिनू पुत्र खुब राम बराबर भाग 1 हिस्सा</p> <p>बलदेव कृष्ण पुत्र श्रीमति जयदेही पुत्री खुब राम 1 हिस्सा श्रीमति कमला रीमति दुर्गा श्रीमति सावित्री, श्रीमति निर्मला बराबर भाग 4 हिस्सा पुत्री ओर श्रीमति उत्तरा 2 हिस्सा पुत्री खुब राम पुत्र भिमी राम स्थानीय मालतीबाग</p> <p>श्रीमति देवकला पत्नी अजय कुमार पुत्र मदन लाल 10 हिस्सा स्थानीय फती दालपुर किशन दास पुत्र देवी दास पुत्र भाग राम 9 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग वीर सिंह पुत्र सुरत राम पुत्र कोखू 9 हिस्सा स्थानीय सकन किरतीगं मोहाल रानीका तह0 ओर जिला लाहोल स्पीती भुवनेश्वर महतं पुत्र कृष्ण दास पुत्र अनुप राम 27 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग</p> <p>कब्जा स्वयं</p> <p>कुल भाग 54 विनी राम, श्रीमति फीची बराबर भाग 36 हिस्सा नवीत कुमार श्रीमति ईन्द्रा, श्रीमति सुनीता, श्रीमति किरन, श्रीमति संजु बराबर भाग 1 हिस्सा</p> <p>बलदेव कृष्ण 1 हिस्सा श्रीमति कमला, श्रीमति दुर्गा श्रीमति निर्मला, श्रीमति सावित्री बराबर भाग 4 हिस्सा श्रीमति उत्तरा 2 हिस्सा श्रीमति देवकला 10 हिस्सा हिस्सादारान</p>
			513	513/1		बगीचा रोपा फलदार	0.01.22	<p>कुल भाग 24</p> <p>लाल चन्द पुत्र लोटल राम पुत्र बली राम 7 हिस्सा श्रीमति देवकला पत्नी अजय कुमार पुत्र मदन लाल 4 हिस्सा</p> <p>अमर चन्द पुत्र ओर श्रीमति ईन्द्रा देवी श्रीमति पिकू देवी पुत्री ओर श्रीमति कालेती पत्नी पोसु पुत्र जीतू बराबर भाग 1 हिस्सा</p> <p>भोतू पुत्र मनी राम पुत्र चुन्कू</p>

									8 हिस्सा श्रीमति तोलू विधवा दीपू पुत्र मनी राम 4 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
				514	514/1		बगीचा रोपा फलदार	0.00.03	<p>कुल भाग 108</p> <p>वेनी राम पुत्र ओर श्रीमति फींची विधवा छोटा बचारू उर्फ छोरती चोग पुत्र मालपुर बराबर भाग 36 हिस्सा श्रीमति लोदरी पुत्री भाग चन्द पुत्र चन्दू 9 हिस्सा नवीत कुमार पुत्र ओर श्रीमति ईन्द्रा देवी, श्रीमति सुनीता श्रीमति किरन श्रीमति संजु पुत्री जगातरू उर्फ दिनू पुत्र खुब राम बराबर भाग 1 हिस्सा</p> <p>बलदेव कृष्ण पुत्र श्रीमति जयदेही पुत्री खुब राम 1 हिस्सा श्रीमति कमला श्रीमति दुर्गा श्रीमति सावित्री, श्रीमति निर्मला बराबर भाग 4 हिस्सा पुत्री ओर श्रीमति उत्तरा 2 हिस्सा पुत्री खुब राम पुत्र भिमी राम स्थानीय मालतीबाग</p> <p>श्रीमति देवकला पत्नी अजय कुमार पुत्र मदन लाल 10 हिस्सा स्थानीय फती दालपुर किशन दास पुत्र देवी दास पुत्र भाग राम 9 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग वीर सिंह पुत्र सुरत राम पुत्र कोखू 9 हिस्सा स्थानीय सकन किरतीगं मोहाल रानीका तह0 ओर जिला लाहोल स्पीती भुवनेश्वर महतं पुत्र कृष्ण दास पुत्र अनुप राम 27 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग कब्जा स्वयं</p> <p>कुल भाग 54 विनी राम, श्रीमति फीची बराबर भाग 36 हिस्सा नवीत कुमार श्रीमति ईन्द्रा, श्रीमति सुनीता, श्रीमति किरन, श्रीमति संजु बराबर भाग 1 हिस्सा</p> <p>बलदेव कृष्ण 1 हिस्सा श्रीमति कमला, श्रीमति दुर्गा श्रीमति निर्मला, श्रीमति सावित्री बराबर भाग 4 हिस्सा श्रीमति उत्तरा 2 हिस्सा श्रीमति देवकला 10 हिस्सा हिस्सादारान</p>
				509	509/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.कुहल	0.00.79	ग्राम पचायत कब्जा स्वयं आवपस कुनीन्दगन
				511	511/1		बगीचा रोपा फलदार	0.04.05	<p>कुल भाग 108</p> <p>वेनी राम पुत्र ओर श्रीमति फींची विधवा छोटा बचारू उर्फ छोरती चोग पुत्र मालपुर बराबर भाग 36 हिस्सा श्रीमति लोदरी पुत्री भाग चन्द पुत्र चन्दू 9 हिस्सा नवीत कुमार पुत्र ओर श्रीमति ईन्द्रा देवी, श्रीमति सुनीता श्रीमति किरन श्रीमति संजु पुत्री जगातरू उर्फ दिनू पुत्र खुब राम</p>

								<p>बराबर भाग 1 हिस्सा</p> <p>बलदेव कृष्ण पुत्र श्रीमति जयदेही पुत्री खुब राम 1 हिस्सा श्रीमति कमला रीमति दुर्गा श्रीमति सावित्री, श्रीमति निर्मला बराबर भाग 4 हिस्सा पुत्री ओर श्रीमति उत्तरा 2 हिस्सा पुत्री खुब राम पुत्र भिमी राम स्थानीय मालतीबाग</p> <p>श्रीमति देवकला पत्नी अजय कुमार पुत्र मदन लाल 10 हिस्सा स्थानीय फती दालपुर किशन दास पुत्र देवी दास पुत्र भाग राम 9 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग वीर सिंह पुत्र सुरत राम पुत्र कोखू 9 हिस्सा स्थानीय सकन किरतीगं मोहाल रानीका तह0 ओर जिला लाहोल स्पीती भुवनेश्वर महतं पुत्र कृष्ण दास पुत्र अनुप राम 27 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग</p> <p>कब्जा संवय</p> <p>कुल भाग 54 विनी राम, श्रीमति फीची बराबर भाग 36 हिस्सा नवीत कुमार श्रीमति ईन्दा, श्रीमति सुनीता, श्रीमति किरन, श्रीमति संजु बराबर भाग 1 हिस्सा</p> <p>बलदेव कृष्ण 1 हिस्सा श्रीमति कमला ,श्रीमति दुर्गा श्रीमति निर्मला, श्रीमति सावित्री बराबर भाग 4 हिस्सा श्रीमति उत्तरा 2 हिस्सा श्रीमति देवकला 10 हिस्सा हिस्सादारान</p>
			510	510 / 1	निजी	रोपा अवल	0.00.67	<p>कुल भाग 32784</p> <p>खुब राम पुत्र टीकम राम पुत्र खीमी राम 2732 हिस्सा श्रीमति विनी 683 हिस्सा ओर लोटरु श्रीमति बन्ती बराबर भाग 683 हिस्सा पत्नी जगत राम पुत्र टीकम राम श्रीमति सेवती 2732 हिस्सा कमला 6147 हिस्सा पुत्री टीकम राम पुत्र भोतू ज्वाला राम पुत्र भोतू पुत्र चूहरु 11592 हिस्सा श्रीमति भाकुन्तला पत्नी निर्मल चन्द पुत्र बीशन चन्द 1366 हिस्सा रेशमा पुत्री देव वन्ती पुत्री शिव दयाल 1366 हिस्सा, पुशपा देवी पुत्री अमय चन्द पुत्र ज्वाला राम 4800 हिस्सा भुवनेश्वर महतं पुत्र कृष्ण दास पुत्र अनुप राम 683 हिस्सा कास्य ओर कब्जा संवय</p>
			508	508 / 1	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.07.10	<p>कुल भाग 33588</p> <p>अभीर दास, केसर चन्द पुत्र</p>



									<p>तारा चन्द पुत्र दोगलू बराबर भाग 1080 हिस्सा समतन चेरिंग, चैवग, पलदन चेरिंग पुत्र राम सरन पुत्र चोकानन्द बराबर भाग 2799 हिस्सा श्रीमति ओमा वती पत्नी तासी गेल्सन पुत्र रामसरन 933 हिस्सा</p> <p>मदन गोपाल, प्रदीप कुमार बराबर भाग 7792 हिस्सा पुत्र ओर रमेश कुमार पुत्र ओर श्रीमति भागो देवी, श्रीमति लता देवी, श्रीमति कमला श्रीमति उशा देवी श्रीमति अरुना पुत्री ओर श्रीमति दुर्गा देवी पत्नी जगरनाथ पुत्र जोधा राम बराबर भाग 8708 हिस्सा</p> <p>परमा नन्द 7464 हिस्सा पुत्र ओर श्रीमति कृष्णा देवी 3732 हिस्सा पत्नी मुल चन्द पुत्र जोधाराम राकेश चन्द, राजेश पुत्र ओर श्रीमति मवना पुत्री श्रीमति प्रेमलता पत्नी लोदर चन्द पुत्र रादयाल बराबर भाग 1080 हिस्सा स्थानीय भालतीबाग कब्जा स्वयं मुताबिक खाना कारस्थ</p> <p>कुल भाग 2 मदन गोपाल रमेश कुमार इत्यादि ओर लता कमला अतयादि 1 हिस्सा</p> <p>परमा नन्द, कृष्ण देवी बराबर भाग 1 हिस्सा हिस्सादारान वयन कुल भाग 1075 हिस्सा</p> <p>निरज, घीरज पुत्र राकुमार पुत्र भाग सिंह 300 हिस्सा</p> <p>मनसा राम, बन्शी उर्फ वेन्स राम, भगत राम पुत्र केवल राम बराबर भाग 244 हिस्सा</p> <p>धर्म चन्द पुत्र प्यारू ओर प्यारू राम 288 हिस्सा ज्ञान चन्द पुत्र राम सिंह ओर राम सिंह 243 हिस्सा</p> <p>मुशतरिया कास्थ स्वयं मुरुतरी रजंन पुत्र ओर रजना, प्रिया पुत्री ओर निलीमा 1/12 हिस्सा विधवा ओर श्रीमति ईरू माता कालू राम पुत्र चुहरु राम बराबर भाग 1/12 हिस्सा बाकी बदतसुर</p>
				505	505 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.कुहल	0.00.14	ग्राम पंचायत कब्जा स्वयं आवपस कुनीन्दगन
				502	502 / 1	निजी	गै.मु. आवादी	0.00.48	<p>कुल भाग 3</p> <p>लख्खी राम 1 हिस्सा पुत्र ओर पवन कुमार 2 हिस्सा पुत्र किशनु कास्थ ओर कब्जा स्वयं</p>

				206	206	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.40.04	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
				198	198 / 1	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.02.57	सुरत राम पुत्र बुद्ध राम स्थानीय कास्थ और कब्जा स्वयं
				197	197	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.03.97	नाथू राम पुत्र बुद्ध राम पुत्र सनवलू कास्थ और कब्जा स्वयं
				90	90 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.रास्ता	0.01.35	हि.प्र. सरकार सरे आम
				93	93 / 1	निजी	गै.मु. आबादी	0.00.88	कुल भाग 48 ध्यान चन्द, फतेह चन्द पुत्र जब्बे राम पुत्र धर्म दास बराबर भाग 6 हिस्सा नीरथ राम पुत्र धर्म दास पुत्र गुनफलु 12 हिस्सा ज्ञान चन्द 17 हिस्सा पुत्र ओर गोतम चन्द 9 हिस्सा पुत्र नीरथ राम पुत्र धर्म दास भाग चन्द 2 हिस्सा पुत्र ओर श्रीमति मादरी, श्रीमति सरस्ती देवी विधवा जय चन्द पुत्र भयाम सुख बराबर भाग 2 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
				94	94 / 1	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.01.18	कुल भाग 48 दयान चन्द, फतेह चन्द पुत्र जब्बे राम पुत्र धर्म दास बराबर भाग 6 हिस्सा नीरथ राम पुत्र धर्म दास पुत्र गुनफलु 12 हिस्सा ज्ञान चन्द 17 हिस्सा पुत्र ओर गोतम चन्द 9 हिस्सा पुत्र नीरथ राम पुत्र धर्म दास भाग चन्द 2 हिस्सा पुत्र ओर श्रीमति मादरी, श्रीमति सरस्ती देवी विधवा जय चन्द पुत्र भयाम सुख बराबर भाग 2 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
				95	95 / 1	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.04.40	कुल भाग 3 प्रीतम सिंह पुत्र ओर श्रीमति मघी 1 हिस्सा पत्नी पूणे राम पुत्र दयालू श्रीमति लच्छरू विधवा कालू राम पुत्र दोगलू 1 हिस्सा सरन दास पुत्र हेराम पुत्र नामालुम 1 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
				96	96 / 1	निजी	गै.मु. आबादी	0.00.80	कुल भाग 3 प्रीतम सिंह पुत्र ओर श्रीमति मघी 1 हिस्सा पत्नी पूणे राम पुत्र दयालू श्रीमति लच्छरू विधवा कालू राम पुत्र दोगलू 1 हिस्सा सरन दास पुत्र हेराम पुत्र नामालुम 1 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग

				110	110/1	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.00.28	कुल भाग 3 प्रीतम सिंह पुत्र ओर श्रीमति मघी 1 हिस्सा पत्नी पूणे राम पुत्र दयालू श्रीमति लच्छरू विधवा कालू राम पुत्र दोगलू 1 हिस्सा सरन दास पुत्र हेराम पुत्र नामालुम 1 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
				111	111/1	निजी	रोपा अवल	0.00.50	कुल भाग 3 प्रीतम सिंह पुत्र ओर श्रीमति मघी 1 हिस्सा पत्नी पूणे राम पुत्र दयालू श्रीमति लच्छरू विधवा कालू राम पुत्र दोगलू 1 हिस्सा सरन दास पुत्र हेराम पुत्र नामालुम 1 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
				112	112/1	निजी	रोपा अवल	0.00.74	कुल भाग 21420 दोलू पुत्र लम्बडू सो पतू 4284 हिस्सा चन्दे राम, नन्दे राम, रामनाथ गुप्ता राम, प्रेम चन्द, राम चन्द तारा चन्द, पुत्र दोलत राम पुत्र भोतू बराबर भाग 4068 हिस्सा श्रीमति कोशल्या देवी पुत्री हेत राम पुत्र अन्नत राम 2975 हिस्सा पूने राम पुत्र परस राम पुत्र सेखरू 4284 हिस्सा प्यारू राम पुत्र पूने राम पुत्र परस राम 4284 हिस्सा हरदयाल पुत्र किमी राम पुत्र नन्द राम 1525 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
				114	114/1	निजी	रोपा अवल	0.00.38	कुल भाग 25200 लाल चन्द पुत्र भारू पुत्र बेगू 1561 हिस्सा गुलाब दास पुत्र बेगू 4340 हिस्सा कोहदू पुत्र श्रीमति रेवती पुत्री बेगू 70 हिस्सा तोला राम ओर श्रीमति घहरी पुत्री चन्दू 4200 हिस्सा प्रीतम सिंह, प्रेम चन्द किशन चन्द, भाम चन्द, तारा चन्द, बराबर भाग 3000 हिस्सा पुत्र ओर मघी विधवा पूणे राम पुत्र दयालू 800 हिस्सा निरज पुत्र ओर श्रीमति देवला विधवा निहाल चन्द पुत्र पूणे राम बराबर भाग 400 हिस्सा धर्म चन्द, दोगलू पुत्र ओर श्रीमति हीरा मनी पुत्री ओर श्रीमति कोहदी पत्नी जालू पुत्र नन्दू बराबर भाग 4200 हिस्सा

									किरण कुमारी पुत्री सुनीती कुमार पुत्र कामनाथ 5901 हिस्सा लाल चन्द पुत्र सिधरू पुत्र बेगू 728 हिस्सा कास्थ मुताबिक खाना कास्थ तोला राम, श्रीमति ज्ञायत्री हिस्सादारान वयन प्रीतम सिंह, प्रेम चन्द किशन चन्द भाम चन्द, निहाल चन्द, तारा चन्द पुत्र ओर मधी विधवा पूणे राम मुश्तरीयां कास्थ मुश्तरीयां
			118	118	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.02.48	कुल भाग 2 भाग चन्द 1 हिस्सा पुत्र ओर श्रीमति भादरी श्रीमति सरस्ती देवी बराबर भाग 1 हीस्सा विधवा जय चन्द कास्थ ओर कब्जा स्वयं	
			119	119 / 1	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.01.88	कुल भाग 6 नरेश कुमार, राजेश कुमार पुत्र जय चन्द 4 हिस्सा मान सिंह पुत्र जोगी 1 हिस्सा श्याम चन्द पुत्र दोले राम 1 हिस्सा	
			120	120 / 1	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.01.21	कुल भाग 6 नरेश कुमार, राजेश कुमार पुत्र जय चन्द 4 हिस्सा मान सिंह पुत्र जोगी 1 हिस्सा श्याम चन्द पुत्र दोले राम 1 हिस्सा	
			195	195 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.रास्ता	0.00.37	हि.प्र. सरकार सरे आम	
			207	207 / 1	निजी	रोपा अवल	0.00.42	कुल भाग 12 प्रीतम सिंह पुत्र पूने राम पुत्र दयालू 1 हिस्सा तारा चन्द, संजीव कुमार पुत्र हीरदा राम पुत्र घेखराम बराबर भाग 8 हिस्सा श्रीमति लछरू विधवा कालू राम पुत्र दोगलू 2 हिस्सा सरन दास पुत्र हेराम पुत्र नामालुम 1 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग	
			209	209 / 1	निजी	रोपा अवल	0.01.08	कुल भाग 22 भाग चन्द पुत्र जय चन्द पुत्र भयाम सुख 1 हिस्सा हरि चन्द पुत्र किमी राम पुत्र गुरदयान 20 हिस्सा स्थानीय भजुरा श्रीमति भादरी, श्रीमति सरस्वती देवी विधवा जय चन्द 1 हिस्सा	
			495	495 / 1	निजी	गै.मु. आबादी	0.00.14	कुल भाग 3 प्रीतम सिंह पुत्र ओर श्रीमति	

									मधी 1 हिस्सा पत्नी पूणे राम पुत्र दयालू श्रीमति लच्छरू विधवा कालू राम पुत्र दोगलू 1 हिस्सा सरन दास पुत्र हेराम पुत्र नामालुम 1 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
			496	496 / 1	निजी	गै.मु. आबादी	0.00.18	कुल भाग 3 प्रीतम सिंह पुत्र ओर श्रीमति मधी 1 हिस्सा पत्नी पूणे राम पुत्र दयालू श्रीमति लच्छरू विधवा कालू राम पुत्र दोगलू 1 हिस्सा सरन दास पुत्र हेराम पुत्र नामालुम 1 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग प्रीतम सिंह अत्यादि हिस्सादारान मदरजा खतोनी न0 वयन भाग चन्द नीस्फ पुत्र ओर श्रीमति मादरी श्रीमति सरस्वती नीस्फ मुशतरीयां कब्जा संवय मु'तरीयां	
			497	497	निजी	गै.मु.सेहन	0.00.14	कुल भाग 3 प्रीतम सिंह पुत्र ओर श्रीमति मधी 1 हिस्सा पत्नी पूणे राम पुत्र दयालू श्रीमति लच्छरू विधवा कालू राम पुत्र दोगलू 1 हिस्सा सरन दास पुत्र हेराम पुत्र नामालुम 1 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग	
			363	363 / 1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.28	कुल भाग 108864 भाग चन्द 2079 हिस्सा बीला राहीन पुत्र ओर श्रीमति मादरी देवी, श्रीमति सरस्वती देवी बराबर भाग 2079 हिस्सा बीला राहीन विधवा जयचन्द पुत्र भाम सुख श्रीमति देकीद दोलमा विधवा कान्खी राम पुत्र घेल्सन 26082 हिस्सा बीला राहीन चुहरू, भयाम चन्द, बोद्ध, पुत्र ओर श्रीमति भागी बराबर भाग 4560 हिस्सा बीला राहीन पुत्री ओर श्रीमति कातकी 712 हिस्सा बीला राहीन पुत्री ओर श्रीमति मुरतू 40 हिस्सा बीला राहीन पत्नी सकतू पुत्र किन्दू चुहरू, शयाम चन्द, करमा, बुद्ध पुत्र ओर श्रीमति कातकी, श्रीमति चोहरी श्रीमति भागी बराबर भाग 294 हिस्सा बीला राहीन पुत्री ओर श्रीमति भागली 442 हिस्सा बीला राहीन विधवा दासू पुत्र सकतू काला, रामदास पुत्र ओर श्रीमति दासी पुत्री मघरू पुत्र किन्दू बराबर भाग 6048 हिस्सा राहीन श्रीमति घुम्फी, श्रीमती रूपी	

								<p>पुत्री किन्दू पुत्र केसरू बराबर भाग 12096 हिस्सा बीला राहीन</p> <p>गीतू राम, हरि चन्द, पुत्र जगत् पुत्र गोविदू बराबर भाग 12096 हिस्सा बीला राहीन</p> <p>मेहर चन्द, वीर चन्द, प्रेम चन्द, ओर श्रीमति दयानू, श्रीमति भांता, श्रीमति कांता पुत्री चम्पू पुत्र अबलू बराबर भाग 36288 हिस्सा बीला राहीन श्रीमति बुद्धी पत्नी केसरू पुत्र शितू 6048 हिस्सा बीला राहीन स्थानीय मालतीबाग</p> <p>घेल्सन पुत्र सोनम अंगरूप पुत्र नामालुम स्थानीय मालतीबाग मुरतीयन</p> <p>कास्थ स्वय कुल भाग 128 हिस्सा भाग चन्द 11 हिस्सा श्रीमति भादरी श्रीमति सरस्वती देवी बराबर भाग 11 हिस्सा श्रीमति देकीद दोलमा 42 हिस्सा</p> <p>श्रीमति दयालू, श्रीमति भांता, श्रीमति कांता, मेहर चन्द वीर चन्द, प्रेम चन्द बराबर भाग 64 हिस्सा हिस्सादारान</p>
			364	364 / 1	निजी	मै.मु. आबादी	0.00.37	<p>कुल भाग 36288</p> <p>भाग चन्द 693 हिस्सा बीला राहीन पुत्र ओर श्रीमति भादरी देवी, श्रीमति सरस्वती देवी बराबर भाग हिस्सा 693 हिस्सा बीला राहीन विधवा जीन्दोर पुत्र भयाम सुख</p> <p>श्रीमति देकिन दोलमा विधवा काशी राम पुत्र घेल्सन 6678 हिस्सा बीला राहीन</p> <p>चोहरू, श्याम चन्द, बुद्ध पुत्र ओर श्रीमति चोहरी, श्रीमति भागी बराबर भाग 1440 हिस्सा राहीन पुत्री ओर श्रीमति कातकी 224 हिस्सा बीला राहीन पुत्री ओर श्रीमति ठाकरी 120 हिस्सा बीला राहीन पत्नी सकतू पुत्र किन्दू</p> <p>भयाम चन्द, करमा, बुद्ध पुत्र ओर श्रीमति कातकी श्रीमति चाहरी, श्रीमति भागी बराबर भाग 98 हिस्सा बीला राहीन पुत्री ओर श्रीमति साली विधवा दासू पुत्र सकतू 134 हिस्सा राहीन कला, रामदास पुत्र ओर श्रीमति दासी पुत्री मधरू पुत्र किन्दू बराबर भाग 2016 हिस्सा राहीन श्रीमति गुम्फी, श्रीमति रूपी पुत्री किन्दू पुत्र केसरू बराबर भाग 4032 हिस्सा बीला राहीन पुत्री किन्दू पुत्र केसरू गीतू रामर हरि राम पुत्र जगत् पुत्र</p>

									<p>गोविंदू बराबर भाग 4032 बीला राहीन मेहर चन्द, वीर चन्द, प्रेम चन्द पुत्र और श्रीमति दयानू, श्रीमति भांता, श्रीमति कांता पुत्री चम्पू पुत्र अमबलू बराबर भाग 12096 हिस्सा बीला राहीन श्रीमति बुद्धी पत्नी केसरू पुत्र कांतू 2016 हिस्सा बीला राहीन स्थानीय मालतीबाग</p> <p>राजू पुत्र नानक चन्द पुत्र भिमी राम 1008 हिस्सा बीला राहीन स्थानीय सनसा जिला लाहोल स्पीती श्रीमति बीमला पत्नी राजू पुत्र नानक चन्द 1008 हिस्सा बीला राहीन स्थानीय सनसा जिला लाहोल स्पीती</p> <p>घेल्सन पुत्र सानम अंगरूप पुत्र नामालुम स्थानीय मालतीबाग मुरतीन</p> <p>चेहरू राम, भयाम चन्द, करमा, बुद्धू श्रीमति चोहरी श्रीमति भागी बराबर भाग 720 हिस्सा श्रीमति साली श्रीमति ठाकरी बराबर भाग 120 हिस्सा श्रीमति कातकी 112 हिस्सा श्रीमति मोरतू 56 हिस्सा केबू ओर श्रीमति घुंम्पी श्रीमति रूपी बराबर भाग 3024 हिस्सा मुरतीन 1008 हिस्सा हिस्सादारान तबादला दहीन्नदगन मानदास पुत्र भोतू पुत्र दिलू फती जीन्दोर तबादला घरीन्ददा कारथ स्वयं तबादला घरीनन्दा</p>
				365	365 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.00.30	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				366	366	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.00.39	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				367	367 / 1	निजी	गै.मु. आबादी	0.00.32	कुल भाग 4 प्रेम चन्द पुत्र गोपी 1 हिस्सा स्थानीय लाहोल भाग चन्द, राम चन्द, पुत्र दोलू पुत्र उत्तमू 3 हिस्सा कारथ ओर कब्जा स्वयं
				378	378 / 1	निजी	गै.मु. आबादी	0.00..56	कुल भाग 221520 जगरनाथ, भोश राम, भोर सिंह टेक चन्द, चन्दर सिंह, पुत्र ओर श्रीमति महन्तु देवी विधवा खुम्ब राम पुत्र टिकम राम पुत्र किमी राम 24424 हिस्सा ज्ञान चन्द 5680 हिस्सा पुत्र ओर देवी चन्द, साली चन्द बराबर भाग 14200 हिस्सा पुत्र जगत राम पुत्र टीकम राम हरि चन्द पुत्र रेवत राम पुत्र किमी राम 110965 हिस्सा अली राम पुत्र

									अतू पुत्र सोहरू 11360 हिस्सा श्रीमति वन्ती पुत्री चन्चलू पुत्र भोतू 54891 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
				379	379	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.01.37	हि.प्र. सरकार कब्जा लोक निर्माण विभाग
				380	380 / 1	हि.प्र. सरकार	बाथल अबल	0.00.74	कुल भाग 221520 जगरनाथ, भोश राम, भोर सिंह टेक चन्द, चन्दर सिंह, पुत्र ओर श्रीमति महन्तु देवी विधवा खुम्ब राम पुत्र टिकम राम पुत्र किमी राम 24424 हिस्सा ज्ञान चन्द 5680 हिस्सा पुत्र ओर देवी चन्द, साली चन्द बराबर भाग 14200 हिस्सा पुत्र जगत राम पुत्र टीकम राम हरि चन्द पुत्र रेवत राम पुत्र किमी राम 110965 हिस्सा अली राम पुत्र अतू पुत्र सोहरू 11360 हिस्सा श्रीमति वन्ती पुत्री चन्चलू पुत्र भोतू 54891 हिस्सा स्थानीय मालतीबाग
				266	266 / 1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.02.85	श्रीमति प्रिया अजीत सिंह पुत्री जसजीत सिंह पुत्र नामालूम स्थानीय तीलोकपुर जिला कांगडा कास्थ ओर कब्जा संवय
				269	269 / 1	निजी	गै.मु. आवादी	0.00.91	हुकम चन्द, धर्म चन्द, मेहर चन्द, घेहर चन्द, प्रेम चन्द पुत्र ओर देवकू विधवा सांगरू पुत्र जगतू बराबर भाग कास्थ ओर कब्जा संवय
				271	271 / 1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.95	हुकम चन्द, धर्म चन्द, मेहर चन्द, घेहर चन्द, प्रेम चन्द पुत्र ओर देवकू विधवा सांगरू पुत्र जगतू बराबर भाग कास्थ ओर कब्जा संवय
				272	272 / 1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.60	हुकम चन्द, धर्म चन्द, मेहर चन्द, घेहर चन्द, प्रेम चन्द पुत्र ओर देवकू विधवा सांगरू पुत्र जगतू बराबर भाग कास्थ ओर कब्जा संवय
				281	281	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.02.02	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				230	230	निजी	गै.मु.कुहल	0.01.32	कुल भाग 120 बीशन लाल, रोशन लाल पुत्र रेवत राम बराबर भाग 30 हिस्सा बुद्ध राम पुत्र निरजनू 30 हिस्सा श्रीमति वन्ती, किमी, बराबर भाग 45 हिस्सा पुत्री ओर श्रीमति निमू 4 हिस्सा पुत्री चन्चलू ओम धन पुत्र ओर श्रीमति स्वरी पुत्री श्रीमति निमू पुत्री चन्चलू बराबर भाग 11 हिस्सा कोद कास्थ



				230/1	230/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.रास्ता	0.00.22	हि.प्र. सरकार सरे आम
				231	231	निजी	बजर कदीम	0.02.09	धर्म चन्द, विशन लाल, हुकम चन्द पुत्र और श्रीमति कमला देवी पत्नी आलम चन्द पुत्र बुदु बराबर भाग स्थानीय मालतीबाग कब्जा स्वयं
				232	232	निजी	बजर कदीम	0.00.42	कुल भाग 1040 बीशन लाल, रोशन लाल, पुत्र रेवत राम 447 हिस्सा बुद्ध, राम पुत्र निरजनू 382 हिस्सा श्रीमति बन्ती पुत्री चन्चलू 195 हिस्सा लोहरू पुत्र खालू पुत्र टलकू 16 हिस्सा कोद कास्थ
				233	233	निजी	बजर कदीम	0.00.56	रोशन लाल, पुत्र भाम्मु पुत्र बिहारी लाल स्थानीय जलन्दर कोद कास्थ
				234	234	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.05.53	रोशन लाल, पुत्र भाम्मु पुत्र बिहारी लाल स्थानीय जलन्दर कोद कास्थ
				226	226/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.रास्ता	0.00.31	हि.प्र. सरकार सरे आम
				229	229/1	निजी	बजर कदीम	0.01.97	रोशन लाल, पुत्र भाम्मु पुत्र बिहारी लाल स्थानीय जलन्दर कोद कास्थ
				228	228/1	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.06.88	रोशन लाल, पुत्र भाम्मु पुत्र बिहारी लाल स्थानीय जलन्दर कोद कास्थ
				213	213	निजी	गै.मु. आबादी	0.03.08	कुल भाग 22 भाग चन्द पुत्र जय चन्द 1 हिस्सा हरि चन्द पुत्र किमी राम पुत्र गुरदयान 20 हिस्सा स्थानीय बंजुरा श्रीमति भादरी, श्रीमति सरस्वती देवी विधवा जय चन्द 1 हिस्सा
				214	214	निजी	बगीचा रोपा फलदार	0.01.90	कुल भाग 22 भाग चन्द पुत्र जय चन्द 1 हिस्सा हरि चन्द पुत्र किमी राम पुत्र गुरदयान 20 हिस्सा स्थानीय बंजुरा श्रीमति भादरी, श्रीमति सरस्वती देवी विधवा जय चन्द 1 हिस्सा
				215	215	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.01.52	कुल भाग 22 भाग चन्द पुत्र जय चन्द 1 हिस्सा हरि चन्द पुत्र किमी राम पुत्र गुरदयान 20 हिस्सा स्थानीय बंजुरा श्रीमति भादरी, श्रीमति सरस्वती देवी विधवा जय चन्द 1 हिस्सा
				220	220/1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.03.70	श्रीमति भादरी पुत्री किमी राम पुत्र दोमनू स्थानीय फती जीन्दोर कोटी सारी कास्थ ओर कब्जा स्वयं

				222	222/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.रास्ता	0.00.09	हि.प्र. सरकार सरे आम
				211	211/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.कुहल	0.00.73	ग्राम पचायत कब्जा स्वय अवपस कोनीन्दगन
				212	212/1	थनजी	बगीचा रोपा फलदार	0.00.97	कुल भाग 2  तारा चन्द, रूप लाल पुत्र आदि भगत पुत्र दोलू बराबर भाग 1 हिस्सा विनी राम पुत्र छोटा बेचरु उर्फ चोरती बंग पुत्र नामलू 1 हिस्सा कोद कास्थ
				209/1	209/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.कुहल	0.01.84	ग्राम पचायत कब्जा स्वय अवपस कोनीन्दगन
				300	300	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.42.65	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				362	362/1	थनजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.80	कुल भाग 54432  भाग चन्द 3024 हिस्सा बीला राहीन पुत्र ओर श्रीमति भादरी देवी श्रीमति सरस्वती देवी बराबर भाग 3024 हिस्सा बीला राहीन विधवा जयचन्द पुत्र भयाम सुख श्रीमति देकिद दोलमा विधवा कान्शी राम पुत्र घेन्सन 3024 हिस्सा बीला राहीन चोहरू, भयाम चन्द, बुदु, पुत्र ओर श्रीमति चोहरी, श्रीमति भागी बराबर भाग 2280 हिस्सा बीला राहीन पुत्री ओर श्रीमति कातकी 356 हिस्सा बीला राहीन पुत्री श्रीमति मोरतू 20 हिस्सा बीला राहीन चोहरू, भयाम चन्द, करमा, बुदु, पुत्र ओर श्रीमति कातकी श्रीमति चोहरी, श्रीमति भागी बराबर भाग 147 हिस्सा बीला राहीन पुत्री ओर श्रीमति भाली विधवा दासू पुत्र सकतू 221 हिस्सा बीला राहीन कला, रादास पुत्र ओर दासी पुत्री मधरू पुत्र किन्दू बराबर भाग 3024 हिस्सा राहीन श्रीमति गुम्फी, श्रीमति रूपी पुत्री किन्दू पुत्र केसरू बराबर भाग 6048 हिस्सा बीला राहीन पुत्री किन्दू पुत्र केसरू श्रीमति देहरी पुत्री भागतू पुत्र गोविदू 3024 हिस्सा बीला राहीन मेहर चन्द, वीर चन्द, प्रेम चन्द पुत्र ओर श्रीमति दयानू, श्रीमति भातां, श्रीमति कान्ता पुत्री चम्पू पुत्र अब्बू बराबर भाग 18144 हिस्सा बीला राहीन श्रीमति बुदी पत्नी केसरू पुत्र शितू 3024 हिस्सा बीला राहीन मालतीबाग मानदास पुत्र शितू पुत्र दिलू 9072 हिस्सा बीला राहीन स्थानीय मलतीबाग घेलसन पुत्र सोनम अंगारूप पुत्र

									नामालूम स्थानीय मालतीबाग मुरतीन श्रीमति देहरी 3 हिस्सा वाया 1 हिस्सा बीला वाया भाग चन्द, 4 हिस्सा श्रीमति भादरी श्रीमति सरस्वती बराबर भाग 4 हिस्सा बिला वयन मानदास 13 हिस्सा बिला वाया ओर नीज मुस्तरी कास्थ स्वय बीला वाया ओर मुस्तरी
				282	282 / 1	थनजी	गै.मु. आवादी	0.01.19	तारा चन्द, रीशा लाल पुत्र नूप राम पुत्र जीतू बराबर भाग कास्थ ओर कब्जा स्वय
				284	284 / 1	थनजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.50	तारा चन्द, रीशा लाल पुत्र नूप राम पुत्र जीतू बराबर भाग कास्थ ओर कब्जा स्वय
				298	298 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.00.53	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				299	299 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.05.09	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				297	297 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.रास्ता	0.00.28	हि.प्र. सरकार सरे आम
				296	296 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.02.52	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				301	301 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.रास्ता	0.00.75	हि.प्र. सरकार सरे आम
				302	302 / 1	थनजी	गै.मु. आवादी	0.00.80	श्रीमति मनीशा पुत्री सुरिन्दर कुमार पुत्र मेला राम कास्थ ओर कब्जा स्वय
				304	304 / 1	थनजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.16	श्रीमति मनीशा पुत्री सुरिन्दर कुमार पुत्र मेला राम कासी ओर कब्जा स्वय
				308	308 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.01.24	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				178	178	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.18.59	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				549	549	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.00.80	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				196	196	निजी	रोपा अवल	0.02.84	कुल भाग 2 भाग चन्द 1 हिस्सा पुत्र ओर श्रीमति भादरी, श्रीमति सरस्वती देवी बराबर भाग 1 हिस्सा विधवा जय चन्द कास्थ ओर कब्जा स्वय
				किता. 136				03.93.91	
		10.पंगन		127	127 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.04.34	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				142	142 / 1	निजी	गै.मु.रास्ता	0.02.04	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				143	143 / 1	निजी	चरागाह	0.00.30	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन

				145	145 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.00.60	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				350	350	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.07.18	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				368	368 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.02.21	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				365	365	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.23.55	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				378	378	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.00.88	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				360	360	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.02.40	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वय लोक निर्माण विभाग
				362	362	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.07.53	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				364	364	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.07.20	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वय लोक निर्माण विभाग
				383	383 / 1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.11.39	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				379	379 / 1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.रास्ता	0.01.45	हि.प्र. सरकार तबे हकुक बरतन बरतन दरन
				372	372 / 1	निजी	गै.मु. आवादी	0.00.63	कुल भाग 112 अमर चन्द पुत्र दोन्दू राम पुत्र चापलू 16 हिस्सा श्रीमति विमला देवी पुत्री चिमी राम पुत्र नहीमू 7 हिस्सा मदन लाल पुत्र मोती पुत्र नूप राम 12 हिस्सा किशन लाल हीरा सिंह पुत्र रनजीत पुत्र नूप राम बराबर भाग 12 हिस्सा भोर सिंह पुत्र ज्वाला दास पुत्र नामालुम 4 हिस्सा स्वर चन्द पुत्र शिवच न्द पुत्र देवू 16 हिस्सा प्रकाश चन्द, किशन चन्द बराबर भाग 14 हिस्सा पुत्र ओर श्रीमति कमला देवी 31 हिस्सा पुत्री चिमे राम पुत्र निमू स्थानीय पंगा कब्जा स्वय
				373	373 / 1	निजी	गै.मु. आवादी	0.00.55	कुल भाग 112 अमर चन्द पुत्र दोन्दू राम पुत्र चापलू 16 हिस्सा श्रीमति विमला देवी पुत्री चिमी राम पुत्र नहीमू 7 हिस्सा मदन लाल पुत्र मोती पुत्र नूप राम 12 हिस्सा किशन लाल हीरा सिंह पुत्र रनजीत पुत्र नूप राम बराबर भाग 12 हिस्सा भोर सिंह पुत्र ज्वाला दास पुत्र नामालुम 4 हिस्सा स्वर चन्द पुत्र शिवच न्द पुत्र देवू 16 हिस्सा प्रकाश चन्द, किशन चन्द बराबर भाग 14 हिस्सा पुत्र ओर श्रीमति कमला देवी 31 हिस्सा पुत्री चिमे राम पुत्र निमू स्थानीय पंगा कब्जा स्वय

				375	375/1	निजी	गै.मु. आवादी	0.00.45	कुल भाग 112 अमर चन्द पुत्र दोन्दू राम पुत्र चापलू 16 हिस्सा श्रीमति विमला देवी पुत्री चिमी राम पुत्र नहीमू 7 हिस्सा मदन लाल पुत्र मोती पुत्र नूप राम 12 हिस्सा किशन लाल हीरा सिंह पुत्र रनजीत पुत्र नूप राम बराबर भाग 12 हिस्सा भोर सिंह पुत्र ज्वाला दास पुत्र नामालूम 4 हिस्सा स्वर चन्द पुत्र शिवच न्द पुत्र देवू 16 हिस्सा प्रकाश चन्द, किशन चन्द बराबर भाग 14 हिस्सा पुत्र ओर श्रीमति कमला देवी 31 हिस्सा पुत्री चिमे राम पुत्र निमू स्थानीय पंगा कब्जा स्वय
				376	376/1	निजी	गै.मु. आवादी	0.00.36	कुल भाग 112 अमर चन्द पुत्र दोन्दू राम पुत्र चापलू 16 हिस्सा श्रीमति विमला देवी पुत्री चिमी राम पुत्र नहीमू 7 हिस्सा मदन लाल पुत्र मोती पुत्र नूप राम 12 हिस्सा किशन लाल हीरा सिंह पुत्र रनजीत पुत्र नूप राम बराबर भाग 12 हिस्सा भोर सिंह पुत्र ज्वाला दास पुत्र नामालूम 4 हिस्सा स्वर चन्द पुत्र शिवच न्द पुत्र देवू 16 हिस्सा प्रकाश चन्द, किशन चन्द बराबर भाग 14 हिस्सा पुत्र ओर श्रीमति कमला देवी 31 हिस्सा पुत्री चिमे राम पुत्र निमू स्थानीय पंगा कब्जा स्वय
				377	377/1	निजी	गै.मु. आवादी	0.00.36	कुल भाग 112 अमर चन्द पुत्र दोन्दू राम पुत्र चापलू 16 हिस्सा श्रीमति विमला देवी पुत्री चिमी राम पुत्र नहीमू 7 हिस्सा मदन लाल पुत्र मोती पुत्र नूप राम 12 हिस्सा किशन लाल हीरा सिंह पुत्र रनजीत पुत्र नूप राम बराबर भाग 12 हिस्सा भोर सिंह पुत्र ज्वाला दास पुत्र नामालूम 4 हिस्सा स्वर चन्द पुत्र शिवच न्द पुत्र देवू 16 हिस्सा प्रकाश चन्द, किशन चन्द बराबर भाग 14 हिस्सा पुत्र ओर श्रीमति कमला देवी 31 हिस्सा पुत्री चिमे राम पुत्र निमू स्थानीय पंगा कब्जा स्वय
				369	369/1	निजी	गै.मु. आवादी	0.00.77	श्रीमति मोहिनी देवी पुत्री नानक चन्द पुत्र अभीर चन्द स्थानीय नगंभाग कब्जा स्वय
				438	438/1	निजी	बगीचा फलदार	0.00.52	हरि चन्द पुत्र बलवंत सिंह पुत्र सुनम दोन्दू राहीन स्थानीय पंगा बलवंत सिंह पुत्र ओर श्रीमति चोहरी देवी श्रीमति नगन देवी, श्रीमति तासी दोलमा, श्रीमति पुला देवी पुत्री ओर श्रीमति भगपति विधवा सुनम दोन्दू पुत्र रीहनू स्थानीय पंगा मुरतरीया

				437	437/1	निजी	बगीचा बाथल फलदार	0.00.85	कुल भाग 2 बलवंत सिंह पुत्र सुनम दोन्दू पुत्र रीहनू 1 हिस्सा हरि चन्द पुत्र बलवंत सिंह पुत्र सुनम दोनदू 1 हिस्सा स्थानीय पंगा
				436	436/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.00.76	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वय लोक निर्माण विभाग
				435	435/1	हि.प्र. सरकार	बगीचा बाथल फलदार	0.01.04	हि.प्र. सरकार रेहनू पुत्र सोहलू पुत्र नामालुम स्थानीय पंगा
				434	434/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु. आबादी	0.00.14	हि.प्र. सरकार रेहनू पुत्र सोहलू पुत्र नामालुम स्थानीय पंगा
				358	358/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.04.57	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वय लोक निर्माण विभाग
				356	356/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.03.83	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वय लोक निर्माण विभाग
				354	354/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.04.43	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वय लोक निर्माण विभाग
				351	351/1	हि.प्र. सरकार	गै.मु.सड़क	0.15.39	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वय लोक निर्माण विभाग
				587	587/1	हि.प्र. सरकार	चरागाह	0.00.46	हि.प्र. सरकार कब्जा स्वय तबे हकुक बरतन बरतनदरन
				355	355/1	निजी	गै.मु.सड़क	0.02.52	कुल भाग 5808 लोहरू राम पुत्र देवी राम पुत्र नानकू 1944 हिस्सा श्रीमति परमजीत पुत्री अम्बी लाल पुत्र सुख राम 2178 हिस्सा अगिल कुमार, सुन्जु, चेरिंग दोरजु, कमल कुमार, संदीप कुमार पुत्र ओर श्रीमति अन्जु, श्रीमति रिना पुत्री श्रीमति चुनजुमं विधवा सोनम चेरिंग पुत्र दिवान चन्द बराबर भाग 121 हिस्सा राजेश कुमार पुत्र ओर श्रीमति मलका देवी पुत्री ओर श्रीमति लोहू देवी विधवा अमर चन्द पुत्र दिवान चन्द बराबर भाग 121 हिस्सा जगत राम पुत्र प्रताप चन्द पुत्र दिवाल चन्द 121 हिस्सा श्रीमति केदार मनी पुत्री सुख राम पुत्र पंन्छी राम 363 हिस्सा अन्नत राम पुत्र नानकू पुत्र चोगू 960 हिस्सा स्थानीय पनगा कुल भाग 24 श्रीमति परमजीत 18 हिस्सा सोनम चेरिंग 1 हिस्सा राजेश कुमार श्रीमति अलका देवी श्रीमति लोहबू देवी बराबर भाग 1 हिस्सा जगत राम 1 हिस्सा श्रीमति केदार मनी 3 हिस्सा हिस्सादारान मलकीयत दहीनन्दन भारत सरकार मलकीयत घरीनन्दा कब्जा स्वय लोक निर्माण विभाग
				किता — 30			कुल	1-08-70	

[फा. सं.—11012/2/2012/एलए/पीआईयू/शिमला]

वी. कृष्णास्वामी, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th Septembr, 2015

**S.O. 2618(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 3280 (E) dated the 26th December, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 21 on the stretch of land from Km. 272.000 to Km.310.400 (Ner Chowk-Manali Section) in District Kullu in the State of Himachal Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in the news papers “The Tribune” (English) and “Dainik Jagran” (Hindi) both dated the 15th April 2015; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

**Brief description of the land to be acquired with or without/structure falling within the stretch of land Km. 272.000 to Km. 310.400 of the National Highway No 21 in the State of Himachal Pradesh.**

Sl. No.	Name of Distt	Name of Tehsil	Name of Village	Khasra No		Type of Land	Nature of Land	Area in Hectares	Name of Land Owner/Interested Persons.
				Before Sub-Division	After Sub-Division				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Kullu	Kullu	I. Dobha	274	274	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-55-78	Govt. of H.P. Kabja Lok Nirman Vibhag
				277	277/1	H.P. Govt.	Gair Mumkin Driya	0-09-82	Govt. of H.P. Kabja Savayam Tabe Hakuk Baratan Baratandaran
				271	271/1	H.P.Govt.	Charagah	0-00-40	Govt. of H.P. Kabja Savayam Tabe Hakuk Baratan Baratandaran
				276	276/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Driya	0-11-60	Govt. of H.P. Kabja Savayam Tabe Hakuk Baratan Baratandaran

				272	272	H.P. Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-56-93	Govt. of H.P. Shereh-Aam
				275	275/1	H.P. Govt.	Gair Mumkin Driya	0-01-26	Govt. of H.P. Kabja Savayam Tabe Hakuk Baratan Baratandaran
				238	238/1	H.P. Govt.	Charagah	0-00-05	Govt. of H.P. Kabja Savayam Tabe Hakuk Baratan Baratandaran
				Kita -	7			1-35-84	
		2. Kangati		700	700/1	Govt. of H.P.	Gair Mumkin Mandir	0-00-56	Govt. of H.P./ Ahele- Hanud
				698	698	Govt. of H.P.	Gair Mumkin Sarai	0-05-80	Govt. of H.P./ Ahele- Hanud
				712	712/1	Govt. of H.P.	Charagah	0-05-70	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan Baratandaran
				697	697	Govt. of H.P.	Gair Mumkin Sarai	0-07-28	Govt. of H.P./ Ahele- Hanud
				716	716/1	Govt. of H.P.	Gair Mumkin Dariya	0-46-00	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan Baratandaran
				Kita -	5	Total-		0-65-34	
		3. Usanidhar		615	615/1	H.P. Govt.	Gair Mumkin Nalah	0-01-19	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan Baratandaran
				617	617/1	H.P. Govt.	Gair Mumkin Driya	0-06-28	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan Baratandaran
				601	601/1	H.P. Govt.	Charagah	0-11-46	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan Baratandaran
				616	616/1	H.P. Govt.	Gair Mumkin Nalah	0-12-34	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan Baratandaran
				614	614/1	H.P. Govt.	Charagah	0-11-26	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan Baratandaran
				613	613	H.P. Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-42-00	Govt. of H.P./ Kabja Lok Nirman Vibhag
				605	605	H.P. Govt.	Gair Mumkin Abadi	0-16-75	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan Baratandaran
				612	612	H.P. Govt.	Charagah	0-06-32	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan Baratandaran
				604	604	H.P. Govt.	Gair Mumkin Abadi	0-01-15	Govt. of H.P./ Kabja Lok Nirman Vibhag



				606	606/1	H.P. Govt.	Charagah	0-01-80	Govt. of H.P./ Kabja Savayam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				<b>Kita -10</b>				<b>1-09-36</b>	
			4.Babeli (Banogi)	630	630/1	H.P. Govt.	Gair Mumkin Nalah	0-01-02	Govt of H.P./ Kabja Savayam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				633	633/1	H.P. Govt.	Gair Mumkin Driya	0-02-94	Govt of H.P./ Kabja Savayam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				629	629/1	H.P. Govt.	Charagah	0-24-11	Govt of H.P./ Kabja Savayam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				635	635/1	H.P. Govt.	Charagah	0-01-84	Govt of H.P./ Kabja Savayam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				632	632	H.P. Govt.	Charagah	0-28-27	Govt of H.P./ Kabja Savayam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				619	619/1	Pvt.	Ropa abbal	0-00-48	Ganesh Kumar Nick Name Dinesh Sain s/o Beli Singh s/o Narayan Singh r/o Babeli Kabja Lok Nirman Vibhag
				624	624/1	H.P. Govt./ Pvt	Gair Mumkin Dukan & Makan	0-00-05	Govt. of H.P./ Satish Kumar s/o Gautam Chand r/o Seubag Kothi Kayas
				625	625/1	Pvt.	Gair Mumkin Dukan/ Makan	0-00-28	Satish Kumar s/o Gautam Chand s/o Tulsi Ram r/o Babeli Banogi Kabja Svayam
				618	618/1	Pvt.	Ropa Abbal	0-00-87	Ganesh Kumar Nick Name Dinesh Sain s/o Beli Singh s/o Narayan Singh r/o Babeli Kabja Lok Nirman Vibhag
				603	603/1	Pvt.	Gair Mumkin Sehan	0-00-40	Ganesh Kumar Nick Name Dinesh Sain s/o Beli Singh s/o Narayan Singh r/o Babeli Kabja Lok Nirman Vibhag
				607	607/1	Pvt.	Gair Mumkin Sehan	0-00-75	Ganesh Kumar Nick Name Dinesh Sain s/o Beli Singh s/o Narayan Singh r/o Babeli Kabja Lok Nirman Vibhag
				602	602	H.P. Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-04-28	Govt of H.P./ Shareh-Aaam
				609	609/1	Pvt.	Gair Mumkin	0-00-35	Ganesh Kumar Nick Name Dinesh Sain

							Sehan		s/o Beli Singh s/o Narayan Singh r/o Babeli Kabja Lok Nirman Vibhag
				610	610/1	Pvt.	Gair Mumkin Sehan	0-00-28	Ganesh Kumar Nick Name Dinesh Sain s/o Beli Singh s/o Narayan Singh r/o Babeli Kabja Lok Nirman Vibhag
				612	612/1	Pvt.	Gair Mumkin Sehan	0-00-16	Ganesh Kumar Nick Name Dinesh Sain s/o Beli Singh s/o Narayan Singh r/o Babeli Kabja Lok Nirman Vibhag
				613	613/1	Pvt.	Gair Mumkin Sehan	0-00-20	Ganesh Kumar Nick Name Dinesh Sain s/o Beli Singh s/o Narayan Singh r/o Babeli Kabja Lok Nirman Vibhag
				616	616/1	Pvt.	Gair Mumkin Sadak	0-00-18	Ganesh Kumar Nick Name Dinesh Sain s/o Beli Singh s/o Narayan Singh r/o Babeli Kabja Lok Nirman Vibhag
				601	601	H.P. Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-09-69	Govt of H.P./ Dhanvant Singh urf Randhir Singh Vijay Kumar urf Vijay Sain Ganesh Kumar urf Dinesh Sain son & Smt. Karishna Devi d/o Beli Singh s/o Narayan Singh equal parts 4 shares Amit Sumit son & Kumari Pooja d/o Smt. Sunila Devi d/o Beli Singh equal parts 1 part Smt. Kamla Devi w/o Lt Sh. Raghubir Singh urf Vachitar Singh s/o Beli Singh 1 Shares, Kumari Shilpa d/o Rajesh Kumar s/o Beli Singh 1 parts Marfat Kbja Lok Nirman Vibhag Tabe Marji
				599	599/1	Pvt.	Gair Mumkin Dukan/ Makan	0-00-60	<b>Total Parts(408200)</b> Ganesh Kumar Nick Name Dinesh Sain s/o Beli Singh s/o Narayan Singh(54415) Shares  Harish Kumar Suresh Kumar s/o Krishan Lal s/o Nanak Chand equal

								Parts(69237)Shares Shastri Nagar Kullu.  Bhushan son & Kumari Ruhani D/o Smt. Sapana kumara d/o Balwant Rai Equal parts (18200)Share doughter & Smt. Kamlesh Kumari widow of Balvant Rai s/o Namalum (20800) Shares Paras Ram s/o Hari Ram s/o Sangat Ram(21980)Shares Smt. Narvada w/o Kalyan Chand s/o Sant Ram (15700) Shares Trishala Mahila Kutir Udyog (128740) Shares r/o Shamshi Inderpal Singh s/o Payara Singh s/o Ishar Singh (79128) shares r/o Akhara Bazar Kullu. Kasht & Kabja Savyam
			597	597/1	Pvt	Banjar kadim	0-00-40	<b>Total Parts(408200)</b> Ganesh Kumar Nick Name Dinesh Sain s/o Beli Singh s/o Narayan Singh (54415) Shares Harish Kumar Suresh Kumar s/o Krishan Lal s/o Nanak Chand equal Parts (69237) Shares Shastri Nagar Kullu. Bhushan son & Kumari Ruhani D/o Smt. Sapana kumara d/o Balwant Rai Equal parts (18200) Share doughter & Smt. Kamlesh Kumari widow of Balvant Rai s/o Namalum (20800) Shares Paras Ram s/o Hari Ram s/o Sangat Ram( 21980) Shares Smt. Narvada d/o Kalyan Chand s/o Sant Ram (15700) Shares Trishala Mahila Kutir Udyog (128740) Shares r/o Shamshi Inderpal Singh s/o Payara Singh s/o Ishar Singh (79128) shares r/o Akhara Bazar kullu. Kasht & Kabja

				598	598/1	Pvt.	Ropa Abbal	0-00-25	Savyam Total Parts(408200) Ganesh Kumar Nick Name Dinesh Sain s/o Beli Singh s/o Narayan Singh(54415) Shares Harish Kumar Suresh Kumar s/o Krishan Lal s/o Nanak Chand equal Parts (69237) Shares Shastri Nagar Kullu. Bhushan son & Kumari Ruhani D/o Smt. Sapana kumara d/o Balwant Rai Equal parts (18200) Share doughter & Smt. Kamlesh Kumari widow of Balvant Rai s/o Namalum (20800) Shares Paras Ram s/o Hari Ram s/o Sangat Ram (21980 ) Shares Smt. Narvada d/o Kalyan Chand s/o Sant Ram (15700) Shares Trishala Mahila Kutir Udyog (128740) Shares r/o Shamshi Inderpal Singh s/o Payara Singh s/o Ishar Singh (79128) shares r/o Akhara Bazar Kullu. Kasht & Kabja Savyam
				595	595/1	Pvt.	Gair Mumkin Shawl Karkhana	0-03-35	Total Parts(408200) Ganesh Kumar Nick Name Dinesh Sain s/o Beli Singh s/o Narayan Singh (54415) Shares Harish Kumar Suresh Kumar s/o Krishan Lal s/o Nanak Chand equal Parts (69237) Shares Shastri Nagar Kullu. Bhushan son & Kumari Ruhani D/o Smt. Sapana kumara d/o Balwant Rai Equal parts (18200) - Share doughter & Smt. Kamlesh Kumari widow of Balvant Rai s/o Namalum (20800) Shares Paras Ram s/o Hari Ram s/o Sangat Ram(21980) Shares Smt. Narvada d/o Kalyan Chand s/o

									Sant Ram (15700) Shares Trishala Mahila Kutir Udyog(128740) Shares r/o Shamshi Inderpal Singh s/o Payara Singh s/o Ishar Singh (79128) shares r/o Akhara Bazar Kullu. Kasht & Kabja Savyam
				595/1	595/1/1	Pvt.	Gair Mumkin Sadak	0-07-06	<b>Total Parts (408200)</b> Ganesh Kumar Nick Name Dinesh Sain s/o Beli Singh s/o Narayan Singh (54415) Shares Harish Kumar Suresh Kumar s/o Krishan Lal s/o Nanak Chand equal Parts (69237) Shares Shastri Nagar Kullu. Bhushan son & Kumari Ruhani D/o Smt. Sapana kumari d/o Balwant Rai Equal parts (18200) Share daughter & Smt. Kamlesh Kumari widow of Balvant Rai s/o Namalum (20800) Shares Paras Ram s/o Hari Ram s/o Sangat Ram (21980) Shares Smt. Narvada d/o Kalyan Chand s/o Sant Ram (15700) Shares Trishala Mahila Kutir Udyog(128740) Shares r/o Shamshi Inderpal Singh s/o Payara Singh s/o Ishar Singh (79128) shares r/o Akhara Bazar Kullu. Kabja Lok Nirman Vibhag
				587	587/1	Pvt.	Gair Mumkin Dukan / Restaurant	0-03-10	<b>Total Parts (600)</b> Dhanwant Singh Nick Urf Randhir Singh s/o Beli Singh s/o Narayan Singh (473) Shares r/o Babeli Suresh Kumar, Harish Kumar, sons of Krishan Lal s/o Nanak Chand equal Parts (120) Shares R/o Shashtri Nagar Teh. Kullu. Shadi Lal s/o Byas Dev s/o Gur Charan

									(7) Shares r/o Up-mahal Seubag. Kabja Savyam
				572	572	H.P. Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-01-12	Govt of H.P./ Dhanwant Singh urf Randhir Singh, Vijay Kumar urf Vijay Sain, Ganesh Kumar urf Dinesh Sain son & Smt. Karishna Devi d/o Beli Singh s/o Narayan Singh equal parts 4 shares, Amit, Sumit son & Kumari Pooja d/o Smt. Sunila Devi d/o Beli Singh equal parts 1 part, Smt. Kamla Devi, w/o Lt Sh. Raghubir Singh urf Vachitar Singh s/o Beli Singh 1 Shares, Kumari Shilpa d/o Rajesh Kumar s/o Beli Singh 1 parts Marfat Kbja Lok Nirman Vibhag Tabe Marji
				573	573	H.P. Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-03-45	<b>Total Parts (600)</b> Dhanvant Singh Nick Urf Randhir Singh s/o Beli Singh s/o Narayan Singh (473) Shares r/o Babeli Suresh Kumar, Harish Kumar, sons of Krishan Lal s/o Nanak Chand equal Parts (120) Shares R/o Shashtri Nagar Teh. Kullu. Shadi Lal s/o Byas Dev s/o Gur Charan (7) Shares r/o Up-mahal Seubag. / Kabja Lok Nirman Vibhag
				586	586/1	Pvt.	Gair Mumkin Shawl Karkhana	0-02-40	Total Parts (600) Dhanvant Singh Nick Urf Randhir Singh s/o Beli Singh s/o Narayan Singh (473) Shares r/o Babeli Suresh Kumar, Harish Kumar, sons of Krishan Lal s/o Nanak Chand equal Parts (120) Shares R/o Shashtri Nagar Teh. Kullu. Shadi Lal s/o Byas Dev s/o Gur Charan (7) Shares r/o Up-mahal Seubag. / Kabja Savyam
				569	569	H.P. Govt.	Charagah	0-02-48	Govt of H.P./ Kabja Savayam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran

				568	568	H.P. Govt.	Gair Mumkin Barish Bharan	0-00-72	Govt of H.P./ Kabja Savayam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				570	570	H.P. Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-08-09	Govt. of H.P./ Kabja Lok Nirman Vibhag
				571	571	H.P. Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-02-09	Govt. of H.P./ Dhanwant Singh urf Randhir Singh ,Vijay Kumar urf Vijay Sain ,Ganesh Kumar urf Dinesh Sain son & Smt. Karishna Devi * d/o Beli Singh s/o Narayan Singh equal parts 4 shares , Amit , Sumit son & Kumari Pooja d/o Smt. Sunila Devi d/o Beli Singh equal parts 1 Share , Smt. Kamla Devi , w/o Lt Sh. Raghubir Singh urf Vachitar Singh s/o Beli Singh 1 Shares , Kumari Shilpa d/o Rajesh Kumar s/o Beli Singh 1 parts Marfat Kbja Lok Nirman Vibhag Tabe Marji
				574	574	Pvt.	Gair Mumkin Dukan	0-00-76	<b>Total Parts (600)</b> Dhanvant Singh Nick Urf Randhir Singh s/o Beli Singh s/o Narayan Singh (473) Shares r/o Babeli Suresh Kumar, Harish Kumar, sons of Krishan Lal s/o Nanak Chand equal Parts (120) Shares R/o Shashtri Nagar Teh. Kullu.  Shadi Lal s/o Byas Dev s/o Gur Charan (7) Shares r/o Up- muhal Seubag . Kabja Savyam
				575	575/1	Pvt.	Gair Mumkin Dukan	0-00-30	<b>Total Parts (122)</b> Dhanvant Singh Nick Urf Randhir Singh s/o Beli Singh s/o Narayan Singh (63) Shares r/o Babeli Suresh Kumar, Harish Kumar, sons of Krishan Lal s/o Nanak Chand equal Parts (54) Shares R/o Shashtri Nagar Teh. Kullu. Shadi Lal s/o Byas Dev s/o Gur Charan (5) Shares r/o Up- muhal Seubag. Kashat & Kabja avyam

				576	576/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-02-85	<b>Total Parts(5)</b> Dhanwant Singh Urf Randhir Singh , Vijay Kumar urf Vijay Sain , Ganesh Kumar urf Dinesh Sain sons of Beli Singh s/o Narayan Singh equal Parts (3) shares Smt. Kamla Devi w/o Raghuvir Singh urf Vichitar Singh s/o Beli Singh (1) shares Kumari Shilpa d/o Rajesh Kumar so Beli Singh (1) shares r/o Babeli [[Dhanwant Singh Urf Randhir Singh, Ganesh Kumar urf Dinesh Sain, Smt. Kamla Devi , Vijay Kumar Ur vijay Sain Kumari Shilpa Hisadaran equal parts vayan Paras Ram 2/3 Ram Parshad 1/3 s/o Hari Ram s/o Mangat Ram Mushtriyan kabja Savyam Mushtriyan ]
				577	577/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-01-55	<b>Total Parts(5)</b> Dhanwant Singh Urf Randhir Singh , Vijay Kumar urf Vijay Sain , Ganesh Kumar urf Dinesh Sain sons of Beli Singh s/o Narayan Singh equal Parts (3) shares Smt. Kamla Devi w/o Raghuvir Singh urf Vichitar Singh s/o Beli Singh (1) shares Kumari Shilpa d/o Rajesh Kumar so Beli Singh (1) shares r/o Babeli [[Dhanwant Singh Urf Randhir Singh, Ganesh Kumar urf Dinesh Sain, Smt. Kamla Devi , Vijay Kumar Ur vijay Sain Kumari Shilpa Hisadaran equal parts vayan Paras Ram 2/3 Ram Parshad 1/3 s/o Hari Ram s/o Mangat Ram Mushtriyan kabja Savyam Mushtriyan ]]
				567	567	H.P. Govt.	Charagah	0-36-21	Govt of H.P/ Kbja savyam Tabe Hahuk Bartan Bartandaran
				566	566	H.P. Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-76-97	Govt of H.P./ Kabja Savyam Lok Nirman Vibhag



				478	478/1	H.P. Govt.	Charagah	0-26-58	Govt of H.P./ Kabja Savayam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				565	565/1	H.P. Govt.	Charagah	0-05-18	Govt of H.P./ Kabja Savayam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				550	550/1	Pvt.	Banjar kadim	0-00-21	<b>Total Parts (20)</b> Karishan Kumar s/o Kaul Singh s/o Laje Ram (4) shares Chamaru sons & Smt. Dakhani, Smt. Chandr Mani equal Parts (15) Shares Daughters & Baresatu (1) shares s/o Chuharu s/o Debu R/o Babeli / Kabja Savyam
				539	539/1	Pvt.	Gair Mumkin Kuhal	0-00-06	<b>Total Parts (60)</b> Tara Chand , Jagroop Chand sons & Smt. Umavati, Smt. Durgavati, Smt. Kiran Kumari Daughters & Smt. Heera Devi, Smt.Heera Widows of Jog Ram s/o Laje Ram equal parts (12) Shares Chander Kiran s/o Tek Singh s/o Lekh Ram (4) Share Bhagat Singh son & Smt. Lalta Devi wd/o Lekh Ram s/o Laje Ram Equal parts (8) Shares Tara Singh son & Smt. Nirmla Daughter & Smt. Sadhi Devi wdo Tikam Ram s/o Laje Ram equal parts (9)shares Mohinder Singh , Inder Singh sons & Smt. Promila daughter & Smt. Parvati wd/o Ghanshyam s/o Tikam Ram Equal parts (3) shares Smt. Bhagvati Devi widow of Kaul singh s/o Laje Ram (12) Shares Smt. Saneh w/o Suresh Kumar s/o Ram Lal (12) Shares r/o Babeli banogi Kabja Savyam Tara Chand Jagroop Chand equal parts Hisadaran
				536	536	Pvt.	Gair Mumkin	0-00-32	<b>Total Parts (60)</b> Tara Chand , Jagroop

							Dariya		Chand sons & Smt. Umavati, Smt. Durgavati, Smt. Kiran Kumari Daughters & Smt. Heera Devi, Smt.Heera Widows of Jog Ram s/o Laje Ram equal parts (12)Shares Chander Kiran s/o Tek Singh s/o Lekh Ram (4) Shares Bhagat Singh son & Smt. Lalta Devi wd/o Lekh Ram s/o Laje Ram Equal parts (8) Shares Tara Singh son & Smt. Nirmla Daughter & Smt. Sadhi Devi wd/o Tikam Ram s/o Laje Ram equal parts (9) shares Mohinder Singh , Inder Singh sons & Smt. Promila daughter & Smt. Parvati wd/o Ghanshyam s/o Tikam Ram Equal parts (3)shares Tej Ram so Laje Ram s/o Shigharu (12)shares Karishan Kumar s/o Kaul Singh s/o Laje Ram (12) shares r/o Babeli [[Tara Chand Jagroop Chand equal parts Hisadaran Vayan Ghanshayam Singh s/o Paras Ram s/o Tolu r/o Babeli Mushtri Kabja Savyam Mushtari]]
			538	538	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-12	<b>Total Parts (60)</b> Tara Chand , Jagroop Chand sons & Smt. Umavati, Smt. Durgavati, Smt. Kiran Kumari Daughters & Smt. Heera, Smt.Heera Devi Widows of Jog Ram s/o Laje Ram equal parts (12)Shares Chander Kiran s/o Tek Singh s/o Lekh Ram (4) Share Bhagat Singh son & Smt. Lalta Devi wd/o Lekh Ram s/o Laje Ram Equal parts (8) Shares Tara Singh son &	

									<p>Smt. Nirmla Devi Daughter &amp; Smt. Sadhi Devi wd/o Tikam Ram s/o Laje Ram equal parts (9) shares Mohinder Singh , Inder Singh sons &amp; Smt. Promila daughter &amp; Smt. Parvati Devi wd/o Ghanshyam s/o Tikam Ram Equal , parts (3) shares Tej Ram s/o Laje Ram s/o Shigharu (12)shares Karishan Kumar s/o Kaul Singh s/o Laje Ram (12)shares r/o Babeli [[Tara Chand ,Jagroop Chand equal parts Hisadaran Vayan Khim Chand s/o Balu s/o Chandu r/o Babeli Mushtri Kabja Savyam Mushtari]]</p>
				551	551/1	Pvt.	Gair Mumkin Rasta	0-00-38	<p><b>Total Parts (20)</b> Karishan Kumar s/o Kaul Singh s/o Laje Ram (4) shares Chamaru sons &amp; Smt. Dakhani, Smt. Chandr Mani equal Parts (15) Shares Daughters &amp; Baresatu (1)shares s/o Chuharu s/o Debu R/o Babeli Kabja Savyam</p>
				552	552/1	H.P. Govt.	Gair Mumkin Driya	0-02-40	<p>Govt of H.P./ Kabja Savayam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran</p>
				535	535	Pvt	. Gair Mumkin Driya	0-00-60	<p><b>Total Parts (60)</b> Tara Chand , Jagroop Chand sons &amp; Smt. Umavati, Smt. Durgavati, Smt. Kiran Kumari Daughters &amp; Smt. Heera, Smt.Heera Devi Widows of Jog Ram s/o Laje Ram equal parts (12)Shares Chander Kiran s/o Tek Singh s/o Lekh Ram (4) Share Bhagat Singh son &amp; Smt. Lalta Devi wd/o Lekh Ram s/o Laje Ram Equal parts (8) Shares Tara Singh son &amp; Smt. Nirmla Devi Daughter &amp; Smt.</p>

								<p>Sadhi Devi wd/o Tikam Ram s/o Laje Ram equal parts (9)shares Mohinder Singh , Inder Singh sons &amp; Smt. Promila Devi daughter &amp; Smt. Parvati Devi wd/o Ghanshyam s/o Tikam Ram Equal parts (3)shares</p> <p>Tej Ram so Laje Ram s/o Shigharu (12) shares Karishan Kumar s/o Kaul Singh s/o Laje Ram (12) shares r/o Babeli [[Tej Ram Hisadar Vayan Ghanshayam Singh s/o Paras Ram s/o Tolu (5)shares Alam Chand s/o Meher Chand s/o Ram Chand (11) Shares R/o Fati Jindor Mushatariyan Kabja Savyam Mushtriyan]]</p>
			534	534/1	Pvt	Gair Mumkin Driya	0-02-95	<p><b>Total Parts (60)</b> Tara Chand , Jagroop Chand sons &amp; Smt. Umavati, Smt. Durgavati, Smt. Kiran Kumari Daughters &amp; Smt. Heera Devi, Smt.Heera Widows of Jog Ram s/o Laje Ram equal parts (12)Shares Chander Kiran s/o Tek Singh s/o Lekh Ram (4) Share Bhagat Singh son &amp; Smt. Lalta Devi wd/o Lekh Ram s/o Laje Ram Equal parts (8) Shares Tara Singh son &amp; Smt. Nirmla Daughter &amp; Smt. Sadhi Devi wdo Tikam Ram s/o Laje Ram equal parts (9) shares Mohinder Singh , Inder Singh sons &amp; Smt. Promila daughter &amp; Smt. Parvati wd/o Ghanshyam s/o Tikam Ram Equal parts (3)shares Smt. Bhagvati Devi widow of Kaul singh s/o Laje Ram(12)</p>

									Shares Smt. Saneh w/o Suresh Kumar s/o Ram Lal (12) Shares r/o Babeli banogi Kabja Savyam Tara Chand Jagroop Chand equal parts Hisadaran
				527	527/1	H.P. Govt.	Charagah	0-02-68	Govt of H.P./ Kabja Savayam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				529	529	H.P. Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-00-33	Govt. of H.P. / Kabja Lok Nirman Vibhag
				530	530	H.P. Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-01-23	Govt. of H.P. / Kabja Lok Nirman Vibhag
				531	531	H.P. Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-00-36	Govt. of H.P. / Kabja Lok Nirman Vibhag
				532	532	H.P. Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-01-70	Govt. of H.P. / Kabja Lok Nirman Vibhag
				533	533	H.P. Govt.	Gair Mumkin Dariya	0-03-11	Govt. of H.P. / Kabja Lok Nirman Vibhag
				528	528	H.P. Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-03-23	Govt. of H.P. / Kabja Lok Nirman Vibhag
				526	526	H.P. Govt.	BANJAR KADIM	0-00-52	Govt of H.P./ Kabja Savyam
				524	524/1	H.P. Govt.	BANJAR KADIM	0-00-32	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Sahkari Sabha Vibhag
				522	522/1	H.P. Govt.	Charagah	0-06-26	Govt of H.P./ Kabja Savayam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				521	521	H.P. Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-05-30	Govt. of H.P. / Kabja Lok Nirman Vibhag
				501	501	H.P. Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-00-77	Govt. of H.P./ Kabja Savyam (Dak Vibhag)
				500	500	H.P. Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-00-92	Govt of H.P./ Shareh-Aaam
				502	502/1	H.P. Govt.	BANJAR KADIM	0-00-18	Govt of H.P./ Kabja Savyam
				498	498	Pvt.	Gair Mumkin sadak	0-00-17	Total Parts (96) Smt. Oma Devi (1) Shares daughter & Smt. Meera Devi daughter & Smt. Bhadari, Smt. Rami equal Parts (3) shares Widows of Tikam Ram s/o Maadu. Om Prakash , Dharam Pal, Uday Singh sons & Smt. Dev kala, Smt. Satya Devi, daughters & Smt, Shivi Devi, widow of Shesh Ram s/o Madu

									equal parts (4) Shares Smt. Hukami d/o Madu s/o Dagu (4) Shares Bhimi Ram s/o Chamaru s/o Dagu (12) Shares Vivek, Vineet, Anupam sons & Smt. Asha Devi Widow of Pyare Chand s/o Puran Chand equal parts (8) Shares Pawan Kumar Raj Kumar sons & Narvada Devi, Smt. Sudesh Kumari, Smt. Rekha Devi Smt. Sumna Devi Smt. Kanchna Devi Daughters & Smt. Jyuni Widow of Puran Chand s/o Bansi Lal equal Parts (64) Shares r/o Babeli banogi /Kabja Savayam
				497	497/1	Pvt.	Gair Mumkin Dukan/ Pakka Makan	0-00-52	<b>Total Parts (96)</b> Smt. Oma Devi (1) Share daughter Smt. Meera Devi daughter & Smt. Bhadari, Smt. Rami equal Parts (3) shares Widow of Tikam Ram s/o Maadu Om Prakash , Dharam Pal, Uday Singh sons & Smt. Dev kala, Smt. Satya Devi, daughters Smt, Shivi Devi, widow of Shesh Ram s/o Madu equal parts (4) Shares Smt. Hukami Devi d/o Madu s/o Dagu (4) Shares Bhimi Ram s/o Chamaru s/o Dagu (12) Shares Vivek, Bineet, Anupam sons & Smt. Asha Devi Widow of Pyare Chand s/o Puran Chand equal parts (8) Shares Pawan Kumar Raj Kumar sons & Narvada Devi, Smt. Sudesh Kumari, Smt. Rekha Devi Smt. Sumna Devi Smt. Kanchna Devi Daughters & Smt. Jyuni Widow of Puran Chand s/o Bansi Lal equal Parts (64) Shares r/o Babeli banogi Kabja Savayam

				493	493/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-12	<p>Total Parts (2520)</p> <p>Tara Chand, Jugroop Chand sons &amp; Smt. Umavati, Smt. Durgavati, Smt. Kiran Kumari Daughter &amp; Smt. Heera, Hira Devi Widows of Jog Ram s/o Laje Ram equal parts (492) Shares Chander Kiran s/o Tek Singh s/o Lekh. Ram (164) Shares Bhagat Singh s/o Smt. Lalta Devi wd/o Lekh Ram s/o Laje Ram equal parts (328) Shares Tara Singh son &amp; Smt. Nirmla Devi d/o &amp; Smt. Shadhi Devi wd/o Tikam Ram s/o Laje Ram equal parts (369) shares Mohinder Singh, Inder Singh sons &amp; Smt. Promila d/o &amp; Smt. Parvati Devi wd/o Ghanshyam s/o Tikam Ram equal parts (123) shares Tej Ram (492) Shares son &amp; Smt. Sevati (30) shares d/o Laje Ram s/o Shigharu Smt. Bhagvati Devi widow Kaul Singh s/o Laje Ram (492) Shares Smt. Santosh d/o Smt. Talu d/o Laje Ram (30) shares r/o Babeli Paras Ram s/o Hari Ram Tabe Marji</p>
				491	491/1	Pvt.	Gair Mumkin Dukan/ Pakka Makan	0-00-44	<p><b>Total Parts (15)</b></p> <p>Tara Chand, Jagroop Chand sons &amp; Smt. Umavati, Smt. Durgavati, Smt. Kiran Kumari Daughters &amp; Smt. Heera, Smt. Heera Devi Widows of Jog Ram s/o Laje Ram equal parts (3) Shares Chnader Kiran s/o Tek Singh s/o Lekh Ram (1) Shares Bhagat Singh son &amp; Smt. Lalta Devi wd/o Lekh Ram s/o Laje Ram equal Parts (2) shares Tej Ram s/o Laje Ram s/o Shigharu (3) shares</p>

									Smt. Bhagvati Devi widow of Kaul singh s/o Laje Ram(6) Shares r/o Babeli/ Kabja Savyam
				490	490/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-20	<b>Total Parts (15)</b> Tara Chand , Jagroop Chand sons & Smt. Umavati, Smt. Durgavati, Smt. Kiran Kumari Daughters & Smt. Heera , Smt.Heera Devi Widows of Jog Ram s/o Laje Ram equal parts (3)Shares Chander Kiran s/o Tek Singh s/o Lekh Ram (1) Share Bhagat Singh son & Smt. Lalta Devi wd/o Lekh Ram s/o Laje Ram equal Parts (2) shares Tej Ram s/o Laje Ram s/o Shigharu (3) shares Smt. Bhagvati Devi widow of Kaul singh s/o Laje Ram (6) Shares r/o Babeli/ Kabja Savyam
				489	489/1	Pvt	Gair Mumkin Abadi	0-00-32	Tara Chand , Jagroop Chand sons & Smt. Umavati, Smt. Durgavati, Smt. Kiran Kumari Daughters & Smt. Heera , Smt.Heera Devi Widows of Jog Ram s/o Laje Ram equal parts r/o Babeli / Kashat & Kabja Savyam
				488	488	H.P. Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-03-45	Govt. of H.P. / Kabja Lok Nirman Vibhag
				487	487/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-80	Tara Chand , Jagroop Chand sons & Smt. Umavati, Smt. Durgavati, Smt. Kiran Kumari Daughters & Smt. Heera , Smt.Heera Devi Widows of Jog Ram s/o Laje Ram equal parts r/o Babeli Kashat & Kabja Savyam
				486	486/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-30	Smt. Vindra Devi s/o Arjun Singh s/o Ram Dass r/o Kanval Distt. Mandi Kabja Savyam
				485	485/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-35	Smt. Sudesh Kumari wd/o Ish kumar s/o Sundar Dass r/o Babeli Kabja Savyam



				484	484/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-35	Smt. Vindra Devi s/o Arjun Singh s/o Ram Dass r/o KAnval Distt. Mandi Kabja Savyam
				483	483/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-15	Total Parts (5) Alu Ram , Ved Ram , Om Parkash sons & Smt. Kala Devi d/o Budh Ram s/o Hardyal equal parts (4) shares Rohit , Kumar & Kumari Bhavana d/o & Smt. Lata Devi Wd/o Deene Ram s/o Budh Ram equal parts (1) shares R/o Babeli Kabja Savyam
				482	482/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-55	<b>Total Parts (18)</b> Nirat Ram s/o Hardyal s/o Hetu (9) <b>Shares</b> Jeet Ram s/o Tek Ram s/o Aatma Ram <b>(2) Shares</b> Vivek , Vineet, Anupam sons & Smt. Asha Devi Widow of Pyare Chand s/o Puran Chand equal Parts <b>(3)Shares</b> Smt. Kubja Devi W/o Daulat Ram s/o Khayalu <b>(4) Shares</b> r/o Babeli Bnogi Kabja Savyam
				481	481/1	Pvt.	Gair Mumkin Dukan	0-00-50	<b>Total Parts (18)</b> Nirat Ram s/o Hardyal s/o Hetu (9) <b>Shares</b> Jeet Ram s/o Tek Ram s/o Aatma Ram <b>(2) Shares</b> Vivek , Vineet, Anupam sons & Smt. Asha Devi Widow of Pyare Chand s/o Puran Chand equal Parts <b>(3)Shares</b> Smt. Kubja Devi W/o Daulat Ram s/o Khayalu <b>(4)</b> <b>Shares</b> r/o Babeli Bnogi Kabja Savyam
				480	480/1	Pvt.	Gair Mumkin Dukan	0-00-40	<b>Total Parts (18)</b> Nirat Ram s/o Hardyal s/o Hetu (9) <b>Shares</b> Jeet Ram s/o Tek Ram s/o Aatma Ram <b>(2) Shares</b> Vivek , Vineet, Anupam sons & Smt. Asha Devi Widow of Pyare Chand s/o Puran Chand equal Parts <b>(3)Shares</b> Smt. Kubja Devi W/o

									Daulat Ram s/o Khayalu (4) Shares r/o Babeli Bnogi Kabja Savyam
				479/1	479/1/1	Pvt.	Gair Mumkin Dukan	0-00-20	<b>Total Parts (18)</b> Nirat Ram s/o Hardyal s/o <b>Hetu (9)</b> <b>Shares</b> Jeet Ram s/o Tek Ram s/o Aatma Ram (2) <b>Shares</b> Vivek , Vineet, Anupam sons & Smt. Asha Devi Widow of Pyare Chand s/o Puran Chand equal Parts (3) <b>Shares</b> Smt. Kubja Devi W/o Daulat Ram s/o Khayalu (4) <b>Shares</b> r/o Babeli Bnogi Kabja Savyam
				479	479/1	H.P. Govt.	Charagah	0-00-40	Govt of H.P./ Kabja Savayam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				520	520	H.P. Govt	Gair Mumkin Sadak	0-18-01	Govt of H.P./ Shareh-Aaam
				431/1	431/1/1	H.P. Govt.	Gair Mumkin Nalah	0-02-47	Govt of H.P./ Kabja Savayam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				600	600/1	Pvt.	Gair Mumkin Dukan / Makan	0-01-15	<b>Total Parts(408200)</b> Ganesh Kumar Nick Name Dinesh Sain s/o Beli Singh s/o Narayan Singh(54415) Shares r/o Babeli Harish Kumar, Suresh Kumar sons of Krishan Lal s/o Nanak Chand equal Parts(69237)Shares r/o Shastri Nagar Kullu. Bhushan son & Kumari Ruhani D/o Smt. Sapana kumari d/o Balwant Rai Equal parts (18200)Share doughter & Smt. Kamlesh Kumari widow of - Balvant Rai s/o Namalum (20800)Shares Paras Ram s/o Hari Ram s/o Sangat Ram(21980)Shares Smt. Narvada d/o Kalyan Chand s/o Sant Ram (15700) Shares Trishala Mahila Kutir

									Udyog (128740) Shares r/o Shamshi Inderpal Singh s/o Payara Singh s/o Ishar Singh (79128) shares r/o Akhara Bazar Kullu. Kasht & Kabja Savyam
				Kita	81	Total Area-		3-26-76	
			5.Babeli (Jindor)	475	475	H.P. Govt	Gair Mumkin Sadak	0-02-66	Govt of H.P./ Kabja Lok Nirman Vibhag
				476	476	H.P. Govt	Gair Mumkin Sadak	0-11-25	Govt of H.P./ Kabja Lok Nirman Vibhag
				318	318/1	H.P. Govt	Gair Mumkin Rasta	0-00-12	Govt of H.P./ Shareh-Aam
				319	319/1	H.P. Govt	Charagah	0-00-36	Govt of H.P./ Kabja Savyam Taba Hakuk Bartan Bartandaran
				290	290/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-72	Balbir s/o Smt. Surmu d/o Jai Ram R/o Babeli Jindor Kasht & Kabja Savyam
				479	479	H.P. Govt	Gair Mumkin Sadak	0-50-02	Govt of H.P./ Kabja Lok Nirman Vibhag
				480	480	H.P. Govt	Gair Mumkin Sadak	0-29-06	Govt of H.P./ Kabja Lok Nirman Vibhag
				481	481/1	H.P. Govt	Charagah	0-14-12	Govt of H.P./ Kabja Savyam Taba Hakuk Bartan Bartandaran
				477	477/1	H.P. Govt	Gair Mumkin Patwar Khana	0-00-48	Govt of H.P./ Kabja Revenue Department
				478	478/1	H.P. Govt	Charagah	0-11-36	Govt of H.P./ Kabja Savyam Taba Hakuk Bartan Bartandaran
				277	277/1	H.P. Govt	Gair Mumkin Abadi	0-01-64	Govt. of H.P./ Thakur Chand etc. Khatoni No-130 Khekh Ram , Hem Raj s/o Devi Ram Equal parts (1) shares , Mohan Lal s/o Jai Kishan s/o Hot Ram & Anand Parkash s/o Bhuvneshawr Dutt s/o Bala Ram equal parts (3) shares MarfatDuni Chand s/o Jai Ram s/o Bhagi Nisaf , Hirde

									Ram, Hemant Ram , Raju Ram sons & Smt. Ganeshu w/o Lt. Sh. Gangu s/o Dhalu equal parts Chaharam , Chhapu s/o Dhalu s/o Dharam Das Chaharam r/o Babeli Jindor Tabe Marji
				207	207/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-85	Onkar Singh s/o Hukam Ram s/o Gangu r/o Babeli Jindor Kashat & Kabja Savyam
				205	205/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-04-51	Aatam Parkash s/o Him Chand s/o Devi Ram r/o Fati Dhalpur Kothi Maharaja
				203	203/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-01-12	Aatam Parkash s/o Him Chand s/o Devi Ram r/o Fati Dhalpur Kothi Maharaja
				202	202/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-02-12	Aatam Parkash s/o Him Chand s/o Devi Ram r/o Fati Dhalpur Kothi Maharaja
				199	199/1	H.P. Govt	Charagah	0-08-72	Govt of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				201	201	H.P. Govt	Gair Mumkin Sadak	0-02-02	Govt of H.P./ Kabja Lok Nirman Vibhag
				200	200/1	Pvt.	BANJAR KADIM	0-03-46	Harpreet Singh s/o Manjeet Kaur d/o Onkar Singh r/o Shamshi/ Kabja Savyam
				198	198/1	H.P. Govt	Gair Mumkin Sadak	0-01-08	Govt of H.P./ Kabja Lok Nirman Vibhag
				149	149/1	H.P. Govt	Charagah	0-06-10	Govt of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				289	289/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-15	Balbir s/o Smt. Surmu d/o Jai Ram R/o Babeli Jindor Kasht & Kabja Savyam
				Kita -	21	Total Area-		1-51-92	
			6.Harabag (Mandrol)	46	46/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-02-20	<b>Total Parts (4890)</b> <b>Viri Singh</b> s/o Mansa Ram s/o Ram Ji Ram (300) shares Vidya Sagar (1525)

									Shares & Smt. Nari (1896) Shares widow of Palshukh s/o Chheku Ravi, Dandup Chhering sons & Smt. Shelza Devi daughter & Smt. Meera Devi Nick Name Dropati widow of Vidya Chand s/o Palsukh equal parts (1064) shares Buvnewar Dass s/o Krishan Dass s/o Nup Dass Nick Name Nup Ram (105) shares r/o Harabag Kasht & Kabja Savyam
				47	47/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-80	Bhag Chand , Prem Lal sons of Rinchan s/o Gulab Dass equal shares. Kabja Savyam
				48	48/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-01-07	<b>Total Parts (4890)</b> <b>Viri Singh</b> s/o Mansa Ram s/o Ram Ji Ram (300) shares Vidya Sagar (1525) Shares & Smt. Nari (1896) Shares widow of Palshukh s/o Chheku Ravi, Dandup Chhering sons & Smt. Shelza Devi daughter & Smt. Meera Devi Nick Name Dropati widow of Vidya Chand s/o Palsukh equal parts (1064) shares Buvnewar Dass s/o Krishan Dass s/o Nup Dass Nick Name Nup Ram (105) shares r/o Harabag Kasht & Kabja Savyam
				49	49	Pvt.	Gair Mumkin Khali (Tapri)	0-00-40	<b>Total Parts (4890)</b> <b>Viri Singh</b> s/o Mansa Ram s/o Ram Ji Ram (300) shares Vidya Sagar (1525) Shares & Smt. Nari (1896) Shares widow of Palshukh

									s/o Chheku Ravi, Dandup Chhering sons & Smt. Shelza Devi daughter & Smt. Meera Devi Nick Name Dropati widow of Vidya Chand s/o Palsukh equal parts (1064) shares Buvnewar Dass s/o Krishan Dass s/o Nup Dass Nick Name Nup Ram (105) shares r/o Harabag Kasht & Kabja Savyam
				56	56/1	H.P.Govt.	Charagah	0-04-46	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				61	61/1	H.P.Govt.	Charagah	0-01-02	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				70	70/1	H.P.Govt.	Charagah	0-08-87	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				71	71/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-02-32	Govt. of H.P./ PWD Department
				73	73/1	H.P.Govt.	Charagah	0-17-69	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				134	134/1	H.P.Govt.	Charagah	0-01-16	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				136	136/1	H.P.Govt.	Charagah	0-01-84	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				128	128/1	Pvt.	Banjar Kadim	0-02-25	Total Parts (5) Bhole Ram Jai Chand Bhadar Singh sons of poshu s/o S/o Nathu eual parts (3) shares Kusam Chand son & Smt. Prem Lata daughter Smt. Vayasa Devi widow of Daghalu s/o Poshu equal parts (1) shares Kanhaya lal Deenu Ram sons & Smt. Alu Devi Widow Sher Singh s/o Poshu equal parts (1) shares
				132	132/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-54	Total Parts (5) Bhole Ram Jai Chand Bhadar Singh sons of poshu s/o

									S/o Nathu eual parts (3) shares Kusam Chand son & Smt. Prem Lata daughter Smt. Vayasa Devi widow of Daghalu s/o Poshu equal parts (1) shares Kanhaya lal Deenu Ram sons & Smt. Alu Devi Widow Sher Singh s/o Poshu equal parts (1) shares
				130	130/1	Pvt.	Gair Mumkin Rasta	0-00-06	<b>Total Parts (5)</b> Bhole Ram Jai Chand Bhadar Singh sons of poshu s/o S/o Nathu eual parts (3) shares Kusam Chand son & Smt. Prem Lata daughter Smt. Vayasa Devi widow of Daghalu s/o Poshu equal parts (1) shares Kanhaya lal Deenu Ram sons & Smt. Alu Devi Widow Sher Singh s/o Poshu equal parts (1) shares
				129	129/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-18	<b>Total Parts (5)</b> Bhole Ram Jai Chand Bhadar Singh sons of poshu s/o S/o Nathu eual parts (3) shares Kusam Chand son & Smt. Prem Lata daughter Smt. Vayasa Devi widow of Daghalu s/o Poshu equal parts (1) shares Kanhaya lal Deenu Ram sons & Smt. Alu Devi Widow Sher Singh s/o Poshu equal parts (1) shares
				124	124/1	H.P.Govt.	Charagah	0-00-52	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				126	126/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-27	<b>Total Parts (5)</b> Bhole Ram Jai Chand Bhadar Singh sons of poshu s/o S/o Nathu eual parts (3) shares

									Kusam Chand son & Smt. Prem Lata daughter Smt. Vayasa Devi widow of Daghalu s/o Posu equal parts (1) shares Kanhaya Lal Deenu Ram Sons & Smt. Alu Devi Widow Sher Singh S/o Posu equal parts (1) shares
				125	125	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-02-72	Total Parts (4890) Veeri Singh S/o Mansa Ram S/o Ramji Ram (300) parts Ravi, Dandup Chhering sons & Shelza daughter & Meera urf Dropti wd/o Vidya Chand S/o Pal Sukh equal parts (1064) Shares Nari wd/o Pal Sukh S/o Chhenku (1896) shares Bhuvnewar Dass S/o Krishan Dass S/o Noop Dass (105) shares Uttam Chand s/o Ravi S/o Kunju (1525) shares Kasht & Kbja Savyam
				127	127	Pvt.	Gair Mumkin Mandir	0-00-72	<b>Total Parts (5)</b> Bhole Ram Jai Chand Bhadar Singh sons of poshu S/o S/o Nathu eual parts (3) shares Kusam Chand son & Smt. Prem Lata daughter Smt. Vayasa Devi Widow of Daghalu S/o Posu equal parts (1) shares Kanhaya lal Deenu Ram sons & Smt. Alu Devi Widow Sher Singh S/o Posu equal parts (1) shares
				106	106/1	H.P.Govt.	Charagah	0-01-89	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Barton Bartandaran
				157	157/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Rasta	0-00-22	Govt. of H.P./ Sharch-Aam



				158	158/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Rasta	0-00-36	Govt. of H.P./ Shareh-Aam
				137	137	H.P.Govt.	Charagah	0-00-61	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				138	138/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-54	Total Parts (6) Manish Son & Pushpa Devi Wd/o Hukkam Chand S/o Tej Ram equal parts (2) shares, Preetam Chand (3) shares son & Smt. Begma (1) shares Wd/o Tej Ram S/o Alamu Kasht & Kbja Savyam
				104	104	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-26-35	Govt. of H.P./ PWD Department
				101	101/1	H.P.Govt.	Charagah	0-15-24	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				170	191/170/1 & 192/170/1	H.P.Govt.	Charagah	0-01-51	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Bartan Bartandaran & Ministry of HRD Navodaya Vidyalaya
				182	182/1	H.P.Govt.	Charagah	0-00-90	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				100	100/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-04-85	Govt. of H.P./ PWD Department
				102	102/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-44-87	Govt. of H.P./ PWD Department
				169	169/1	H.P.Govt.	Charagah	0-02-55	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Bartan Bartandaran & Ministry of HRD Navodaya Vidyalaya
				168	189/168 & 190/168	H.P.Govt.	Charagah	0-02-57	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Bartan Bartandaran & Ministry of HRD Navodaya Vidyalaya
				99	99/1	H.P.Govt.	Charagah	0-03-78	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				164	164/1	H.P.Govt.	Charagah	0-07-55	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				103	103	H.P.Govt.	Gair Mumkin Shelter	0-00-20	Govt. of H.P./ PWD Department
				167	167/1	H.P. Govt.	Charagah	0-01-59	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan

			Kita - 36				Total Area	1-64-87 Hect.	Bartandaran
			7.Satan Seri	226	226/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-96	Smt. Shashi D/o Ram Gopal S/o Munshi Ram R/o Satanseri Kasht & Kbja Savyam
				227	227/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-02-25	Harinder Mohan Chadha S/o Basudev Chadha S/o Som Nath Chadha r/o Satan Seri Kasht & Kbja Savyam
				228	228/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-01-03	Harinder Mohan Chadha S/o Basudev Chadha S/o Som Nath Chadha R/o Satan Seri Kasht & Kbja Savyam
				294	294/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-01-36	<b>Total Parts (42075)</b> Smt. Bhadari D/o Gangu S/o Singhu (2244) shares PremSingh (18437) shares Son &Hoshiyar Singh (12903) shares S/o DharamSen S/o Thachang ChanderDev S/o Ludar Chand S/o Kishan Chand (3366) shares Puran Chand S/o Dile Ram S/o Nathu Ram (5125) shares R/o Chhatanseri Kasht & Kbja Savyam
				279	279/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Nalah	0-00-63	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				280	280/1	H.P.Govt.	Charagah	0-00-20	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				309	309	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-15-48	Govt. of H.P./ Kbja Savyam
				310	310/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-01-95	<b>Total Parts (33540)</b> Smt. Chandra Mani D/o Ram Chand S/o Bhag Chand (2795) Shares Smt. Bimladevi W/o Ashok Kumar S/o Ram Chand (5590) shares Smt. Shanti Devi widow of Bhup

									Singh S/o Ram Chand (16770) Shares Vikrant, Vishal sons & Smt. Madhu Widow of Mohan Lal S/o Ram Chand equal parts (2316) Shares Smt. Raj Kumari W/o Keshav Ram S/o Bhagat Ram (6069) Shares R/o Chhatanseri/ Kasht Savyam
				311	311/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Nalah	0-02-18	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				302	302/1	H.P.Govt.	Charagah	0-01-12	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan Bartandaran
				300	300/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-01-22	<b>Total Parts (75)</b> Smt. Bhadari D/o Gangu S/o Singhu (4) shares PremSingh (42) shares son & Hoshiyar Singh (23) shares S/o DharamSen S/o Thachang ChanderDev S/o Ludar Chand S/o Kishan Chand (6) shares R/o Chhatanseri Kasht & Kbja Savyam
				340	340	Pvt.	Gair Mumkin Sadak	0-03-48	Smt. Kusum Mehra D/o L.N.Chopra S/o Deena Nath R/o Satanseri Smt. Kusum Mehara Hissadaran Malkiyat Dahinda Central Govt. Malkiyat Garinda Kbja Lok Nirman Vibhag
				327	327/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Catch Karkhana	0-00-25	Gram Panchayat Raison Kabja Savyam
				329	329/1	Pvt.	Gair Mumkin Sehan	0-00-33	<b>Total Parts (647780)</b> Ravinder Kumar S/o Satpal S/o Lachhi Ram (444853) Shares

									Gram Panchayat Rayson (57497) Shares Govt of H.P. (13230) Shares Smt. Sangita D/o Madan Mohan S/o Munshi Ram (132200) Shares R/o Chhatanseri Kabja Savyam Malkan & Gram Panchayat Raison & Rajsav Vibhag
			330	330/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-66	<b>Total Parts (647780)</b> Ravinder Kumar S/o Satpal S/o Lachhi Ram (444853) Shares Gram Panchayat Rayson (57497) Shares Govt of H.P. (13230) Shares Smt. Sangita D/o Madan Mohan S/o Munshi Ram (132200) Shares r/o Chhatanseri Kabja Savyam Malkan & Gram Panchayat Raison & Rajsav Vibhag	
			331	331/1	Pvt.	Gair Mumkin Catch Karkhana	0-01-00	<b>Total Parts (647780)</b> Ravinder Kumar S/o Satpal S/o Lachhi Ram (444853) Shares Gram Panchayat Rayson (57497) Shares Govt of H.P. (13230) Shares Smt. Sangita D/o Madan Mohan S/o Munshi Ram (132200) Shares R/o Chhatanseri Kabja Savyam Malkan & Gram Panchayat Raison & Rajsav Vibhag	
			332	332/1	Pvt.	Gair Mumkin Catch Karkhana	0-01-80	Ravinder Kumar S/o Satpal S/o Lacchhi Ram R/o Shangari Bag FatiKharahalKotiKaish Hal R/o Raison / KabjaSavyam	
			333	333/1	Pvt.	Gair Mumkin	0-00-28	Ravinder Kumar S/o Satpal S/o Lacchhi	

							Abadi		Ram R/o Shangari Bag Fati Kharahal Koti Kaish Hal R/o Raison / Kabja Savyam
				343	343	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-16-11	Govt of H.P./ Kbja Lok Nirman Vibhag
				201	201/1	Pvt.	Gair Mumkin Rasta	0-00-28	<b>Total Parts (6)</b> Rajan Kumar , Ramesh kumar, , Raman Kumar sons & Smt. Manoram D/o Krishan Gopal s/o Munshi Ram equal Parts (2) shares Smt. Raj Rani W/o Ram Gopal S/o Munshi Ram (2) shares Atul Kumar (1) shares son & Smt. Kavita, Smt. Sangita equal parts (1) shares daughters of Madan Mohan S/o Munshi Ram R/o Chhatanseri Sherh-Aam
				199	199/1	Pvt.	Gair Mumkin Godam	0-00-06	Total parts (4) Atul Kumar (3) shares & Smt. Sangeeta (1) Shares D/o Madan Mohan S/o Munshi ram r/o Chhatanseri Kasht & Kbja Savyam
				198	198/1	Pvt.	Gair Mumkin Samuday Ghar	0-00-26	<b>Total Parts (6)</b> Rajan Kumar , Ramesh Kumar, Raman Kumar Sons & Smt. Manoram D/o KrishanGopal S/o Munshi Ram equal Parts (2) shares Smt. Raj Rani W/o Ram Gopal S/o Munshi Ram (2) shares Atul Kumar (1) shares son & Smt. Kavita, Smt. Sangita equal parts (1) shares daughters of Madan Mohan S/o Munshi Ram R/o Chhatanseri Kasht & Kbja Savyam
				200	200/1	Pvt.	Bagicha Ropa	0-01-07	Total parts (4) Atul Kumar (3)

							Faldar		shares & Smt. Sangeeta (1) Shares d/o Madan Mohan s/o Munshi ram r/o Chhatanseri Kasht & Kbja Savyam
				338	338	Pvt.	Gair Mumkin Sadak	0-02-53	Rajeev Kumar S/o Satpal S/o Lachhi Ram R/o Chhatanseri / Rajeev Kumar S/o Satpal S/o Lachhi Ram R/o Satanseri Vaya Central Govt. Malkiyat Garinda Kbja Lok Nirman Vibhag
				336	336	Pvt.	Gair Mumkin Sadak	0-07-77	<b>Total Parts (647780)</b> Ravinder Kumar S/o Satpal S/o Lachhi Ram (444853) Shares Gram Panchayat Raison (57497) Shares Govt of H.P. (13230) Shares Smt. Sangita D/o Madan Mohan S/o Munshi Ram (132200) Shares r/o Chhatanseri Ravinder Kumar Hissadaran Malkiyat Dahinda Central Govt. Malkiyat Garinda Kbja Lok Nirman Vibhag
				342	342	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-91-57	Govt of H.P./ Kbja Lok Nirman Vibhag
				<b>Kita -</b>	<b>26</b>		<b>Total Area-</b>	<b>1-55-83</b>	
		8.Nangbag		144	144/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-78	Suresh Kumar , Ishawar Dass sons of Banshi Dass S/o Dile Ram equal shares / Kbja Savyam
				501	501	Pvt.	Gair Mumkin Sadak	0-00-25	Suresh Kumar , Ishawar Dass sons of Banshi Dass S/o Dile Ram equal shares / Kbja Savyam
				145	145	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-01-21	Total Parts (216) Smt. Shiru (18) shares daughter and Smt. Dilbantu (6) shares wd/o Paras Ram S/o Chande Ram Smt. Durga devi daughter & Sagari devi Wd/o Rattan

									<p>Chand S/o Paras Ram equal parts (12) shares</p> <p>Chuharu Ram, Jeet Ram, Madan Singh sons of Devi Chand S/o Jagatu equal parts (9) shares</p> <p>Dharam Chand Prem Chand, Ram Veer, Alam Chand sons &amp; Smt. Thini, Smt. Vishanu Smt. Pati, Devi daughters of Payaru S/o Jagatu equal parts (9) shares</p> <p>Bhayanu Ram S/o Dola Ram S/o Jagatu (9) shares</p> <p>Tulsi Ram S/o Ram chand S/o Ganga Ram (15) Shares</p> <p>Sohan Lal, Madan Lal. Equal parts (25) shares sons &amp; Smt. Bega Devi (5) shares</p> <p>Wd/o Prem Dass S/o Ram Chand</p> <p>Sauju S/o Jogi S/o Ganga Ram (9) shares</p> <p>Nathu S/o Ganga Ram S/o Chamaru (9) shares</p> <p>Het Ram, Mehat Ram, Revat Ram sons of Aatu S/o Ganga Ram equal parts (45) shares</p> <p>Roop Singh, Tek Singh, Ram Chand sons &amp; Smt. Kushla, Kumari Shakuntla daughters and Smt. Kali Wd/o Ambi Lal S/o Smt. Jhunu equal parts (36) shares</p> <p>Rinchan S/o Gulab Dass S/o Shiv Dass (9) shares R/o Nangbag</p> <p>[Ambi Lal vya nishf bila vya nishf</p> <p>Dharam Singh, Veer Singh, Preetam Singh son &amp; Smt. Vanti</p> <p>Devi D/o Kanshi S/o Nanaku equal parts (1) shares Ram Dass S/o Nanaku S/o Ijatu (1) shares Suresh Kumar, Ishawar Das S/o Banshi Dass S/o Dile Ram equal parts (10) shares Mushtriyan Kbja Savyam Bila Vayan &amp; Mushatriyan ]</p>
				500	500	Pvt.	Gair Mumkin	0-01-14	<p>Total Parts (216)</p> <p>Smt. Shiru (18) shares</p>

							Sadak	<p>daughter and Smt. Dilbantu (6) shares Wd/o Paras Ram S/o Chande Ram Smt. Durga devi daughter &amp; Sagari devi Wd/o Rattan Chand S/o Paras Ram equal parts (12) shares Chuharu Ram, Jeet Ram, Madan Singh, sons of Devi Chand S/o Jagatu equal parts (9) shares Dharam Chand Prem Chand, Ram Veer, Alam Chand sons &amp; Smt. Thini, Smt. Vishanu Smt. Pati Devi daughters of Payaru S/o Jagatu equal parts (9) shares Bhayanu Ram S/o Dola Ram S/o Jagatu (9) shares Tulsi Ram S/o Ram chand S/o Ganga Ram (15) Shares Sohan Lal, Madan Lal. Equal parts (25) shares sons &amp; Smt. Bega Devi (5) shares wd/o Prem Dass S/o Ram Chand Sauju S/o Jogi S/o Ganga Ram (9) shares Nathu S/o Ganga Ram S/o Chamaru (9) shares Het Ram, Mehat Ram, Revat Ram sons of Aatu S/o Ganga Ram equal parts (45) shares Roop Singh, Tek Singh, Ram Chand sons &amp; Smt. Kushla, Kumari Shakuntla daughters and Smt. Kali Wd/o Ambi Lal S/o Smt. Jhunu equal parts (36) shares Rinchan S/o Gulab Dass S/o Shiv Dass (9) shares R/o Nangbag [Ambi Lal vaya nisf. bila vaya nisaf Dharam Singh, Veer Singh, Preetam Singh son &amp; Smt. Vanti Devi D/o Kanshi S/o Nanaku equal parts (1) shares Ram Dass S/o Nanaku s/o Ijatu (1) shares Suresh Kumar, Ishawar Das S/o Banshi Dass S/o Dile Ram equal parts (10)</p>
--	--	--	--	--	--	--	-------	--



									shares Mushtriyan Kbja Savyam Bila Vayan & Mushatriyan ]
				517	517/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Rasta	0-00-10	Shareh-Aam
				503	503	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-06-00	H.P.Govt. / Kabja Lok Nirman Vibhag
				149	149/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-01-08	Total Parts (8) Shetu Ram Yuvraj , Prem Chand sons , Dhani Ram S/o Jagat Ram equal parts (2) shares Dharam Singh , Veer Singh , Preetam Singh sons & Smt. Vanti Devi D/o Kanshi Ram S/o Nanaku equal parts (3) shares Ram Dass S/o Nanaku S/o Ijatu (3) shares R/o Nangbag Kasat & Kbja Savyam
				150	150/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-80	Total parts (4) Roop Singh , Tek Singh , Ram Chand sons & Smt. Kushla , Kumari Shakuntla daughters and Smt. Kali Wd/o Ambi Lal S/o Smt. Jhunu equal parts (2) shares Bhuvneshar Dass S/o Kam Nath S/o Ram Saran (1) shares Bhuvneshawer Das son of Krishan Das S/o Nup Das urf Nup Ram (1) shares R/o Nangbag Kasht & Kbja Savyam
				499	499	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-42	Total Parts (216) Smt. Shiru (18) shares daughter and Smt. Dilbantu (6) shares Wd/o Paras Ram S/o Chande Ram Smt. Durga Devi daughter & Sagari Devi Wd/o Rattan Chand S/o Paras Ram equal parts (12) shares Chuharu Ram, Jeet Ram, Madan Singh sons of Devi Chand S/o Jagatu equal parts (9) shares Dharam Chand Prem Chand , Ram Veer , Alam Chand sons & Smt. Thini , Smt. Vishanu Smt. Pati Devi daughters of Payaru S/o Jagatu equal parts (9) shares

								Bhayanu Ram S/o Dola Ram S/o Jagatu (9) shares Tulsi Ram S/o Ram chand S/o Ganga Ram (15) Shares Sohan Lal, Madan Lal. Equal parts (25) shares sons & Smt. Bega Devi (5) shares Wd/o Prem Dass S/o Ram Chand Sauju S/o Jogi S/o Ganga Ram (9) shares Nathu S/o Ganga Ram S/o Chamaru (9) shares Het Ram, Mehat Ram, Revat Ram sons of Aatu S/o Ganga Ram equal parts (45) shares Roop Singh, Tek Singh, Ram Chand sons & Smt. Kushla, Kumari Shakuntla daughters and Smt. Kali Wd/o Ambi Lal S/o Smt. Jhunu equal parts (36) shares Rinchan s/o Gulab Dass S/o Shiv Dass (9) shares R/o Nangbag Kasht & Kbja Savyam Ambi Lal Hisadar
			152	152/1		Bathal Abbal	0-01-38	Total Parts (216) Smt. Shiru (18) shares daughter and Smt. Dilbantu (6) shares wd/o Paras Ram s/o Chande Ram Smt. Durga devi daughter & Sagari devi wd/o Rattan Chand s/o Paras Ram equal parts (12) shares Chuharu Ram, Jeet Ram, Madan Singh sons of Devi Chand s/o Jagatu equal parts (9) shares Dharam Chand Prem Chand, Ram Veer, Alam Chand sons & Smt. Thini, Smt. Vishanu Smt. Pati Devi daughters of Payaru s/o Jagatu equal parts (9) shares Bhayanu Ram s/o Dola Ram s/o Jagatu (9) shares Tulsi Ram s/o Ram chand s/o Ganga Ram (15) Shares Sohan Lal, Madan Lal. Equal parts (25) shares sons & Smt.

									Bega Devi (5) shares wd/o Prem Dass s/o Ram Chand , Sauju s/o Jogi s/o Ganga Ram (9) shares Nathu s/o Ganga Ram s/o Chamaru (9) shares Het Ram, Mehat Ram. Revat Ram sons of Aatu s/o Ganga Ram equal parts (45) shares Roop Singh , Tek Singh , Ram Chand sons & Smt. Kushla , Kumari Shakuntla daughters and Smt. Kali wd/o Ambi Lal s/o Smt. Jhunu equal parts (36) shares Rinchan s/o Gulab Dass s/o Shiv Dass (9) shares r/o Nangbag Kasht & Kbja Savyam Ambi Lal Hisadar
			157	157/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-01-86	Potam Singh s/o Ringnjan s/o Fuchong r/o Nangbag Kasht & Kbja Savyam	
			158	158/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-73	Total parts (3) Dharam Singh , Veer Singh , Preetam Singh sons & Smt. Vanti Devi d/o Kanshi Ram s/o Nanaku equal parts (1) shares Karam Chand , Sagar Singh, Devi Singh Om Singh, Ramesh Chand, sons & Smt. Ram Dasi wd/o Bala Ram s/o Nanaku equal parts (1) shares Ram Das s/o Nanaku s/o Ijatu (1) shares r/o Nangbag Kasat & Kbja Savyam	
			502	502	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-20-54	H.P.Govt. / Kabja Lok Nirman Vibhag	
			507	507/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-15	Total Parts (216) Smt. Shiru (18) shares daughter and Smt. Dilbantu (6) shares wd/o Paras Ram s/o Chande Ram Smt. Durga devi daughter & Sagari devi wd/o Rattan Chand s/o Paras Ram equal parts (12) shares Chuharu Ram, Jeet Ram, Madan Singh sons of Devi Chand s/o Jagatu equal parts (9) shares Dharam Chand Prem	

								Chand , Ram Veer , Alam Chand sons & Smt. Thini , Smt. Vishanu Smt. Pati Devi daughters of Payaru s/o Jagatu equal parts (9) shares Bhayanu Ram s/o Dola Ram s/o Jagatu (9) shares Tulsi Ram s/o Ram chand s/o Ganga Ram (15) Shares Sohan Lal, Madan Lal. Equal parts (25) shares sons & Smt. Bega Devi (5) shares wd/o Prem Dass s/o Ram Chand ,Sauju s/o Jogi s/o Ganga Ram (9) shares Nathu s/o Ganga Ram s/o Chamaru (9) shares Het Ram , Mehat Ram , Revat Ram sons of Aatu s/o Ganga Ram equal parts (45) shares Roop Singh , Tek Singh , Ram Chand sons & Smt. Kushla , Kumari Shakuntla daughters and Smt. Kali wd/o Ambi Lal s/o Smt. Jhunu equal parts (36) shares Rinchan s/o Gulab Dass s/o Shiv Dass (9) shares r/o Nangbag Ambi Lal Vaya nisaf bila nisaf Suresh Kumar Ishawar Das d/o Banshi Das s/o Dile Ram equal parts Mushatriyan Kasht Savyam Bila Vayan Mushtriyan
			498	498/1	Pvt.	Gair Mumkin Sehan	0-00-78	Jampal Singh s/o Ringanjan s/o Fuchong r/o Nangabag Kabja Savyam
			497	497	Pvt.	Gair Mumkin Rasta	0-0-25	Jampal Singh s/o Ringanjan s/o Fuchong r/o Nangabag Kabja Savyam
			496	496/1	Pvt.	Gair Mumkin Rasta	0-00-08	Rinchan s/o Gulab Dass s/o Shiv Das r/o Nanga Bag Kasht & Kbja Savyam
			472	472/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-57	Total Parts (15) Kirati Krishan s/o Balak Ram s/o Gilu (14) shares Madan Gopal s/o Him Das s/o Damodar Das (1) shares r/o Nangabag

									Kasht & Kbja Savyam
				471	471	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-01-92	Total Parts (13) Shetu Ram , Yuv Raj , Prem Chand , sons of Dhani Ram s/o Jangat Ram equal parts (3) shares Potam Singh s/o Ringanjan s/o Fuchong (10) shares r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam
				159	159	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-86	Total parts (3) Dharam Singh , Veer Singh , Preetam Singh sons & Smt. Vanti Devi d/o Kanshi Ram s/o Nanaku equal parts (1) shares KAram Chand , Sagar Singh, Devi Singh Om Singh, Ramesh Chand, sons & Smt. Ram Dasi wd/o Bala Ram s/o Nanaku equal parts (1) shares Ram Das s/o Nanaku s/o Ijatu (1) shares r/o Nangbag Kasat & Kbja Savyam
				160	160/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-81	Total parts (3) Dharam Singh , Veer Singh , Preetam Singh sons & Smt. Vanti Devi d/o Kanshi Ram s/o Nanaku equal parts (1) shares KAram Chand , Sagar Singh, Devi Singh Om Singh, Ramesh Chand, sons & Smt. Ram Dasi wd/o Bala Ram s/o Nanaku equal parts (1) shares Ram Das s/o Nanaku s/o Ijatu (1) shares r/o Nangbag Kasat & Kbja Savyam
				161	161/1	Pvt.	Gair Mumkin Khad	0-00-35	Total parts (3) Dharam Singh , Veer Singh , Preetam Singh sons & Smt. Vanti Devi d/o Kanshi Ram s/o Nanaku equal parts (1) shares KAram Chand , Sagar Singh, Devi Singh Om Singh, Ramesh Chand, sons & Smt. Ram Dasi wd/o Bala Ram s/o Nanaku equal parts (1) shares Ram Das s/o Nanaku s/o Ijatu (1) shares r/o Nangbag Kasat & Kbja Savyam
				469	469	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-01-45	Total Parts (13) Shetu Ram , Yuv Raj , Prem Chand , sons of Dhani Ram s/o Jangat Ram equal parts (3) shares Potam Singh

								s/o Ringanjan s/o Fuchong (10) shares r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam
			468	468	Pvt.	Gair Mumkin Shouchghar	0-00-12	Total Parts (13) Shetu Ram , Yuv Raj , Prem Chand , sons of Dhani Ram s/o Jangat Ram equal parts (3) shares Potam Singh s/o Ringanjan s/o Fuchong (10) shares r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam
			467	467	Pvt.	Banjar Kadim	0-00-96	Total Parts (13) Shetu Ram , Yuv Raj , Prem Chand , sons of Dhani Ram s/o Jangat Ram equal parts (3) shares Potam Singh s/o Ringanjan s/o Fuchong (10) shares r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam
			162	162	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-01-35	Potam Singh s/o Ringnjan s/o Fuchong r/o Nangbag Kasht & Kbja Savyam
			466	466/1	Pvt.	Gair Mumkin Dukan	0-00-42	Total Parts (13) Shetu Ram , Yuv Raj , Prem Chand , sons of Dhani Ram s/o Jangat Ram equal parts (3) shares Potam Singh s/o Ringanjan s/o Fuchong (10) shares r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam
			112	112/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-06-27	Total parts (3) Dharam Singh , Veer Singh , Preetam Singh sons & Smt. Vanti Devi d/o Kanshi Ram s/o Nanaku equal parts (1) shares Karam Chand , Sagar Singh, Devi Singh Om Singh, Ramesh Chand, sons & Smt. Ram Dasi wd/o Bala Ram s/o Nanaku equal parts (1) shares Ram Das s/o Nanaku s/o Ijatu (1) shares r/o Nangbag Kasat & Kbja Savyam
			111	111	Pvt.	Banjar Kadim	0-02-42	Total Parts (33588) Amir Chand , Keshar Chand , sons of Tara Chand, s/o Dugalu equal parts (8544) shares Rakesh Chand , Rajesh Chand sons & Smt. Bhavana daughter & Smt. Premvati wd/o Ludar Chand s/o Ram Dayal equal parts (1080)

									shares Samtan Chhering, Chhewang, Paldan Chhering sons of Ram Saran s/o Chhok Nand equal parts (2799) shares Smt. Oma Vati wd/o Tashi Gailchhan s/o Ram Saran (933) shares Madan Gopal , Pardeep Kumar equal parts (7792) shares Sons & Ramesh Kumar son& Smt. Bhago Devi Smt. Lata Devi, Smt. Kamla Devi Smt. Usha Devi . Smt. Aruna devi daughters & Smt. Durga Devi equal parts (8708) shares wd/o Jagar Nath s/o Jodha Ram Khushal Chand , Mahaveer chand , sons of Narayan Dutt, s/o Budh Ram equal parts (3732) shares r/o Nangabag Kasht & Kabja Savyam
				448	448/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-30	Khushal Chand, Mahaveer Chand, sons of Narayan Dutt s/o Budh Ram equal parts r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam
				446	446/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-02-04	Total Parts (2) Mahaveer Chand, son of Narayan Dutt s/o Budh Ram (1) parts Tharvan Lal s/o Budh Ram s/o Lubdhu (1) shares r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam
				444	444	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-01-26	Total Parts (2) Mahaveer Chand, son of Narayan Dutt s/o Budh Ram (1) parts Tharvan Lal s/o Budh Ram s/o Lubdhu (1) shares r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam
				447	447/1	Pvt.	Gair Mumkin Khad	0-00-08	Total Parts (2) Rakesh Chand , Rajesh sons & Smt. Bhavana d/o & Smt. Premvati wd/o Ludar Chand s/o Ram Dayal equal parts (1) shares Khushal Chand , Mahavir Chand s/o of Narayan Dutt s/o Budh Ram equal parts (1) shares r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam

				445	445	Pvt.	Banjar Kadim	0-00-30	Khushal Chand, Mahaveer Chand, sons of Narayan Dutt s/o Budh Ram equal parts r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam
				163	163	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-15-30	H.P.Govt. / Kabja Lok Nirman Vibhag
				443	443/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-02-18	Total Parts (2) Mahaveer Chand, son of Narayan Dutt s/o Budh Ram (1) parts Tharvan Lal s/o Budh Ram s/o Lubdhu (1) shares r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam
				442	442	Pvt.	Gair Mumkin Souchghar	0-00-09	Total Parts (2) Mahaveer Chand, son of Narayan Dutt s/o Budh Ram (1) parts Tharvan Lal s/o Budh Ram s/o Lubdhu (1) shares r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam
				441	441/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Nalah	0-00-94	H.P.Govt. / Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan Daran
				110/1	110/1	Pvt.	Banjar Kadim	0-00-12	Total Parts (33588) Amir Chand, Keshar Chand, sons of Tara Chand, s/o Dugalu equal parts (8544) shares  Rakesh Chand, Rajesh Chand sons & Smt. Bhavana daughter & Smt. Premvati wd/o Ludar Chand s/o Ram Dayal equal parts (1080) shares Samtan Chhering, Chhewang, Paldan Chhering sons of Ram Saran s/o Chhok Nand equal parts (2799) shares Smt. Oma Vati wd/o Tashi Gailchhan s/o Ram Saran (933) shares Madan Gopal, Pardeep Kumar equal parts (7792) shares Sons & Ramesh Kumar son & Smt. Bhago Devi Smt. Lata Devi, Smt. Kamla Devi Smt. Usha Devi. Smt. Aruna devi daughters & Smt. Durga Devi equal parts (8708) shares wd/o Jagar Nath s/o Jodha Ram Khushal Chand,



									Mahaveer chand , sons of Narayan Dutt, s/o Budh Ram equal parts (3732) shares r/o Nangabag Kasht & Kabja Savyam
			250	250/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-77	Smt. Uttara d/o Khub ram s/o Bhimi Ram r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam	
			249	249	Pvt.	Bathal Abbal	0-00-55	Smt. Uttara d/o Khub ram s/o Bhimi Ram r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam	
			251	251/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-20	Navit Kumar son & Smt. Indra Smt. Sunita Smt. Kirna , Smt. Sanju daughters of Jagtaru urf Deenu s/o Khub Ram equal parts r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam	
			248	248/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-75	Abadi Deh	
			245	245	Pvt.	Gair Mumkin Sehan	0-00-22	Suniti Kumar , Amar Chand , Bhuvnesh Kumar, Rakesh Kumar sons of Kaam Nath s/o Ram Saran equal parts r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam Bhubneshar Kumar Hisadar	
			65	65/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-01-75	Abadi Deh	
			62	62/	Pvt.	GairMum kinAbadi	0-00-39	Rakesh Kumar s/o Kam Nath s/o Ram Saran r/o Nangabag Kasht & Kabja savyam	
			63	63	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-77	Rakesh Kumar s/o Kam Nath s/o Ram Saran r/o Nangabag Kasht & Kabja savyam	
			64	64	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-40	Suniti Kumar , Amar Chand , Bhuvnesh Kumar, Rakesh Kumar sons of Kaam Nath s/o Ram Saran equal parts r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam Bhubneshar Kumar Hisadar	
			244	244/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-40	Haish Kumar , Suresh Kumar sons of Krishan Lal s/o Nanak Chand equal parts r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam	
			239	239/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-77	Amar Chand , Bhuvneshar Kumar , Rakesh Kumar sons of Kaam Nath s/o Ram	

									Saran equal parts r/o Nangabag Kasht Savyam
				61	61/1	Pvt.	Gair Mumkin Machine	0-01-16	Bhuvneshar Kumar s/o Kaam Nath s/o Ram Saran r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam
				164	164	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-42-40	H.P.Govt. / Kabja Lok Nirman Vibhag
				226	226	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-68	Total Parts (24) Amar Chand , Bhubneshar Kumar sons of Kaam Nath s/o Ram Saran equal parts (16) shares Ishawar Kant son of Smt. Gandharvi Devi d/o Moti Ram (5) shares Rakesh Kumar son of Kam Nath s/o Ram saran (3) shares r/o Nagabag Kasht & Kbja Savyam
				227	227	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-01-08	Total Parts (24) Amar Chand , Bhubneshar Kumar sons of Kaam Nath s/o Ram Saran equal parts (16) shares Ishawar Kant son of Smt. Gandharvi Devi d/o Moti Ram (5) shares Rakesh Kumar son of Kam Nath s/o Ram saran (3) shares r/o Nagabag Kasht & Kbja Savyam
				238	238	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-03-16	Total Parts (24) Amar Chand , Bhubneshar Kumar sons of Kaam Nath s/o Ram Saran equal parts (16) shares Ishawar Kant son of Smt. Gandharvi Devi d/o Moti Ram (5) shares Rakesh Kumar son of Kam Nath s/o Ram saran (3) shares r/o Nagabag Kasht & Kbja Savyam
				225	225/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-02-63	Total Parts (6) Dorje Angroop , Tashi Dava, Tashi Nurbu sons of Sonam s/o Sonam Ringanjan equal parts (3) shares Shushil Chand , Chhering Nawang, sons of Gombo s/o Sonam Ringan equal parts (2) shares Ashok Kumar s/o Kaljung Tanjan s/o

									Kalu (1) shares r/o Nangabag Kasht Savyam
				11	11/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-08-17	Total Parts (4132) Suniti Kumar , Amar Chand, Rakesh Kumar sons of Kaam Nath s/o Ramsaran equal parts (3099) shares Tavinder Kumar s/o Suniti Kumar s/o Kaam Nath (880) shares Bhuvnesh Kumar s/o Kaam Nath s/o Ram Saran (153) shares r/o Nangabag Kasht & kbja Savyam Bhuvnesh Kumar Tavinder Kumar Hisadar
				10	10/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-73	Amir Chand , Keshar Chand sons of Tara Chand s/o Dughalu equal parts r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam
				9	9/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-13	Amir Chand , Keshar Chand sons of Tara Chand s/o Dughalu equal parts r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam
				224	224	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-30	Smt. Durga d/o Khub Ram s/o Bhimi Ram r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam
				222	222/1	Pvt.	Bathal Abbal	0-03-23	Total parts (26) Arjun dev s/o Jeet Ram s/o Khub Ram (5) shares Kirati Krishan s/o Balak Ram s/o Gilu (11) shares Smt. Bharti d/o Krati Krishan s/o Balak Ram (10) shares r/o Nangabag Kasht Savyam
				221	221/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-22	Total parts (26) Arjun dev s/o Jeet Ram s/o Khub Ram (5) shares Kirati Krishan s/o Balak Ram s/o Gilu (11) shares Smt. Bharti d/o Krati Krishan s/o Balak Ram (10) shares r/o Nangabag Kasht Savyam
				220	220/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-02-10	Narotam Chand , Mohar Chand , Lal Chand , Om Parkash sons of Lakhi Ram s/o Mangalu equal parts r/o Nangabag Kasht & Kbja Savyam
				219	219/1	H.P.Govt.	Charagah	0-01-34	H.P.Govt. / Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan

									Daran
				178	178/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-00-42	H.P.Govt. / Kabja Lok Nirman Vibhag
				165	165/1	H.P.Govt.	CharagahDra khatan	0-00-88	H.P.Govt. / Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan Daran
				166	166/1	H.P.Govt.	Charagah	0-00-24	H.P.Govt. / Kabja Savyam Tabe Hakuk Bartan Daran
				2	2/1	H.P.Govt.	Charagah	0-00-64	H.P.Govt. / Kabja Savyam , Tabe Hakuk Bartan Daran
				1	1/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Rasta	0-00-46	Shareh--Aam
				<b>Kita -69</b>			<b>Total Area-</b>	<b>1-54-08</b>	
			9.Maltibag	142	142/1	Pvt.	Banjar Kadim	0-00-38	<b>Total parts (6)</b> Smt. Holma Devi d/o Jogi Ram s/o Smt. Devkali (1) share Budh Ram s/o Smt. Devkali d/o Chet Ram (3) shares Sham Lal s/o Gang Chand s/o Shobhu.(2) Shares r/o maltibag Kasht & Kabja Savyam
				145	145/1	Pvt.	Ropa Abbai	0-01-14	Dharam Chand son & Smt. Kamla devi w/o & Vishan Lal, Hukam Chand sons of Alam Chand s/o Budhu equal parts rahin r/o maltibag Smt. Kamla Devi w/o Alam Chand s/o Budhu R/o Maltibag Kasht & Kabja Savyam Murthin
				145/1	145/1/1	Pvt.	Banjar Kadim	0-01-96	Total parts (2) Deepak Suri son & Smt. Kamla Suri widow of Kuldeep Chand Suri s/o Dipti Ram Suri equal parts (1) share Manishwar Suri s/o Dipti Ram Suri s/o Himraj (1) share r/o maltibag
				148	148	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sada	0-00-39	Govt. of H.P./ Kabja PWD
				149	149	Pvt.	Banjar Kadim	0-00-49	Dharam Chand , Vishan Lal, Hakam Chand, sons & Smt. Kamla Devi w/o Alam Chand s/o Budhu equal parts r/o maltibag/ Kabja Savyam
				155	155	Pvt.	Ropa Abbai	0-00-21	Dharam Chand , Vishan Lal, Hakam

									Chand, sons & Smt. Kamla Devi w/o Alam Chand s/o Budhu equal parts r/o maltibag/ Kabja Savyam
				156	156	Pvt.	Banjar Kadim	0-00-62	Dharam Chand, Vishan Lal, Hakam Chand, sons & Smt. Kamla Devi w/o Alam Chand s/o Budhu equal parts r/o Maltibag/ Kabja Savyam
				156/1	156/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-02-41	Govt. of H.P./ Kabja PWD
				160	160/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Nalah	0-02-16	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				161	161/1	H.P.Govt..	Gair Mumkin Rasta	0-00-21	Govt. of H.P./ Shareh-Aam
				163	163/1	H.P.Govt.	Charagah	0-05-18	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				164	164/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Rasta	0-00-36	Govt. of H.P./ Shareh-Aam
				165	165/1	H.P.Govt.	Charagah	0-00-88	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				166	166/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-00-32	Govt. of H.P./ Kabja PWD
				167	167/1	H.P.Govt.	Charagah	0-01-30	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				168	168	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-08-71	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				174	174/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sada	0-00-40	Govt. of H.P./ Kabja PWD
				175	175	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-00-91	Govt. of H.P./ Kabja PWD
				176	176/1	H.P.Govt.	Charagah	0-02-31	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				177	177/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-00-20	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				179	179/1	H.P.Govt.	Charagah	0-00-75	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				180	180/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Nalah	0-00-72	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				181	181/1	H.P.Govt.	Charagah	0-10-63	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				169	169/1	H.P.Govt.	Charagah	0-08-82	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				77	77/1	Pvt.	Bagicha Bathal	0-00-87	Dharam Chand, Vishan Vishan Lal, Hakam

							Faldar		Chand, sons & Smt. Kamla Devi w/o Alam Chand s/o Budhu equal parts r/o maltibag/ Kabja Savyam
				139	139/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-90	Total parts (2) Deepak Suri son & Smt. Kamla Suri widow of Kuldeep Chand Suri s/o Dipti Ram Suri equal parts (1) share Manishwar Suri s/o Dipti Ram Suri s/o Himraj (1) share r/o maltibag
				141	141/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-08-93	Total parts (2) Deepak Suri son & Smt. Kamla Suri widow of Kuldeep Chand Suri s/o Dipti Ram Suri equal parts (1) share Manishwar Suri s/o Dipti Ram Suri s/o Himraj (1) share r/o maltibag
				182	182	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-16-81	Govt. of H.P./ Kabja PWD
				183	183	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-01-46	Govt. of H.P./ Kabja PWD
				184	184/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-01-44	Smt. Manju Suri w/o Sh. Bhuvneshwar Suri s/o Deputy Ram Kasht & Kabja Savyam
				550	550/1	H.P.Govt.	Charagah	0-18-20	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				534	534/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-00-58	Dolu s/o Labdhu s/o Patu Kasht & Kbja Savyam
				532	532/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-00-55	Suju s/o Labdhu s/o Patu Kasht & Kabja Savayam
				533	533/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-00-40	Golu s/o Labdhu s/o Patu Kasht & Kabja Savyam
				548	548	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-14-85	Govt. of H.P./ Kabja D.C. Kullu.
				547	547	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-10-39	Govt. of H.P./ Kabja PWD
				525	525/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-06-31	Total Parts (4) Kewal Krishan s/o Virja s/o Thutha (1) shares Manpreet w/o Sukhveer s/o Kulvir (3) shares Kasht & Kabja Savayam
				472	472	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-01-78	Govt. of H.P./ Kabja D.C. Kullu.

				522	522	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-00-10	Total Parts (4) Kewal Krishan s/o Virja s/o Thutha (1) shares Manpreet w/o Sukhveer s/o Kulvir (3) shares Kasht & Kabja Savayam
				474	474/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-02-26	Total Parts (4) Kewal Krishan s/o Virja s/o Thutha (1) shares Manpreet w/o Sukhveer s/o Kulvir (3) shares Kasht & Kabja Savayam
				473	473	Pvt.	Gair Mumkin Sadak	0-01-19	Total Parts (4) Kewal Krishan s/o Virja s/o Thutha (1) shares Manpreet w/o Sukhveer s/o Kulvir (3) shares Kasht & Kabja Savayam
				471	471	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-01-62	Govt. of H.P./ Kabja D.C. Kullu.
				469	469/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-00-25	Total Parts (4) Kewal Krishan s/o Virja s/o Thutha (1) shares Manpreet w/o Sukhveer s/o Kulvir (3) shares Kasht & Kabja Savayam
				470	470	Pvt.	Gair Mumkin sadak	0-00-63	Total Parts (69778800) Ami chand, Duni Chand, sons of Dorje Ram s/o Chering equal parts (55621755) shares Smt. Vanti d/o Chanchlu s/o shetu(13083525) shares Luharu s/o Khalu s/o Talku (1073520) shares r/o Malti bag
				421	421/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-03-87	Total Parts (69778800) Ami chand, Duni Chand, sons of Dorje Ram s/o Chering equal parts (55621755) shares Smt. Vanti d/o Chanchlu s/o shetu(13083525) shares Luharu s/o Khalu s/o Talku (1073520) shares r/o Malti bag
				417	417/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin	0-00-49	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan

							Sadak		Daran
				415	415/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-04-14	Total Parts(18) Rajender Prasad, Devender Prasad equal parts (2) Shares sons & Smt. Krishna Devi (4) Parts w/o Jwala Prasad s/o Murli Nick Name Madhusudhan Deepak Suri s/o Kuldeep Chand Suri s/o Dupty Ram Suri (3) Shares Manishawar suri s/o Deputy Ram s/o Hem Raj (9) shares Kasht & Kabja Savyam
				414	414/1	Pvt.	Ropa Abal	0-00-46	Total Parts(18) Rajender Prasad, Devender Prasad equal parts (2) Shares sons & Smt. Krishna Devi (4) Parts w/o Jwala Prasad s/o Murli Nick Name Madhusudhan Deepak Suri s/o Kuldeep Chand Suri s/o Dupty Ram Suri (3) Shares Manishawar suri s/o Deputy Ram s/o Hem Raj (9) shares Kasht & Kabja Savyam
				412	412/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-01-81	Smt. Shadi d/o Khimi Ram s/o Dumanu Fati Jindor Kasht & Kabja Savyam .
				418	418/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Rasta	0-01-34	Govt. of H.P./ Shareh- Aam
				419	419/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-03-12	Total parts (3120) Dharam Pal s/o Narvir Singh s/o Kalyan Singh(568) shares Bishan Lal , Roshan Lal sons of Revat Ram (240) shares. Budh Ram (808) shares s/o Naranjanu s/o Shetu Smt. Vanti d/o Chanchlu s/o Shetu (1313) shares Smt. Swari , Smt. Nimu d/o Chanchalu (143) shares Luharu s/o Khalu s/o Talku (48) shares r/o Maltibag
				420	420	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-04-18	Total parts (3120) Dharam Pal s/o Narvir Singh s/o Kalyan Singh (568) shares Bishan Lal , Roshan



									Lal sons of Revat Ram (240) shares. Budh Ram (808) shares s/o Naranjanu s/o Shetu Smt. Vanti d/o Chanchlu s/o Shetu (1313) shares Smt. Swari, Smt. Nimu d/o Chanchalu (143) shares Luharu s/o Khalu s/o Talku (48) shares r/o Maltibag
				429	429/1		Ropa Abbal	0-00-62	Total Parts (21420) Dolu s/o Labdhu so Patu (4284) Shares Chande Ram, Nande Ram, Ram Nath, Gupt Ram, Prem Chand, Ram Chand, Tara Chand, Sons of Daulat Ram s/o Shetu equal parts (4068) Shares Smt. Kaushayala Devi d/o Het Ram s/o Anant Ram (2975) Shares Pune Ram s/o Paras ram s/o Shukaru (4284) Shares Payaru ram s/o Pune Ram s/o paras Ram(4284) Shares Hardyal s/o Khimi Ram s/o Nand Ram (1525) shares r/o Maltibag
				427	427		Bagicha Ropa Faldar	0-04-74	Total Parts (24) Budh Ram s/o Shiru s/o Begu (12) shares Ram Lal, Shyam Lal sons of Maundass s/o Sivdyal equal parts (4) shares Roshan Lal s/o Prem Lal s/o Maundass (2) shares Dola Ram (1) share son & Ram Chand (3) shares s/o Bhim Sain s/o Sadh Ram Rohit s/o Sukhdyal s/o Bhim Sain (1) shares Amar Singh s/o Bhag Singh s/o Bhim Sain (1) Share r/o Malti Bag
				426	426/1		Ropa Abal	0-00-95	Total Parts (30600) Budh Ram(15771) Shares son Fati Jindor Lal Chand (2351) shares son & Gulab Dass s/o Begu s/o Teju (10540) Shares Khudu s/o Smt.

									Rewati d/o Begu (170) shares, Lal Chand son of Shigharu s/o Begu (1718) shares r/o Malti Bag
				431	431/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Kuhal	0-01-35	Gram Panchayat Kabja Savyam Aavpash Kunindgan.
				428	428/1	Pvt.	Ropa Abal	0-02-93	Total Parts (24) Budh Ram s/o Shiru s/o Begu (12) shares Ram Lal, Shyam Lal sons of Maundass s/o Sivdyal equal parts (4)shares Roshan Lal s/o Prem Lal s/o Maundass (2) shares Dola Ram (1) share son & Ram Chand (3) shares s/o Bhim Sain s/o Sadh Ram Rohit s/o Sukhdyal s/o Bhim Sain (1) shares Amar Singh s/o Bhag Singh s/o Bhim Sain (1) Share r/o Malti Bag
				460	460/1	Pvt.	Ropa Abal	0-07-68	Total Parts (30600) Budh Ram(15771) Shares son Fati Jindor Lal Chand (2351) shares son & Gulab Dass s/o Begu s/o Teju (10540) Shares Khudu s/o Smt. Rewati d/o Begu (170) shares, Lal Chand son of Shigharu s/o Begu (1718) shares r/o Malti Bag
				486	486/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Kuhal	0-01-06	Gram Panchayat Kabja Savyam Aavpash Kunindgan
				457	457	Pvt.	Ropa Abal	0-03-30	Total Parts (24) Lal Chand s/o Lotal Ram s/o Bali Ram(7) shares Smt. Dev Kala w/o Ajay Kumar s/o Madan Lal (4) shares Amar Chand son & Smt. Indra Devi, Smt. Piku Devi daughter & Smt. Kalti w/o Poshu s/o Jeetu equal parts (1) share Shitu s/o Mani ram s/o Chunkhu (8) shares Smt. Tolu widow of Deepu s/o Mani ram (4) shares r/o Malti bag
				458	458	Pvt.	Ropa Abal	0-01-66	Total Parts (24) Lal Chand s/o Lotal Ram s/o Bali Ram(7) shares

									Smt. Dev Kala w/o Ajay Kumar s/o Madan Lal (4) shares Amar Chand son & Smt. Indra Devi, Smt. Piku Devi daughter & Smt. Kalti w/o Poshu s/o Jeetu equal parts (1) share Shitu s/o Mani ram s/o Chunhu (8) shares Smt. Tolu widow of Deepu s/o Mani ram (4) shares r/o Malti bag
				512	512/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-06-21	Total Parts (108) Veeni Ram s/o Chotta Bachheru urf Chorati Chhong s/o Mal pur (36) shares Smt. Ludari d/o Bhag Chand s/o Chandu (9) shares Naveet Kumar son & Smt. Indra Devi , Smt. Sunita Smt. Kirna Smt. Sanju daughters of Jagatkaru urf Deenu s/o Khub Ram equal parts (1) shares Baldev Karishan s/o Smt. Jaidei d/o Khub Ram (1) shares Smt. Kamla Smt. Durga Smt. Savitri ,Smt. Nirmala equal parts (4) shares daughter & Smt. Utara (2) shares d/o Khub Ram s/o Bhimi Ram r/o Maltibag Smt. Devkla w/o Ajay Kumar s/o Madan Lal (10) shares r/o Fati Dhalpur Kishan Das s/o Devi Dass s/o Bhag Ram (9) shares r/o Maltibag Veer Singh s/o Surat Ram s/o Khoku (9) shares r/o Sakan Kirting muhal Ranika Teh. & Distt. Lahul Spiti Bhubneshwar Mahant s/o Krishan Dass s/o Anup Ram (27) shares r/o Malti Bag . Kabja Savyam. [Total Parts (54) Veeni Ram , Smt. Fichi equal parts (36) shares Navit Kumar Smt. Indra Devi , Smt. Sunita , Smt. Kirna Smt. Sanju equal parts (1) shares Baldev Krishan (1) shares Smt. Kamla ,

									Smt. Durga Smt. Nirmla, Smt. Savitri equal parts (4) shares Smt. Utara (2) shares Smt. Devkla (10) shares Hissadaran]
				513	513/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-01-22	Total Parts (24) Lal Chand s/o Lotal Ram s/o Bali Ram (7) shares Smt. Dev Kala w/o Ajay Kumar s/o Madan Lal (4) shares Amar Chand son & Smt. Indra Devi, Smt. Piku Devi daughter & Smt. Kalti w/o Poshu s/o Jeetu equal parts (1) share Shitu s/o Mani ram s/o Chunkhu (8) shares Smt. Tolu widow of Deepu s/o Mani ram (4) shares r/o Malti bag
				514	514/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-00-03	Total Parts (108) Veeni Ram s/o Chotta Bachheru urf Chorati Chhong s/o Mal pur (36) shares Smt. Ludari d/o Bhag Chand s/o Chandu (9) shares Naveet Kumar son & Smt. Indra Devi, Smt. Sunita Smt. Kirna Smt. Sanju daughters of Jagatkaru urf Deenu s/o Khub Ram equal parts (1) shares Baldev Karishan s/o Smt. Jaidei d/o Khub Ram (1) shares Smt. Kamla Smt. Durga Smt. Savitri, Smt. Nirmla equal parts (4) shares daughter & Smt. Utara (2) shares d/o Khub Ram s/o Bhimi Ram r/o Maltibag Smt. Devkla w/o Ajay Kumar s/o Madan Lal (10) shares r/o Fati Dhalpur Kishan Das s/o Devi Dass s/o Bhag Ram (9) shares r/o Maltibag Veer Singh s/o Surat Ram s/o Khoku (9) shares r/o Sakan Kirting muhal Ranika Teh. & Distt. Lahul Spiti Bhubneshwar Mahant s/o Krishan Dass s/o Anup Ram (27) shares r/o Malti Bag. Kabja Savyam.

									[Total Parts (54) Veeni Ram , Smt. Fichi equal parts (36) shares Navit Kumar Smt. Indra Devi , Smt. Sunita , Smt. Kirna, Smt. Sanju equal parts (1) shares Baldev Krishan (1) shares Smt. Kamla , Smt. Durga Smt. Nirmla , Smt. Savitri equal parts (4) shares Smt. Utara (2) shares Smt. Devkla (10) shares Hissadaran]
				509	509/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Kuhul	0-00-79	Gram Panchayat Kabja Savyam Aavpash Kunindgan
				511	511/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-04-05	Total Parts (108) Veeni Ram s/o Chotta Bachheru urf Chorati Chhong s/o Mal pur (36) shares Smt. Ludari d/o Bhag Chand s/o Chandu (9) shares Naveet Kumar son & Smt. Indra Devi , Smt. Sunita Smt. Kirna Smt. Sanju daughters of Jagatkaru urf Deenu s/o Khub Ram equal parts (1) shares  Baldev Karishan s/o Smt. Jaidei d/o Khub Ram (1) shares Smt. Kamla Smt. Durga Smt. Savitri ,Smt. Nirmla equal parts (4) shares daughter & Smt. Utara (2) shares d/o Khub Ram s/o Bhimi Ram r/o Maltibag ,Smt. Devkla w/o Ajay Kumar s/o Madan Lal (10) shares r/o Fati Dhalpur Kishan Das s/o Devi Dass s/o Bhag Ram (9) shares r/o Maltibag Veer Singh s/o Surat Ram s/o Khoku (9) shares r/o Sakan Kirting muhal Ranika Teh. & Distt. Lahul Spiti. Bhubneshwar Mahant s/o Krishan Dass s/o Anup Ram (27) shares r/o Malti Bag . Kabja Savyam. [Total Parts (54) Veeni Ram , Smt. Fichi equal parts (36) shares Navit Kumar Smt. Indra Devi , Smt. Sunita , Smt. Kirna,

									Smt. Sanju equal parts (1) shares Baldev Krishan (1) shares Smt. Kamla , Smt. Durga Smt. Nirmla , Smt. Savitri equal parts (4) shares Smt. Utara (2) shares Smt. Devkla (10) shares Hissadaran]
			510	510/1	Pvt.	Ropa Abal	0-00-67	Total Parts (32784) Khub Ram s/o Tikam Ram s/o Khimi Ram (2732) shares Smt. Veeni (683) shares & Lothu Smt. Banti equal parts (683) shares w/o Jagat Ram s/o Tikam Ram Smt. Sewati (2732) shares Kamla (6147) shares d/o Tikam Ram s/o Shetu Jwala Ram s/o Shetu s/o Chuharu (11592) shares Smt. Shakuntala w/o Nirmal Chand s/o Bishan Chand (1366) shares , Reshma d/o Dev Vanti d/o Shiv Dayal (1366) shares , Pushapa Devi d/o Abhay Chand s/o Jwala Ram (4800) shares Bhuwneshvar Mahant s/o Kishan Dass s/o Anoop Ram (683) shares Kasht & Kabja Sayyam	
			508	508/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-07-10	Total parts (33588) Abhir Dass , Kesar Chand s/o Tara Chand s/o Dughalu equal parts (1080) shares Samtan Chhering, Chhevang, Paldan Chhering sons of Ram saran s/o Chhoknand equal parts (2799) shares Smt. Oma vati w/o Tashi Gailsan s/o Ramsaran (933) shares Madam Gopal, Pradeep Kumar equal parts (7792) shares sons & Ramesh Kumar s/o & Smt. Bhago Devi, Smt. Lata Devi, Smt. Kamala, Smt. Usha Devi, Smt. Aruna Daughters & Smt. Durga Devi w/o Jagarnath s/o Jodha	

									Ram equal Parts (8708) shares Parma Nand (7464) shares sons & Smt. Krishna Devi (3732) shares w/o Mul Chand s/o Jodha Ram Rakesh Chand, Rajesh sons & Smt. Bhavana D/o & Smt. Premlata w/o Ludar Chand s/o Ramdiyal equal parts (1080) shares r/o , Maltibag Kabja Savayam as per Khana Kasht ; Total Parts (2) Madan Gopal , Ramesh Kumar etc. and Lata Kamla etc. (1) part Parma Nand , Krishana Devi equal parts (1) shares Hisadaran Vayan Total Parts (1075) shares Neeraj , Dheeraj sons of Rajkumar s/o Bhag Singh (300) shares Manshe Ram , Banshi urf Vens Ram , Bhagat Ram sons of Kewal Ram equal parts (244) shares Dharam Chand s/o Payaru & Payaru Ram (288) shares Gain Chand s/o Ram Singh & Ram Singh (243) shares Mushtrian Kasht Savyam Mushtri Rajan s/o & Ranjana. Priya d/o & Nilima 1/12 shares wd/o & Smt. Ishru mother of Kalu Ram s/o Chuharu Ram equal parts 1/12 shares. Baki Badasatur.
				505	505/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Kuhal	0-00-14	Gram Panchayat Kabja Savyam Aavpash Kunindgan
				502	502/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-48	Total Parts (3) Lakhi Ram (1) shares son & Pawan Kumar (2) shares sons of Kishnu. Kasht & Kbja Savyam
				206	206	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-40-04	Govt. of H.P./ Kabja PWD
				198	198/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-02-57	Surat Ram s/o Budh Ram local resident. Kasht & Kabja Savyam.
				197	197	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-03-97	Nathu Ram s/o Budh Ram s/o Shanvlu. Kasht & Kabja Savyam.

				90	90/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Raasta	0-01-35	Govt. of H.P./ Shareh-Aam
				93	93/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-88	Total Parts (48) Dhayan Chand , Fateh Chand sons of Jhabe Ram s/o Dharam Dass equal parts (6)Shares Nirat Ram s/o Dharm dass s/o Ghunfalu (12) Shares Gain chand (17) Shares son& Gautam Chand (9) Shares s/o Nirat Ram s/o Dharm Dass. Bhag Chand (2) shares son & Smt. Bhadari, Smt.Sarsuti Devi Widows of Jai Chand s/o Syam Sukh equal parts (2) r/o Maltibag
				94	94/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-01-18	Total Parts (48) Dhayan Chand , Fateh Chand sons of Jhabe Ram s/o Dharam Dass equal parts (6)Shares Nirat Ram s/o Dharm dass s/o Ghunfalu (12) Shares Gain chand (17) Shares son& Gautam Chand (9) Shares s/o Nirat Ram s/o Dharm Dass. Bhag Chand (2) shares son & Smt. Bhadari, Smt.Sarsuti Devi Widows of Jai Chand s/o Syam Sukh equal parts (2) r/o Maltibag
				95	95/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-04-40	Total Parts(3) Preetam Singh son & Smt. Maghi (1)Shares w/o Pune Ram s/o Dyalu Smt. Lacharu widow of Kalu Ram s/o Dugalu (1) Shares Saran Dass s/o Heram s/o Namalum (1) Shares r/o Malti bag
				96	96/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-80	Total Parts (3) Preetam Singh son & Smt. Maghi (1)Shares w/o Pune Ram s/o Dyalu Smt. Lacharu widow of Kalu Ram s/o Dugalu (1) Shares Saran Dass s/o Heram s/o Namalum (1) Shares r/o Malti bag
				110	110/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-00-28	Total Parts (3) Preetam Singh son & Smt. Maghi (1)Shares w/o Pune Ram s/o Dyalu



									Smt. Lacharu widow of Kalu Ram s/o Dugalu (1) Shares Saran Dass s/o Heram s/o Namalum (1) Shares r/o Malti bag
				111	111/1	Pvt.	Ropa Abal	0-00-50	Total Parts (3) Preetam Singh son & Smt. Maghi (1) Shares w/o Pune Ram s/o Dyalu Smt. Lacharu widow of Kalu Ram s/o Dugalu (1) Shares Saran Dass s/o Heram s/o Namalum (1) Shares r/o Malti bag
				112	112/1	Pvt.	Ropa Abal	0-00-74	Total Parts (21420) Dolu s/o Labdhu so Patu (4284) Shares Chande Ram, Nande Ram, Ram Nath, Gupt Ram, Prem Chand, Ram Chand, Tara Chand, Sons of Daulat Ram s/o Shetu equal parts (4068) Shares Smt. Kaushayala Devi d/o Het Ram s/o Anant Ram (2975) Shares Pune Ram s/o Paras ram s/o Shukaru (4284) Shares Payaru ram s/o Pune Ram s/o paras Ram (4284) Shares Hardyal s/o Khimi Ram s/o Nand Ram (1525) shares r/o Maltibag
				114	114/1	Pvt.	Ropa Abbal	0-00-38	Total Parts (25200) Lal Chand s/o Shiru s/o Begu (1561) shares Gulab Dass s/o Begu (4340) shares Khudu s/o Smt. Rewati d/o Begu (70) shares Tula Ram & Smt. Gehari d/o Chandu (4200) shares Preetam Singh, Prem Chand, Kishan Chand, Sham Chand, Tara Chand, equal parts (3000) shares Son & Maghi wd/o Pune Ram s/o Dayalu. (800) shares Neeraj son & Smt. Devkla wd/o Nihal Chand s/o Pune Ram, equal parts (400) shares Dharam Chand, Dughalu sons &

									Smt. Heera Mani d/o & Smt. Khudi w/o Jhalu s/o Nadu equal parts (4200) parts Kiran Kumari d/o suniti Kumar s/o Kam Nath (5901) shares Lal Chand s/o Shigharu s/o Begu (728) shares Kasht as per Khana kasht ; Tula Ram , smt. Gehari Hisadaran Vayan Preetam Singh, Prem Chand , Kishan Chand, Sham Chand, Nihal Chand, Tara Chand, sons & Maghi wd/o Pune Ram Mushtriyan Kasht Mushtriyan.
				118	118	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-02-48	Total Parts (2) Bhag Chand (1) shares Son & Smt. Bhadari , Smt. Sarsuti Devi equal party (1) shares wd/o Jai Chand Kasht & Kabja Savyam
				119	119/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-01-88	Total parts (6) Naresh Kumar, RajesKumar sons of Jai Chand (4) shares Maan Singh s/o Jogi (1) shares Shyam Chand s/o Dole Ram (1) shares
				120	120/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-01-21	Total parts (6) Naresh Kumar, RajesKumar sons of Jai Chand (4) shares Maan Singh s/o Jogi (1) shares Shyam Chand s/o Dole Ram (1) shares
				195	195/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin .Rasta	0-00-37	Govt. of H.P./ Shareh-Aam
				207	207/1	Pvt.	Ropa Abal	0-00-42	Total parts (12) Preetam Singh s/o Pune Ram s/o Dyalu (1) share Tara Chand , Sanjeev Kumar s/o Hirde Ram s/o Gekh Ram equal parts (8) shares Smt. Lacharu widow. of Kalu Ram s/o Dugalu (2) Shares Saran Dass s/o Heram s/o Namalum (1) share r/o Maltibag
				209	209/1	Pvt.	Ropa Abal	0-01-08	Total parts (22) Bhag Chand, s/o Jai Chand, (1) shares Hari Chand, s/o Khimi Ram s/o Gurudhayan (20) shares r/o Bajaura

									Smt. Badari Smt. Sarsuti wd/o Jai Chand (1) shares
				495	495/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-14	Total Parts (3) Preetam Singh son & Smt. Maghi (1) Shares w/o Pune Ram s/o Dyalu Smt. Lacharu widow of Kalu Ram s/o Dugalu (1) Shares  Saran Dass s/o Heram s/o Namalum (1) Shares r/o Malti bag
				496	496/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-18	Total Parts (3) Preetam Singh son & Smt. Maghi (1) Shares w/o Pune Ram s/o Dyalu Smt. Lacharu widow of Kalu Ram s/o Dugalu (1) Shares Saran Dass s/o Heram s/o Namalum (1) Shares r/o Malti bag Preetam Singh etc. Hisadaran Mandarza Khatoni no vayan Bhag Chand nisf son & Smt. Bhadri Smt. Sarsuti nisf Mushtriyan Kabja Savyam Mushtriyan.
				497	497	Pvt.	Gair Mumkin Sehan	0-00-14	Total Parts (3) Preetam Singh son & Smt. Maghi (1) Shares w/o Pune Ram s/o Dyalu Smt. Lacharu widow of Kalu Ram s/o Dugalu (1) Shares Saran Dass s/o Heram s/o Namalum (1) Shares r/o Malti bag
				363	363/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-28	Total Parts (108864) Bhag Chand (2079) share Bila Rahin son & Smt. Bhadari Devi, Smt. Sarsuti Devi equal parts (2079) shares Bila Rahin widows of Jaichand s/o Sham Sukh Smt. Dekid Dolma widow of Kanshi Ram s/o Gailsan (26082) shares Bila Rahin Chuharu, Shyam Chand, Budhu, sons & Smt. Chuhari, Smt. Bhagi equal parts (4560) Shares Bila rahin daughters & Smt. Katakhi (712) Shares bila rahin daughter & Smt. Murtu (40) Shares.

								Bila Rahin w/o saktu s/o Khindu Chuharu , Shayam Chand, Karma , Budhu, sons & Smt. Katki, Smt. Chuhari, Smt. Bhagi equal parts (294) shares Bila Rahin Dughters & Smt. Shali (442) shares bila rahin widow of Dasu s/o Shaktu Kala, Ramdass sons of & Smt. Dassi d/o Magharu s/o Khindu equal part (6048) Shares Rahin Smt. Ghumfi, Smt. Roopi d/o Khindu s/o Kesaru equal parts (12096) Shares bila rahin. Gitu Ram , Hari Chand, sons of Jagatu s/o Govindu equal parts (12096) shares bila rahin Mehar Chand , Veer Chand , Prem Chand, sons & Smt. Dyanu, Smt. Shanta, Smt. Kanta daughters of Chapu s/o Abalu equal parts (36288) shares bila Rahin Smt. Budhi w/o Kesaru s/o Seetu (6048) shares bila rahin r/o Maltibag Gailson s/o Sonam Angroop s/o Namalum r/o Maltibag Murathin {Kasht Savyam total pats (128) shares Bhag Chand (11) shares Smt. Bhadari Smt. Sarsuti Devi equal parts (11) shares Smt. Dekid Dolma (42) shares Smt. Dhayanu , Smt. Shanta , Smt, Kanta . Mehar Chand, Veer Chand, Prem Chand equal parts (64) shares hisadaran }
			364	364/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-37	Total Parts (36288) Bhag Chand (693) share Bila Rahin son & Smt. Bhadari Devi, Smt. Sarsuti Devi equal parts (693) shares Bila Rahin widows of Jaichand s/o Sham Sukh Smt. Dekid Dolma

								<p>widow of Kanshi Ram s/o Gailsan (6678) shares Bila Rahin Chuharu, Shyam Chand, Budhu, sons &amp; Smt. Chuhari, Smt. Bhagi equal parts (1440) Shares Bila rahin daughters &amp; Smt. Katakhi (224) Shares bila rahin daughter &amp; Smt. Thakari (120) shares bila rahin wife shaktu s/o Khindu Sham Chand, Karma, Budhu sons &amp; Smt. Katki Smt. Chuhari, Smt. Bhagi equal parts (98) shares bila rain daughters &amp; Smt. Shali widow of Dasu s/o Shaktu (134) shares Bila rahin Kala, Ramdass sons &amp; Smt. Dassi d/o Magharu s/o Khindu equal parts (2016) shares Rahin Smt. Ghumfi, Smt. Roopi d/o Khindu s/o Kesaru equal parts (4032) Shares bila rahin d/o Khindu s/o Kesaru Gitu Ram, Hari Ram sons of Jagatu s/o Govindu equal parts (4032) shares bila rahin Mehar Chand, Veer Chand, Prem Chand sons &amp; Smt. Dyanu, Smt. Shanta, Smt. Kanta daughters of Chhapu s/o Abalu equal parts (12096) shares bila rahin Smt. Budhi w/o Kesaru s/o Seetu (2016) shares bila Rahin r/o Maltibag Raju s/o Nanak Chand s/o Bhimi Ram (1008) shares bila rahin r/o Shansha Distt. Lahul Spiti Smt. Bimla w/o Raju s/o Nanak Chand (1008) shares bila rahin r/o Shansha Distt. Lahul Spiti. Gailsan s/o Sonam Angroop s/o Namalum r/o Maltibag Murathoon ] Chuharu Ram, Sham Chand, Karma, Budhu Smt. Chuhari Smt. Bhagi equal parts</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

									720 shares Smt. Sali Smt. Thakari equal parts 120 shares Smt. Kataki 112 shares Smt. Murtu 56 shares Kebu & Smt. Ghumpi Smt. Roopi equal parts 3024 shares Murathin 1008 shares hisadaran tavadla dahindgan Mandas s/o Setu s/o Dilu Fati Jindor Tabadla Garinda Kasht Savyam Tabadala Garinda
				365	365/1	H.P.Govt.	Charagah	0-00-30	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				366	366	H.P.Govt.	Charagah	0-00-39	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				367	367/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-32	Total parts (4) Prem Chand s/o Gopi (1) shares r/o Lahul Bhag Chand, Ram Chand, sons of Dolu s/o Utamu (3) shares Kasht & Kabja Savyam.
				378	378/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Abadi	0-00--56	Total Parts (221520) Jagarnath, Shesh Ram., Sher Singh, Tek Chand, Chander Singh, sons & Mahantu Devi wd/o Khub Ram s/o Tikam Ram s/o Khimi Ram (24424) Shares Gain Chand (5680) shares son & Devi Chand, Shali Chand equal parts (14200) Shares s/o Jagat Ram s/o Tikam RamHari Chand s/o Revat Ram s/o Khimi Ram (110965) Shares Ali Ram s/o Atu s/o Soiru (11360) Shares Smt. Vanti d/o Chanchlu s/o Shetu (54891) Shares r/o Maltibag
				379	379	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-01-37	Govt. of H.P./ Kabja PWD
				380	380/1	H.P.Govt.	Bathal Abal	0-00-74	Total Parts (221520) Jagarnath, Shesh Ram., Sher Singh, Tek Chand, Chander Singh, sons & Mahantu Devi wd/o Khub Ram s/o Tikam Ram s/o Khimi Ram (24424) Shares Gain Chand (5680) shares son & Devi Chand, Shali Chand equal parts

									(14200) Shares s/o Jagat Ram s/o Tikam Ram Hari Chand s/o Revat Ram s/o Khimi Ram (110965) Shares Ali Ram s/o Atu s/o Soiru (11360) Shares Smt. Vanti d/o Chanchlu s/o Shetu (54891) Shares r/o Maltibag
			266	266/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-02-85	Smt. Priya Ajeet Singh d/o Jasjeet Singh s/o Namalum R/o Trilokpur Ditt. Kangra. Kasht & Kabja Savyam	
			269	269/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-91	Hukam Chand, Dharam Chand, Mehar Chand, Gehar Chand, Prem Chand, Sons & Devaku wd/o Shangaru s/o Jagatu equal shares Kasht & Kabja Savyum	
			271	271/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-95	Hukam Chand, Dharam Chand, Mehar Chand, Gehar Chand, Prem Chand, Sons & Devaku wd/o Shangaru s/o Jagatu equal shares Kasht & Kabja Savyum	
			272	272/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-60	Hukam Chand, Dharam Chand, Mehar Chand, Gehar Chand, Prem Chand, Sons & Devaku wd/o Shangaru s/o Jagatu equal shares Kasht & Kabja Savyum	
			281	281	H.P.Govt.	Charagah	0-02-02	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran	
			230	230	Pvt.	Gair Mumkin Kuhal	0-01-32	Total parts (120) Bishan Lal, Roshan Lal sons of Rewat Ram equal shares (30) shares Budh Ram , s/o Niranjani (30) shares Smt. Banti, Himi, equal parts (45) shares Daughters & Smt. Nimu (4) shares d/o Chanchalu. Om Dhan son & Smt. Sawari d/o Smt. Nimu d/o Chanchalu equal parts (11) shares Khud Kasht	
			230/1	230/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Rasta	0-00-22	Govt. of H.P./ Shareh-Aam	

				231	231	Pvt.	Banjar Kadim	0-02-09	Dharam Chand, Vishan Lal, Hakam Chand, sons & Smt. Kamla Devi w/o Alam Chand s/o Budhu equal parts r/o maltibag/ Kabja Savyam
				232	232	Pvt.	Banjar Kadim	0-00-42	Total Parts (1040) Bishan Lal, Roshan Lal, sons of Rewat Ram (447) shares Budh Ram s/o Niranjanu (382) shares Smt. Banti d/o Chanchalu (195) shares Luharu s/o Khalu s/o Talaku (16) shares Khud Kasht
				233	233	Pvt.	Banjar Kadim	0-00-56	Roshan Lal, s/o Shambhu s/o Bihari Lal r/o Jalndhar Khud Kasht
				234	234	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-05-53	Roshan Lal, s/o Shambhu s/o Bihari Lal r/o Jalndhar Khud Kasht
				226	226/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Rasta	0-00-31	Govt. of H.P./ Shareh- Aam
				229	229/1	Pvt.	Banjar Kadim	0-01-97	Roshan Lal, s/o Shambhu s/o Bihari Lal r/o Jalndhar Khud Kasht
				228	228/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-06-88	Roshan Lal, s/o Shambhu s/o Bihari Lal r/o Jalndhar Khud Kasht
				213	213	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-03-08	Total parts (22) Bhag Chand, s/o Jai Chand, (1) shares Hari Chand, s/o Khimi Ram s/o Gurudhayan (20) shares r/o Bajaura Smt. Badari Smt. Sarsuti wd/o Jai Chand (1) shares
				214	214	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-01-90	Total parts (22) Bhag Chand, s/o Jai Chand, (1) shares Hari Chand, s/o Khimi Ram s/o Gurudhayan (20) shares r/o Bajaura Smt. Badari Smt. Sarsuti wd/o Jai Chand (1) shares
				215	215	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-01-52	Total parts (22) Bhag Chand, s/o Jai Chand, (1) shares Hari Chand, s/o Khimi Ram s/o Gurudhayan (20) shares r/o Bajaura Smt. Badari Smt. Sarsuti wd/o Jai



									Chand (1) shares
				220	220/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-03-70	Smt. Shadhi d/o Khimi Ram s/o Dumanu r/o Fati Jindor Kothi Sari Kasht & Kabja Savyam
				222	222/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Rasta	0-00-09	Govt. of H.P./ Shareh-Aam
				211	211/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Kuhal	0-00-73	Gram Panchayat Kabja Savyam Aavpash Kunindgan
				212	212/1	Pvt.	Bagicha Ropa Faldar	0-00-97	Total Parts (2) Tara Chand, Roop Lal son of Aadi Bhagat s/o Dolu equal parts (1) shares. Veeni Ram s/o Chhota Bachheru urf Chhorati Chang s/o Namalu (1) shares Khud Kasht
				209/1	209/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Kuhal	0-01-84	Gram Panchayat Kabja Savyam Aavpash Kunindgan.
				300	300	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-42-65	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				362	362/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-80	Total Parts (54432)  Bhag Chand (3024) share Bila Rahin son &  Smt. Bhadari Devi, Smt. Sarsuti Devi equal parts (3024) shares Bila Rahin widows of Jaichand s/o Sham Sukh  Smt. Dekid Dolma widow of Kanshi Ram s/o Gailsan (3024) shares Bila Rahin  Chuharu, Shyam Chand, Budhu, sons & Smt. Chuhari, Smt. Bhagi equal parts (2280) Shares Bila rahin daughters &  Smt. Kataki (356) Shares bila rahin daughter Smt. Muratu (20) shares Bila Rahin  Chuharu, Sham Chand, Karma, Budhu sons & Smt. Katki Smt. Chuhari, Smt. Bhagi equal parts (147) shares bila rehan daughters &

									<p>Smt. Shali widow of Dasu s/o Shaktu (221) shares Bila rahin</p> <p>Kala, Ramdass sons &amp; Smt. Dassi d/o Magharu s/o Khindu equal parts (3024) shares Rahin</p> <p>Smt. Ghumfi, Smt. Roopi d/o Khindu s/o Kesaru equal parts (6048) Shares bila rahin d/o Khindu s/o Kesaru</p> <p>Smt. Dehari d/o Bhagatu s/o Govindu (3024) shares bila rahin</p> <p>Mehar Chand, Veer Chand, Prem Chand sons &amp; Smt. Dyanu, Smt. Shanta, Smt. Kanta daughters of Chhapu s/o Abalu equal parts (18144) shares bila rahin</p> <p>Smt. Budhi w/o Kesaru s/o Seetu (3024) shares bila Rahin r/o Maltibag Mandass s/o Shetu s/o Dilu (9072) shares bila Rahin r/o Maltibag</p> <p>Gailsan s/o Sonam Angroop s/o Namalum r/o Maltibag Muratheen ]</p> <p>Smt. Dehari 3 shares Vaya (1) shares bila vaya Bhag Chand, 4 shares Smt. Bhadari Smt. Sarsuti equal parts 4 shares bila vayan Man Dass 13 Shares bila vaya &amp; Neez Mushtri Kasht Savyam Bila Vaya &amp; Mushatri</p>
				282	282/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-01-19	Tara Chand, Risha Lal sons of Noop Ram s/o Jeetu equal parts Kasht & Kabja Savyam
				284	284/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-50	Tara Chand, Risha Lal sons of Noop Ram s/o Jeetu equal parts Kasht & Kabja Savyam
				298	298/1	H.P.Govt.	Charagah	0-00-53	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran

				299	299/1	H.P.Govt.	Charagah	0-05-09	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				297	297/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Rasta	0-00-28	Govt. of H.P./ Shareh- Aam
				296	296/1	H.P.Govt.	Charagah	0-02-52	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				301	301/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Rasta	0-00-75	Govt. of H.P./ Shareh- Aam
				302	302/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-80	Smt. Manisha d/o Surinder Kumar s/o Mela Ram Kasht & Kabja Savyam
				304	304/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-16	Smt. Manisha d/o Surinder Kumar s/o Mela Ram Kasht & Kabja Savyam
				308	308/1	H.P.Govt.	Charagah	0-01-24	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				178	178	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-18-59	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				549	549	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-00-80	Govt. of H.P./ Tabe Hakuk Baratan Bartan Daran
				196	196	Pvt.	Ropa Abal	0-02-84	Total Parts (2) Bhag Chand (1) shares Son & Smt. Bhadari , Smt. Sarsuti Devi equal party (1) shares wd/o Jai Chand Kasht & Kabja Savyam
				Kita -136				03-93- 91	
		10. Pangan		127	127/1	H.P.Govt.	Charagah	0-04-34	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Baratan Bartandaran
				142	142/1	Pvt.	Gair Mumkin Rasta	0-02-04	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Baratan Bartandaran
				143	143/1	Pvt.	Charagah	0-00-30	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Baratan Bartandaran
				145	145/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-00-60	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Baratan Bartandaran
				350	350	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-07-18	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe- Hakuk Baratan Bartandaran
				368	368/1	H.P.Govt.	Charagah	0-02-21	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Baratan Bartandaran
				365	365	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-23-55	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Baratan Bartandaran
				378	378	H.P.Govt.	Charagah	0-00-88	Govt. of H.P./

									Kabja Savyam Tabe Hakuk Baratan Bartandaran
				360	360	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-02-40	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Lok Nirman Vibhag
				362	362	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-07-53	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Baratan Bartandaran
				364	364	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-07-20	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Lok Nirman Vibhag
				383	383/1	H.P.Govt.	Charagah	0-11-39	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Baratan Bartandaran
				379	379/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Rasta	0-01-45	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Baratan Bartandaran
				372	372/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-63	<b>Total Parts (112)</b> Amar chand s/o Dhundhu Ram s/o Chhopalu (16) shares Smt. Vimla Devi d/o Chhime Ram s/o Nahimu (7) shares Madan Lal s/o Moti s/o Nup Ram (12) shares Kishan Lal Hira Singh sons of Ranjeet S/o Nup Ram equal Parts (12) shares Sher Singh s/o Jawala Das s/o Namalum (4) shares Swar Chand s/o Shiv Chand s/o Devu (16) shares Prakash Chand , Kishan Chand equal Parts (14) shares sons & Smt. Kamla Devi (31) Shares d/o Chhime Ram s/o Nahemu r/o Panga Kabja Savyam
				373	373/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-55	<b>Total Parts (112)</b> Amar chand s/o Dhundhu Ram s/o Chhopalu (16) shares Smt. Vimla Devi d/o Chhime Ram s/o Nahimu(7) shares Madan Lal s/o Moti s/o Nup Ram (12) shares Kishan Lal Hira Singh sons of Ranjeet S/o Nup Ram equal Parts (12) shares Sher Singh s/o Jawala Das s/o Namalum (4) shares Swar Chand s/o Shiv Chand s/o Devu (16)

									shares Prakash Chand , Kishan Chand equal Parts (14) shares sons & Smt. Kamla Devi (31) Shares d/o Chhime Ram s/o Nahemu r/o Panga Kabja Savyam
				375	375/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-45	<b>Total Parts (112)</b> Amar chand s/o Dhundhu Ram s/o Chhopalu (16) shares Smt. Vimla Devi d/o Chhime Ram s/o Nahimu(7) shares Madan Lal s/o Moti s/o Nup Ram (12) shares Kishan Lal Hira Singh sons of Ranjeet S/o Nup Ram equal Parts (12) shares Sher Singh s/o Jawala Das s/o Namalum (4) shares Swar Chand s/o Shiv Chand s/o Devu (16) shares Prakash Chand , Kishan Chand equal Parts (14) shares sons & Smt. Kamla Devi (31) Shares d/o Chhime Ram s/o Nahemu r/o Panga Kabja Savyam
				376	376/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-36	<b>Total Parts (112)</b> Amar chand s/o Dhundhu Ram s/o Chhopalu (16) shares Smt. Vimla Devi d/o Chhime Ram s/o Nahimu(7) shares Madan Lal s/o Moti s/o Nup Ram (12) shares Kishan Lal Hira Singh sons of Ranjeet S/o Nup Ram equal Parts (12) shares Sher Singh s/o Jawala Das s/o Namalum (4) shares Swar Chand s/o Shiv Chand s/o Devu (16) shares Prakash Chand , Kishan Chand equal Parts (14) shares sons & Smt. Kamla Devi (31) Shares d/o Chhime Ram s/o Nahemu r/o Panga Kabja Savyam

				377	377/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-36	<b>Total Parts (112)</b> Amar chand s/o Dhundhu Ram s/o Chhopalu (16) shares Smt. Vimla Devi d/o Chhime Ram s/o Nahimu(7) shares Madan Lal s/o Moti s/o Nup Ram (12) shares Kishan Lal Hira Singh sons of Ranjeet S/o Nup Ram equal Parts (12) shares Sher Singh s/o Jawala Das s/o Namalum (4) shares Swar Chand s/o Shiv Chand s/o Devu (16) shares Prakash Chand , Kishan Chand equal Parts (14) shares sons & Smt. Kamla Devi (31) Shares d/o Chhime Ram s/o Nahemu r/o Panga Kabja Savyam
				369	369/1	Pvt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-77	Smt. Mohini Devi d/o Nanak Chand s/o Abhir Chand r/o Nangabag Kabja Savyam
				438	438/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-52	Hari Chand s/o Balwant Singh s/o Sunam Dhundhu Rahin r/o Panga Balbant Singh son & Smt. Chuhari Devi, Smt. Nagan Devi , Smt. Tashi Dolma , Smt. Phula Devi daughters & Smt. Bagpati widow of Sunam Dhundhu s/o Rihanu r/o Panga Muratehinan
				437	437/1	Pvt.	Bagicha Bathal Faldar	0-00-85	<b>Total Parts (2)</b> Balwant Singh s/o Sunam Dhundhu s/o Rihanu (1) shares Hari Chand s/o Balbant Singh s/o Sunam Dhundhu (1) shares r/o Panga
				436	436/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-00-76	Govt. of H.P./ Kabja Svayam Lok Nirman Vibhag
				435	435/1	H.P.Govt.	Bagicha Bathal Faldar	0-01-04	Govt of H.P./ Rehanu s/o Sohalu s/o Namalum R/o Pangan
				434	434/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Abadi	0-00-14	Govt of H.P./ Rehanu s/o Sohalu s/o Namalum R/o Pangan

				358	358/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-04-57	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Lok Nirman Vibhag
				356	356/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-03-83	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Lok Nirman Vibhag
				354	354/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-04-43	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Lok Nirman Vibhag
				351	351/1	H.P.Govt.	Gair Mumkin Sadak	0-15-39	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Lok Nirman Vibhag
				587	587/1	H.P.Govt.	Charagah	0-00-46	Govt. of H.P./ Kabja Savyam Tabe Hakuk Baratan Bartandaran
				355	355/1	Pvt.	Gair Mumkin Sadak	0-02-52	<b>Total Parts (5808)</b> Luharu Ram s/o Devi Ram s/o Nanaku (1944) shares Smt. Paramjeet D/o Ambi Lal s/o Sukh Ram (2178) shares Anil Kumar, Sanju, Chhering Dorje, Kamal Kumar, Sandeep Kumar sons & Smt. Anju, Smt. Reena daughters & Smt. Chhonjom Widow of Sonam Chheringh s/o Deewan Chand equal parts (121) shares Rajesh Kumar son & Smt. Alaka Devi daughter & Smt. Lobhu Devi widow of Amar Chand s/o Deewan Chand equal parts (121) shares Jagat Ram s/o Pratap Chand s/o Diwan Chand (121) shares Smt. Kedar Mani d/o Sukh Ram s/o Panchi Ram (363) shares Anant Ram s/o Nanaku s/o Chhongu (960) shares r/o Panga [[ Total parts 24 Smt. Paramjeet 18 shares Sonam Chhering 1 shares Rajesh kumar Smt. Alka Devi Smt. Lobhu Devi equal parts 1 shares Jagat Ram 1 Shares Smt. Kedar Mani 3 Shares Hisadaran Malkiyat Dahindgaan Central Govt. Malkiyat Garrinda Kabja

									Savyam Lok Nirman Vibhag
				Kita 30			Total Area-	1-08-70	

[F. No. 11012/2/2014/LA/PIU-SML]

V. KRISHNASWAMY, Director